

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 31/136**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3001	7.92	61.63	13.56	0.6621
2	3002	8.04	61.47	13.27	0.6561
3	3003	9.73	68.37	14.22	0.9458
4	3004	9.54	64.18	13.48	0.8252
5	3005	4.15	60.73	12.7	0.32
6	3006	10.03	66.38	13.56	0.9027
7	3007	8.58	68.72	12.02	0.7087
8	3008	9.5	65.29	13.06	0.8104
9	3009	8.1	66.68	14.05	0.759
10	3010	7.73	65.77	12.85	0.6532
11	3011	7.53	63.91	13.63	0.6559
12	3012	9.71	63.71	13.53	0.837
13	3013	3.91	63.93	12.53	0.3132
14	3014	8.14	62.99	13.37	0.6854
15	3015	7.88	64.47	12.49	0.6343
16	3016	9.62	67.13	12.23	0.7898
17	3017	4.34	65.4	14.14	0.4015
18	3018	8.92	70.76	13.64	0.8608
19	3019	6.57	69.24	13.75	0.6255
20	3020	10.64	56.52	12.88	0.7746
21	3021	7.6	63.29	11.58	0.5571
22	3022	8.09	60.11	12.71	0.6181
23	3023	8.12	59.63	13.75	0.6658
24	3024	10.28	66.79	14.43	0.991
25	3025	9.9	61.2	13.24	0.8019
26	3026	8.08	60.61	13.2	0.6464
27	3027	9.48	63.68	13.44	0.8115
28	3028	10.47	63.46	13.41	0.891
29	3029	9.34	63.1	13.39	0.7892
30	3030	8.62	63.01	12.49	0.6784
31	3031	7.9	65.67	13.96	0.7244
32	3032	8.76	65.12	13.47	0.7683
33	3033	8.26	62.54	12.7	0.6558
34	3034	9.38	61.95	12.91	0.7504
35	3035	8.54	65.42	12.89	0.7199
36	3036	7.59	62.33	12.64	0.5981
37	3037	8.26	62.24	12.84	0.66
38	3038	10.01	69.09	13.17	0.9109
39	3039	8.29	62.75	13.61	0.708
40	3040	8.06	67.92	12.96	0.7093
41	3041	7.72	62.7	12.85	0.6222
42	3042	8.23	64.76	13.56	0.7226
43	3043	8.23	61.39	11.99	0.6057
44	3044	9.83	68.41	12.69	0.8532

45	3045	9.62	66.32	13.87	0.885
46	3046	9.49	64.09	13.11	0.7972
47	3047	8.52	68.11	13.32	0.7728
48	3048	7.96	68.88	15.04	0.8247
49	3049	8.06	63.13	13.58	0.6907
50	3050	9.53	65.87	12.78	0.8024
51	3051	4.98	55.53	13.38	0.37
52	3052	4.05	62.57	14.99	0.3799
53	3053	4.92	58.1	14.39	0.4113
54	3054	6.86	59.84	14.12	0.5797
55	3055	4.12	52.13	12.97	0.2785
56	3056	9.87	58.41	11.71	0.6751
57	3057	8.36	61.88	15.26	0.7892
58	3058	4.54	61.44	15.35	0.4281
59	3059	9.75	54.05	13.17	0.6942
60	3060	8.06	61.73	15.36	0.7641
61	3061	5.69	61.85	15.25	0.5366
62	3062	8.04	58.46	13.27	0.6239
63	3063	9.42	61.89	15.35	0.8949
64	3064	3.27	61.87	15.31	0.3097
65	3065	8.28	57.22	13.07	0.6193
66	3066	5.66	61.8	15.05	0.5264
67	3067	5.76	58.42	14.52	0.4884
68	3068	9.87	62.4	13.04	0.8034
69	3069	2.87	54.2	13.63	0.2121
70	3070	8.01	61.74	13.04	0.6448
71	3071	9.82	61.72	15.38	0.9319
72	3072	4.91	61.64	15.46	0.4679
73	3073	9.85	60.91	15.5	0.9298
74	3074	5.79	59.56	13.2	0.4551
75	3075	10.13	58.44	12.58	0.7446
76	3076	4.2	55.31	13.29	0.3087
77	3077	4.97	62.01	15.29	0.4712
78	3078	8.08	51.84	13.77	0.5769
79	3079	7.57	61.43	13.87	0.645
80	3080	8.23	62.56	13.25	0.6823
81	3081	10.06	61.72	15.26	0.9477
82	3082	7.97	61.59	15.38	0.7548
83	3083	9.59	61.44	15.28	0.9005
84	3084	5.53	51.25	13.99	0.3965
85	3085	8.14	55.03	13.97	0.626
86	3086	5.52	51.38	13.06	0.3704
87	3087	9.94	61.53	15.39	0.9413
88	3088	9.58	61.77	15.22	0.9005
89	3089	7.21	61.51	15.31	0.6792
90	3090	9.81	61.77	15.36	0.931
91	3091	5.67	58.12	14.38	0.474
92	3092	8.32	58.36	11.34	0.5508
93	3093	8.28	59.5	10.76	0.5299
94	3094	5.56	59.04	13.63	0.4476

95	3095	8.17	61.23	13.05	0.6528
96	3096	8	58.92	14	0.66
97	3097	5.72	58.68	12.8	0.4296
98	3098	5.84	60.86	12.59	0.4473
99	3099	5.92	63.26	14.13	0.5292
100	3100	9.61	61.86	15.23	0.9053

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 30/135

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2901	8.02	58.19	13.46	0.628
2	2902	8.27	58.32	12.81	0.6178
3	2903	8.5	55.12	12.28	0.5754
4	2904	8.5	60.61	12.01	0.6188
5	2905	8.23	55.27	12.14	0.5522
6	2906	9.98	54.57	13.05	0.7106
7	2907	4.93	57.61	12.83	0.3643
8	2908	7.98	54.3	12.56	0.5442
9	2909	8.07	55.63	13.9	0.6238
10	2910	7.82	56.75	13.41	0.5951
11	2911	7.93	55.58	14.95	0.659
12	2912	8.05	50.79	12.76	0.5216
13	2913	10.31	55.74	12.68	0.7289
14	2914	4.2	54.92	12.56	0.2898
15	2915	10.41	52.41	13.36	0.7287
16	2916	4.27	50.77	14.42	0.3126
17	2917	10.43	53.67	13.28	0.7437
18	2918	7.95	45.97	13.33	0.4873
19	2919	4.77	53.46	12.66	0.3229
20	2920	7.91	49.36	13.13	0.5126
21	2921	6.66	55.38	12.77	0.4709
22	2922	10.07	51.9	12.81	0.6697
23	2923	7.55	57.58	13.69	0.5949
24	2924	7.99	56.29	13.79	0.62
25	2925	4.32	58.38	13.38	0.3374
26	2926	8.42	53.94	12.98	0.5894
27	2927	10.48	61.17	13.06	0.8374
28	2928	8.31	55.49	14.04	0.6473
29	2929	7.64	55.97	13.88	0.5936
30	2930	4.06	53.04	13.4	0.2887
31	2931	10.51	53.2	12.88	0.7199
32	2932	10.4	57.98	12.42	0.7488
33	2933	8.54	53.29	12.78	0.5816
34	2934	10.37	55.66	13.08	0.7549
35	2935	4.26	57.81	12.84	0.3161
36	2936	5.35	61.41	13.03	0.428
37	2937	8.22	54.56	12.77	0.5729
38	2938	8.47	53.86	12.48	0.5692
39	2939	9.88	53.94	11.66	0.6215
40	2940	7.93	60.79	11.58	0.5583
41	2941	8.26	55.65	11.03	0.5072

42	2942	8.4	57.16	12.61	0.6056
43	2943	9.59	60.21	13.52	0.7806
44	2944	8.08	60.71	12.8	0.6278
45	2945	9.29	56.99	11.97	0.6336
46	2946	8.8	59.83	11.82	0.6222
47	2947	8.38	60.1	11.53	0.5807
48	2948	9.91	54.17	12.55	0.6739
49	2949	8.22	60.91	13.63	0.6823
50	2950	9.87	59.53	12.28	0.7215
51	2951	8.29	58.78	11.65	0.5679
52	2952	10.08	62.24	11.71	0.7348
53	2953	8.61	58.2	12.15	0.6087
54	2954	8.2	58.26	11.47	0.5478
55	2955	8.7	57.4	12.63	0.6308
56	2956	8.92	57.25	12.87	0.6574
57	2957	9.44	62.2	13.17	0.7731
58	2958	9.66	54	12.02	0.6269
59	2959	8.41	64.27	12.7	0.6863
60	2960	9.91	62.71	13.47	0.8374
61	2961	8.62	65.65	12.8	0.7241
62	2962	10.25	63.15	13.63	0.8825
63	2963	8.25	64.92	13.11	0.7021
64	2964	8.3	62.82	12.46	0.6499
65	2965	8.36	62.07	11.74	0.6094
66	2966	9.71	63.31	12.07	0.7418
67	2967	8.1	60.32	13.31	0.6504
68	2968	8.13	55.8	13.33	0.6049
69	2969	8.26	58.67	13.04	0.6319
70	2970	8.22	62.74	12.58	0.6486
71	2971	8.2	60.6	13.78	0.6847
72	2972	8.67	61.68	12.06	0.645
73	2973	8.05	60.57	12.04	0.5868
74	2974	8.08	61.91	11.69	0.585
75	2975	7.98	59.06	12.75	0.6009
76	2976	8.06	56.78	13.33	0.6101
77	2977	9.96	62.18	12.93	0.8008
78	2978	9.97	63.91	11.25	0.7168
79	2979	8.24	65.54	13.61	0.735
80	2980	8.32	63.27	13.31	0.7005
81	2981	9.99	63.18	14.77	0.9321
82	2982	8.35	66.14	12.23	0.6755
83	2983	8.45	63.84	14.51	0.7825
84	2984	8.07	65.47	12.48	0.6593
85	2985	8.22	63.39	12.97	0.6757
86	2986	8.34	62.64	13.04	0.6814
87	2987	8.22	65.11	13.62	0.7291
88	2988	9.7	66.72	12.04	0.7789
89	2989	9.66	67.55	11.52	0.7515
90	2990	8.55	57.72	12.66	0.625
91	2991	10	59.9	13.34	0.799

92	2992	8.98	58.91	13.02	0.6888
93	2993	8.41	58.03	14.11	0.6888
94	2994	7.83	62.88	12.02	0.5919
95	2995	8.03	60.41	13.57	0.6585
96	2996	10.2	65.12	14.62	0.971
97	2997	10.29	62.44	12.35	0.7934
98	2998	8.44	63.16	13.16	0.7014
99	2999	8.21	61.65	13.41	0.679
100	3000	8.18	63.09	13.73	0.7084

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 26/131

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2501	7.93	61.68	11.51	0.563
2	2502	10.49	61.12	12.21	0.7826
3	2503	9.71	58.92	12.32	0.7049
4	2504	10.31	61.54	11.6	0.7361
5	2505	9.28	59.42	13.11	0.7229
6	2506	7.63	64.16	11.69	0.5723
7	2507	8.36	65.13	12.44	0.6772
8	2508	8.11	64.94	14	0.7372
9	2509	9.95	56.58	13.11	0.7383
10	2510	8.25	66.02	13.45	0.7326
11	2511	8.12	58.11	12.72	0.6001
12	2512	9.48	63.45	14.12	0.8494
13	2513	8.32	62.06	12.78	0.6598
14	2514	10.17	60.58	11.79	0.7261
15	2515	10.18	62.72	12.61	0.8052
16	2516	9.7	62.22	13.79	0.8323
17	2517	7.76	68.26	13.71	0.7263
18	2518	9.68	62.86	12.19	0.7415
19	2519	9.81	63.08	13.82	0.8554
20	2520	7.93	61.74	13.27	0.6495
21	2521	8.11	64.12	12.77	0.6642
22	2522	7.82	61.27	12.6	0.6037
23	2523	7.76	67.08	12.85	0.6689
24	2524	7.61	64.79	12.86	0.6339
25	2525	9.83	65.02	10.92	0.6979
26	2526	8.29	65.78	12.39	0.6756
27	2527	8.57	55.34	11.62	0.5511
28	2528	8.65	54.16	13.2	0.6185
29	2529	8.04	54.22	12.6	0.5491
30	2530	10.92	55.94	11.58	0.7076
31	2531	8.62	51.55	12.36	0.5491
32	2532	10.49	62.03	10.9	0.7091
33	2533	10.47	52.43	11.98	0.6575
34	2534	10.49	57.09	13.8	0.8266
35	2535	10.39	60.21	12.36	0.773
36	2536	10.44	64.33	12.65	0.8498
37	2537	8.76	57.92	12.9	0.6544
38	2538	8.13	57.29	11	0.5122

39	2539	8.09	60.2	11.84	0.5768
40	2540	9.27	59.9	12.87	0.7147
41	2541	8.45	58.2	13.76	0.6768
42	2542	10.46	58.48	12.93	0.7908
43	2543	10.39	60.59	14.33	0.9019
44	2544	10.34	51.1	13.15	0.6948
45	2545	8.2	62.09	13.34	0.679
46	2546	8.26	59.99	12.75	0.6319
47	2547	10.22	59.98	13.25	0.8125
48	2548	8.53	60.82	13.15	0.6824
49	2549	8.52	65.59	11.45	0.6399
50	2550	10.36	67.62	12.79	0.8961
51	2551	8.56	48.66	13.26	0.5521
52	2552	10.44	53.51	13.38	0.7475
53	2553	8.6	58.3	13.72	0.688
54	2554	8.39	53.08	13.68	0.6091
55	2555	8.89	57.63	14.14	0.7245
56	2556	7.87	60.16	14.06	0.6658
57	2557	8.22	59.96	11.91	0.5869
58	2558	8.59	60.9	12.05	0.6305
59	2559	7.59	60.28	12.14	0.5556
60	2560	8.19	57.45	13.52	0.6364
61	2561	9.98	62.48	11.56	0.7206
62	2562	8.46	60.45	13.28	0.6793
63	2563	8.12	54.14	13.26	0.583
64	2564	8.82	59.3	14.22	0.7435
65	2565	8.19	63.7	10.93	0.57
66	2566	7.89	60.81	14.21	0.6817
67	2567	8.14	59.1	13.99	0.6732
68	2568	7.88	54.01	14.29	0.6083
69	2569	8.59	60.24	14.77	0.7645
70	2570	4.27	50.84	14.16	0.3074
71	2571	7.77	61.33	12.59	0.5998
72	2572	8.07	66.13	12.66	0.6755
73	2573	9.82	59.44	12.05	0.7031
74	2574	9.75	61.25	13.01	0.7771
75	2575	8.44	60.53	10.8	0.552
76	2576	8.09	63.73	14.25	0.7346
77	2577	10.61	64.62	13.32	0.9135
78	2578	8.41	61.72	11.86	0.6156
79	2579	8.02	58.52	12.35	0.5798
80	2580	7.95	67.36	14.03	0.7513
81	2581	9.79	64.13	14.39	0.9036
82	2582	7.91	64.26	9.77	0.4967
83	2583	10.26	61.77	13.31	0.8434
84	2584	9.78	61.41	14.04	0.843
85	2585	9	62.11	13.33	0.7452
86	2586	8.32	64.35	13.22	0.708
87	2587	8.04	66.03	14.58	0.7743
88	2588	8.21	63.2	13.21	0.6855

89	2589	8.51	64.49	12.25	0.6723
90	2590	8	59.52	12.1	0.576
91	2591	9.61	64.89	13.82	0.862
92	2592	8.27	62.94	11.68	0.6078
93	2593	8.48	54.15	13.5	0.6199
94	2594	8.11	58.69	13.03	0.6204
95	2595	8.28	58.06	13.07	0.6285
96	2596	8.52	62.69	11.92	0.6364
97	2597	7.94	64.82	13.88	0.7146
98	2598	9.8	64.1	13.17	0.8271
99	2599	10.16	56.3	13.11	0.7498
100	2600	8.14	65.3	11.68	0.6211

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 25/48

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2401	10.85	56.23	12.13	0.74
2	2402	8.41	58.74	12.27	0.6064
3	2403	10.39	57.79	10.82	0.6494
4	2404	10.73	58.46	11.2	0.7028
5	2405	10.43	59.35	10.5	0.6498
6	2406	8.89	59.98	11.04	0.5885
7	2407	10.72	61.21	10.28	0.6743
8	2408	10.55	60.65	10.72	0.6858
9	2409	8.33	56.8	10.18	0.4815
10	2410	10.76	63.45	12.01	0.8199
11	2411	10.63	59.27	10.63	0.6697
12	2412	10.39	62.48	11.91	0.773
13	2413	8.32	61.83	10.72	0.5516
14	2414	10.25	57.3	10.75	0.6314
15	2415	10.47	59.5	11.95	0.7444
16	2416	10.62	64.62	10.12	0.6945
17	2417	9.81	53.93	11.87	0.6278
18	2418	8.18	49.58	12.12	0.4916
19	2419	8.37	55.29	11.5	0.5323
20	2420	9.29	56.69	12.4	0.6531
21	2421	9.44	54.62	13.51	0.6967
22	2422	8.34	53.08	11.12	0.4921
23	2423	8.36	63.46	13.68	0.7256
24	2424	8.52	61.23	13.25	0.691
25	2425	8.15	51.14	12.4	0.5167
26	2426	9.67	55.67	12.57	0.6769
27	2427	7.84	58.13	13.76	0.6272
28	2428	8.5	61.93	12.08	0.6358
29	2429	8.3	58.62	12.57	0.6117
30	2430	9.89	62.54	12.33	0.7625
31	2431	8.43	55.46	12.59	0.5884
32	2432	7.95	56.99	14.04	0.636
33	2433	8.12	56.58	12.62	0.5798
34	2434	10.01	56.66	13.08	0.7417
35	2435	9.9	57.61	12.67	0.7227

36	2436	9.82	58.37	13.02	0.7463
37	2437	9.15	57.09	11.7	0.6112
38	2438	10.03	57.89	13.3	0.7723
39	2439	8.54	54.95	13.36	0.6268
40	2440	4.01	62.27	12.37	0.3088
41	2441	8.22	60.32	12.67	0.628
42	2442	10.05	53.42	12.75	0.6844
43	2443	8.06	57.97	12.99	0.6069
44	2444	10.29	57.53	11.73	0.6946
45	2445	10.28	49.17	13.77	0.696
46	2446	7.85	52.4	12.65	0.5205
47	2447	9.88	56.35	11.41	0.6353
48	2448	8.23	54.7	12.76	0.5745
49	2449	8.71	57.55	12.49	0.6262
50	2450	8.02	52.72	8.71	0.3681
51	2451	4.21	54.04	13.93	0.317
52	2452	10.16	57.3	12.77	0.7437
53	2453	10.52	59.83	13.86	0.8721
54	2454	8.48	60.55	12.77	0.6555
55	2455	8.48	59.86	11.88	0.6029
56	2456	10.28	56.52	13	0.7556
57	2457	10.14	62.42	12.56	0.795
58	2458	10.26	56.55	12.29	0.7131
59	2459	9.77	64.28	14.08	0.8842
60	2460	10.14	56.91	13.16	0.7595
61	2461	8.25	59.79	13.15	0.6485
62	2462	9.3	59.34	13.16	0.7263
63	2463	10.26	54.59	13.74	0.7695
64	2464	8.45	59.47	12.26	0.616
65	2465	4.34	59.4	12.56	0.3238
66	2466	10.11	55.47	12.08	0.6774
67	2467	9.84	65.47	13.82	0.8905
68	2468	9.54	60.17	13.1	0.7518
69	2469	9.58	59.95	13.39	0.7693
70	2470	9.59	66.26	13.18	0.8372
71	2471	8.1	51.88	12.22	0.5135
72	2472	10.53	52.63	12.2	0.676
73	2473	10.34	58.71	11.97	0.7269
74	2474	8.15	59.79	12.03	0.586
75	2475	10.34	55.55	12.64	0.7259
76	2476	10.63	56.04	11.62	0.692
77	2477	9.37	57.75	12.45	0.6737
78	2478	8.06	56.71	13.45	0.615
79	2479	8.12	56.7	13.46	0.6196
80	2480	8.27	60.34	11.52	0.5748
81	2481	10.56	60.44	11.17	0.7128
82	2482	8.49	63.69	10.41	0.5629
83	2483	8.13	57.12	12.9	0.5992
84	2484	8.74	60.51	11.35	0.6004
85	2485	10.32	57.38	10.81	0.6398

86	2486	8.58	59.56	13.57	0.6933
87	2487	8.28	60.83	11.43	0.5755
88	2488	8.28	58.28	12.9	0.6227
89	2489	8.24	63.25	13.41	0.6988
90	2490	9.42	64.57	13.88	0.844
91	2491	10.71	58.97	12.33	0.7786
92	2492	10.12	57.31	12.04	0.6983
93	2493	9.85	58.57	12.75	0.7358
94	2494	10.26	57.68	12.34	0.7305
95	2495	10.07	61.39	11.76	0.7271
96	2496	8.2	62.62	12.92	0.6634
97	2497	8.89	63.13	11.61	0.6516
98	2498	7.79	62.83	13.93	0.6816
99	2499	9.42	61.05	13.81	0.7941
100	2500	9.57	63.2	12.23	0.7398

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 24/47

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2301	8.2	61.24	13.32	0.6691
2	2302	10.34	57.77	13.28	0.7931
3	2303	8.23	53.71	13.54	0.5983
4	2304	9.53	54.62	13.84	0.7205
5	2305	8.17	57.17	12.89	0.6021
6	2306	7.43	57.8	13.74	0.5899
7	2307	9.66	62.5	13.22	0.7979
8	2308	10.37	62.22	13.24	0.8545
9	2309	9.93	62.13	14	0.8639
10	2310	9.39	61.35	13.43	0.7737
11	2311	8.83	61.79	13.8	0.7532
12	2312	10.3	61.01	13.52	0.8497
13	2313	9.95	59.37	13.74	0.8119
14	2314	9.77	59.29	13.59	0.7875
15	2315	10.27	63.21	13.64	0.8853
16	2316	7.85	57.99	14.04	0.639
17	2317	8.16	55.22	11.99	0.5402
18	2318	8.75	52.73	13.35	0.616
19	2319	9.86	54.31	13.46	0.7208
20	2320	8.2	57.11	13.5	0.6322
21	2321	8.1	51.18	13.46	0.5581
22	2322	9.85	56.67	13.39	0.7476
23	2323	8.44	56.18	12.42	0.5891
24	2324	9.82	55.84	12.95	0.71
25	2325	9.92	52.58	12.91	0.6736
26	2326	7.54	57.62	13.87	0.6024
27	2327	10.14	61.15	13.85	0.8589
28	2328	10.04	61.88	14.46	0.8986
29	2329	9.79	53.99	12.52	0.6618
30	2330	10.72	62.17	14.09	0.9391
31	2331	10.05	57.89	12.25	0.7125
32	2332	9.95	59.66	12.19	0.7234

33	2333	8.31	62.86	11.44	0.5975
34	2334	4.75	50.87	12.11	0.2926
35	2335	7.89	59.69	13.7	0.6454
36	2336	7.93	51.23	13.06	0.5305
37	2337	8.36	64.74	10.77	0.5827
38	2338	10.27	61.79	13.21	0.838
39	2339	10.78	58.88	12.5	0.7934
40	2340	8.5	66.23	11.82	0.6656
41	2341	8.94	60.09	13.06	0.7018
42	2342	10.52	61.64	13.16	0.8532
43	2343	10.32	63.87	12.93	0.8524
44	2344	7.96	53.01	11.66	0.4919
45	2345	6.62	47.01	11.27	0.3509
46	2346	7.52	47.88	12.16	0.4377
47	2347	8.46	60.96	11.5	0.593
48	2348	8.53	52.89	12.31	0.5553
49	2349	8.46	58.24	12.33	0.6074
50	2350	8.39	53.74	12.54	0.5655
51	2351	5.13	59.37	13.05	0.3976
52	2352	8.86	61.07	13.26	0.7177
53	2353	8.58	58.49	12.51	0.6281
54	2354	8.58	62.24	13.17	0.7036
55	2355	8.01	56.93	14.75	0.6728
56	2356	7.72	54.26	13.67	0.5728
57	2357	4.41	59.19	13.87	0.3621
58	2358	10.23	51.9	11.98	0.6363
59	2359	8.25	60.64	12.52	0.6262
60	2360	9.89	54.35	12.68	0.6814
61	2361	8.15	63.62	13.69	0.7099
62	2362	8.38	62.3	12.86	0.6712
63	2363	8.07	54.04	10.84	0.4729
64	2364	8.26	55.08	13.16	0.5989
65	2365	8.07	49.8	11.79	0.4737
66	2366	8.21	50.71	12.58	0.5238
67	2367	9.68	55.26	12.14	0.6495
68	2368	8.06	56.3	10.99	0.4989
69	2369	10.08	54.04	12.45	0.6784
70	2370	8.84	62.22	10.37	0.5702
71	2371	9.04	55.12	12.03	0.5994
72	2372	8.08	55.09	12.31	0.5478
73	2373	8.3	59.53	11.61	0.5735
74	2374	8	56.41	11.4	0.5144
75	2375	10.42	59.8	12.88	0.8023
76	2376	10.22	59.09	12.2	0.7369
77	2377	8.89	58.23	12.07	0.625
78	2378	8.01	55.51	13.1	0.5823
79	2379	10.16	60.02	13.51	0.824
80	2380	10.35	53.96	10.82	0.6044
81	2381	8.27	59.25	12.3	0.6029
82	2382	10.26	59.1	13.54	0.8208

83	2383	8.22	57.25	11.53	0.5425
84	2384	9.95	58.27	11.17	0.6477
85	2385	8.08	55.52	12.3	0.5519
86	2386	8.42	61.79	12.9	0.6711
87	2387	10.15	60.77	11.55	0.7125
88	2388	8.32	55.08	10.98	0.5034
89	2389	8.59	63.23	11.21	0.609
90	2390	8	59.91	12.37	0.5928
91	2391	10.3	55.09	12.18	0.6911
92	2392	9.49	62.56	11.41	0.6776
93	2393	8.57	61.42	11.48	0.6042
94	2394	10.22	59.49	10.62	0.6459
95	2395	10.2	65.49	11.41	0.7619
96	2396	8.29	64.41	12.3	0.6566
97	2397	8.58	65.32	10.73	0.6015
98	2398	8.17	60.41	11.69	0.5768
99	2399	9.99	63.12	12.45	0.7852
100	2400	8.49	54.13	9.66	0.444

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 20/43

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1901	4.83	56.19	14.72	0.3994
2	1902	7.63	54.61	13.39	0.5578
3	1903	7.52	51.99	12.6	0.4926
4	1904	8.07	63.77	14.22	0.7319
5	1905	9.76	59.07	15.2	0.8764
6	1906	2.79	58.88	13.86	0.2277
7	1907	7.93	59.32	12.63	0.594
8	1908	9.21	55.37	13.26	0.676
9	1909	9.25	57.49	13.78	0.7326
10	1910	4.54	59.04	12.82	0.3437
11	1911	8.41	62.07	13.31	0.6947
12	1912	9.6	67.62	12.91	0.8381
13	1913	7.87	52.1	12.23	0.5013
14	1914	6.89	56.06	12.65	0.4885
15	1915	9.79	55.85	11.69	0.6393
16	1916	10.23	59.4	12.36	0.7509
17	1917	8.2	55.3	13.15	0.5961
18	1918	9.64	57.67	14.29	0.7943
19	1919	9.95	56.16	13.3	0.7433
20	1920	8.08	55.81	11.75	0.53
21	1921	8.37	56.79	11.55	0.5491
22	1922	9.81	57.63	11.59	0.6553
23	1923	6.99	54.31	12.59	0.4781
24	1924	9.65	57.79	14.19	0.7913
25	1925	8.29	50.73	12.04	0.5065
26	1926	8.1	56.08	11.68	0.5306
27	1927	8.23	58.25	14.03	0.6724
28	1928	8.44	57.53	11.28	0.5478
29	1929	8.07	62.06	12.83	0.6424

30	1930	8.18	60.53	12.92	0.6397
31	1931	8.18	60.95	12.17	0.607
32	1932	7.83	59.86	12.31	0.5771
33	1933	8.6	54.95	11.32	0.5349
34	1934	10.14	59.33	11.92	0.7169
35	1935	8.24	62.98	12.43	0.6452
36	1936	10.08	59.03	13.4	0.7973
37	1937	10.41	49	11.22	0.5726
38	1938	8.28	55.04	11.34	0.5167
39	1939	8.06	46.52	12.58	0.4715
40	1940	8.44	52.01	12.06	0.5292
41	1941	8.29	50.15	11.59	0.4816
42	1942	8.41	50.58	11.63	0.4945
43	1943	8.13	59.12	11.71	0.5626
44	1944	10.37	58.8	11.51	0.702
45	1945	10.57	55.1	10.89	0.6342
46	1946	10.17	56.89	11	0.6366
47	1947	10.08	53.68	11.14	0.6028
48	1948	10.13	53.19	11.9	0.6412
49	1949	4.25	49.14	12.33	0.2575
50	1950	4.35	57.54	13.26	0.3319
51	1951	9.29	56.87	13.17	0.6958
52	1952	7.7	55.85	12.3	0.529
53	1953	4.43	53.85	13.2	0.315
54	1954	7.66	58.86	12.5	0.5638
55	1955	7.64	57.18	12.52	0.547
56	1956	7.42	55	13.53	0.552
57	1957	4.59	61.18	13.42	0.3768
58	1958	7.69	56	12.14	0.5229
59	1959	4.39	55.13	13.57	0.3284
60	1960	7.46	59.63	13.45	0.5983
61	1961	7.81	59.54	12.75	0.5928
62	1962	7.91	60.94	13.44	0.6478
63	1963	7.45	56.39	12.7	0.5334
64	1964	7.77	57.51	12.61	0.5633
65	1965	7.61	57.16	12.56	0.5464
66	1966	7.54	55.1	12.5	0.5195
67	1967	7.43	57	12.88	0.5454
68	1968	7.38	56.73	12.66	0.5299
69	1969	7.37	56.92	12.61	0.5292
70	1970	9.21	53.39	13.5	0.664
71	1971	7.65	50.48	13.02	0.5026
72	1972	9.97	55.61	12.52	0.6939
73	1973	4.45	54.38	13.53	0.3275
74	1974	10.36	60.46	12.22	0.7656
75	1975	9.45	53.53	12.18	0.6161
76	1976	10.35	50.68	13.81	0.7245
77	1977	8.33	56.88	12.64	0.5989
78	1978	9.98	59.15	12.63	0.7455
79	1979	11.04	49.95	12.51	0.69

80	1980	10.8	55.1	11.43	0.6804
81	1981	10.74	52.64	12.41	0.7013
82	1982	10.72	52.27	12.4	0.6947
83	1983	8.51	56	12.86	0.6127
84	1984	10.7	56.1	11.34	0.6805
85	1985	8.65	61.31	13.33	0.7067
86	1986	8.54	57.56	12.14	0.5969
87	1987	8.61	58.19	14.06	0.7043
88	1988	9.99	58.5	11.25	0.6573
89	1989	10.41	56.09	12	0.7006
90	1990	10.53	61.31	12.74	0.8224
91	1991	8.9	60.18	10.82	0.5794
92	1992	8.07	60.34	13.94	0.6787
93	1993	10.6	60.22	12.07	0.7706
94	1994	10.5	59.11	10.91	0.6773
95	1995	9.92	57.41	12.84	0.7311
96	1996	10.31	54.03	13.75	0.766
97	1997	10.25	58.13	13.21	0.7872
98	1998	10.16	57.17	12.4	0.7203
99	1999	8.6	61.63	11.44	0.6063
100	2000	10.53	65.67	12.01	0.8308

Date: 06.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 32/137**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3101	4.66	50.53	13.22	0.3113
2	3102	3.57	55	13.29	0.261
3	3103	8.09	54.02	13.44	0.5873
4	3104	8.08	59.26	13.58	0.6504
5	3105	9.73	55.06	14.02	0.7512
6	3106	9.58	55.34	13.7	0.7262
7	3107	4.44	64.3	9.83	0.2806
8	3108	8.29	63.6	12.72	0.6707
9	3109	5.77	59.51	13.24	0.4547
10	3110	2.36	58.01	14.05	0.1923
11	3111	8.33	60.48	12.98	0.6539
12	3112	8.45	49.39	13.93	0.5814
13	3113	9.49	62.34	11.87	0.7023
14	3114	6.56	63.02	14.42	0.5963
15	3115	8.11	64.01	13.37	0.6942
16	3116	8.32	57.37	12.1	0.5774
17	3117	8.14	62.96	12.99	0.6659
18	3118	4.83	60.05	14.15	0.4105
19	3119	9.76	66.27	13.4	0.8667
20	3120	5.67	64.13	12.97	0.4717
21	3121	8.25	60.21	13.45	0.6683
22	3122	10.13	40.56	15.68	0.6443
23	3123	7.94	47.44	13.74	0.5177
24	3124	10.06	43.51	15.26	0.668
25	3125	8.41	35.65	17.28	0.5181
26	3126	8.06	44.18	15.14	0.5392
27	3127	10.06	53.64	13.11	0.7072
28	3128	9.74	61.35	16.09	0.9613
29	3129	8.37	43.74	15.32	0.5608
30	3130	8.56	48.03	14.8	0.6086
31	3131	10.16	61.13	13.22	0.8209
32	3132	8.4	61.35	13.17	0.6787
33	3133	8.41	54.49	15.18	0.6955
34	3134	7.56	55.89	15.48	0.6539
35	3135	9.85	46.97	15.54	0.7191
36	3136	8.08	53.35	12.22	0.5268
37	3137	10.23	51.15	12.34	0.6455
38	3138	10.22	52.76	13.57	0.7318
39	3139	8.35	48.19	14.96	0.602
40	3140	8.1	51.96	15.34	0.6456
41	3141	10.48	53.47	12.53	0.7022
42	3142	9.88	60.92	15.25	0.9179
43	3143	10.08	60.17	13.35	0.8094
44	3144	9.36	57.4	13.95	0.7497

45	3145	9.69	60.05	15.67	0.9118
46	3146	8.31	39.89	16.67	0.5526
47	3147	7.8	55.23	14.29	0.6154
48	3148	7.76	49.83	14.63	0.5657
49	3149	8.06	50.53	14.49	0.59
50	3150	7.85	52.55	14.23	0.5872
51	3151	8.03	51.52	14.58	0.6031
52	3152	9.88	61.07	12.13	0.7321
53	3153	9.56	55.9	14.06	0.7514
54	3154	9.89	60.27	13.06	0.7783
55	3155	8.37	57.09	14.28	0.6822
56	3156	9.45	59.59	12.69	0.7144
57	3157	7.77	63.69	12.17	0.6022
58	3158	10.23	63.78	12.98	0.847
59	3159	7.99	63	12.57	0.6328
60	3160	7.96	58.48	13.75	0.64
61	3161	9.7	63.86	13.48	0.8352
62	3162	8.28	62.82	12.05	0.6268
63	3163	7.93	65.46	11.7	0.6074
64	3164	8.21	63.62	13.42	0.7011
65	3165	7.92	62.84	12.41	0.6178
66	3166	8.21	60.17	13.03	0.6437
67	3167	8.12	49.51	13.84	0.5562
68	3168	8.64	57.02	11.72	0.5772
69	3169	8.44	63.88	11.37	0.6127
70	3170	7.91	61.16	9.91	0.4793
71	3171	10.43	59.53	13.22	0.8208
72	3172	8.65	54.35	13.38	0.6289
73	3173	8.05	49.52	14.34	0.5716
74	3174	10.5	54.78	12.03	0.6919
75	3175	10.64	57.4	11.85	0.7235
76	3176	10.61	61.28	12.86	0.8361
77	3177	10.56	55.86	13.35	0.7878
78	3178	10.57	63.01	10.73	0.7145
79	3179	9.95	61.41	12.08	0.7383
80	3180	10.48	61.64	12.51	0.808
81	3181	10.55	56.4	13.1	0.7796
82	3182	10.64	62.16	12.18	0.8054
83	3183	10.64	55.9	12.22	0.7267
84	3184	10.55	60.86	11.7	0.7512
85	3185	10.33	57.4	13.17	0.7809
86	3186	10.54	56.06	12.54	0.741
87	3187	10.75	60.38	12.27	0.7966
88	3188	10.47	56.93	13.31	0.7936
89	3189	10.73	53.99	13.15	0.7618
90	3190	10.41	63.14	12.84	0.8443
91	3191	10.42	60.89	11.87	0.7534
92	3192	10.15	58.86	11.77	0.7034
93	3193	10.15	63.05	13.64	0.8729
94	3194	8.55	59.7	10.9	0.5566

95	3195	10.75	57.91	12.69	0.7901
96	3196	10.28	63.29	11.61	0.7556
97	3197	10.78	60.2	11.58	0.7514
98	3198	10.48	61.46	11.96	0.7703
99	3199	10.22	61.27	11.98	0.7501
100	3200	10.64	59.22	12.48	0.7863

Name of Division : Chittorgadh-II			Challan No. : 33/138		
--	--	--	-----------------------------	--	--

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3201	10.13	60.02	13.08	0.7952
2	3202	10.67	62.72	13.14	0.8792
3	3203	10.47	62.99	11.16	0.736
4	3204	10.19	63.81	12.16	0.7907
5	3205	10.53	62.63	11.77	0.7761
6	3206	10.65	61.74	12.89	0.8477
7	3207	10.72	64.92	11.89	0.8276
8	3208	4.69	35.49	15.44	0.257
9	3209	9.08	46.48	15.38	0.6492
10	3210	7.85	47.39	14.05	0.5228
11	3211	10.97	56.93	11.91	0.7438
12	3212	8.44	50.82	13.42	0.5756
13	3213	8.33	52.6	10.97	0.4806
14	3214	8.59	59.11	13.35	0.6778
15	3215	10.37	57.07	12.13	0.7176
16	3216	10.53	56.63	12.7	0.7571
17	3217	10.38	53.74	13.64	0.7609
18	3218	9.85	58.2	11.77	0.6747
19	3219	8.87	57.11	12.05	0.6103
20	3220	10	55.27	11.29	0.624
21	3221	10.48	57.69	11.58	0.7001
22	3222	10.72	57.76	13.07	0.8094
23	3223	10.18	60.07	12.14	0.7421
24	3224	10.53	62.96	12.12	0.8034
25	3225	8.72	56.89	12.81	0.6357
26	3226	10.42	58.74	12.6	0.7711
27	3227	10.66	58.77	13.44	0.8421
28	3228	10.51	60.4	10.58	0.6716
29	3229	10.23	59.72	12.14	0.7417
30	3230	10.25	60.18	13.28	0.819
31	3231	10.53	57.86	12.06	0.735
32	3232	10.42	53.05	13.27	0.7336
33	3233	10.15	58.78	13.42	0.8008
34	3234	10.28	58.92	12.41	0.7515
35	3235	10.61	60.63	12.72	0.818
36	3236	10.73	60.68	13.32	0.867
37	3237	10.22	59.73	13.24	0.8084
38	3238	10.52	59.76	12.53	0.7879
39	3239	10.3	55.45	12.25	0.6994
40	3240	10.66	57.44	13.82	0.8464
41	3241	10.26	63.73	11.23	0.7346

42	3242	10.66	65.85	12.29	0.8624
43	3243	10.57	64.32	11.88	0.8075
44	3244	10.54	60.85	12.65	0.8116
45	3245	10.7	59.66	13.78	0.8795
46	3246	10.84	60.94	10.68	0.7057
47	3247	10.7	63.77	11.7	0.7982
48	3248	10.4	65	13.12	0.8871
49	3249	8.38	59.71	15.27	0.7643
50	3250	8.35	40.31	15.65	0.5269
51	3251	8.04	46.87	15.7	0.5917
52	3252	4.37	41.28	15.67	0.2827
53	3253	10.39	55.48	13.3	0.7668
54	3254	8.44	54.93	13.71	0.6355
55	3255	4.71	43.51	15.51	0.3179
56	3256	4.24	48.36	15.41	0.3159
57	3257	8.41	55.64	12.65	0.5921
58	3258	8.1	48.25	13.64	0.533
59	3259	8.29	49.04	13.25	0.5389
60	3260	8.71	52.55	13.66	0.6254
61	3261	8.42	56.32	13.85	0.6568
62	3262	9.3	62.75	13.32	0.7775
63	3263	10.18	63.44	12.23	0.79
64	3264	9.55	60.42	13.77	0.7946
65	3265	10.66	62.57	14.03	0.9359
66	3266	10.04	62.04	14.14	0.8805
67	3267	10.07	62.56	14.39	0.9063
68	3268	10.02	58.04	13.8	0.8026
69	3269	8.56	57.23	14.01	0.6865
70	3270	10.58	58.04	13.82	0.8485
71	3271	9.45	59.94	14.65	0.8297
72	3272	10.44	62.11	11.4	0.7392
73	3273	9.62	60.95	12.67	0.7427
74	3274	8.53	61.97	13.67	0.7225
75	3275	10.32	67.47	13.35	0.9298
76	3276	10.18	58.01	13.46	0.7951
77	3277	10.12	62.32	12.64	0.7975
78	3278	7.77	60.76	13.96	0.6589
79	3279	10.29	69.06	14.29	1.0156
80	3280	8.12	62.21	13.63	0.6886
81	3281	10.23	64.25	12.14	0.7979
82	3282	10.42	67.29	13.51	0.9472
83	3283	9.63	60.22	12.49	0.7242
84	3284	10.26	67.03	14.05	0.9665
85	3285	9.46	64.93	13.01	0.7994
86	3286	10.64	67.57	12.11	0.8704
87	3287	8.35	52.28	13.54	0.5912
88	3288	4.36	58.73	13.66	0.3497
89	3289	8.36	52.19	13.81	0.6028
90	3290	10.28	60.28	13.27	0.8224
91	3291	10.12	62.62	13.22	0.8379

92	3292	8.42	59.31	12.66	0.6323
93	3293	10.59	56.57	13.49	0.808
94	3294	10.39	59.02	12.94	0.7938
95	3295	8.41	60.01	13.1	0.661
96	3296	8.75	64.82	13.53	0.7674
97	3297	10.5	57.13	13.79	0.8274
98	3298	10.43	58.75	13.4	0.8208
99	3299	10.44	62.21	12.39	0.8049
100	3300	10.32	65.77	12.8	0.8689

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 39/144

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3801	8.99	56.82	13.89	0.7093
2	3802	8.18	53.31	15.31	0.6675
3	3803	8.17	54.64	13.2	0.5891
4	3804	4.72	49.09	14.89	0.345
5	3805	8.13	54.28	14.06	0.6203
6	3806	4.12	57.84	12.88	0.3069
7	3807	9.65	56.23	13.73	0.745
8	3808	7.77	59.35	13.14	0.6061
9	3809	7.58	57.88	13.53	0.5935
10	3810	8	57.03	12.84	0.5856
11	3811	8.09	55.72	14.12	0.6367
12	3812	7.58	58.64	13.98	0.6216
13	3813	7.73	48.8	15.2	0.5736
14	3814	7.97	50.12	15.02	0.6001
15	3815	8.11	56.52	14.56	0.6675
16	3816	5.02	55.48	13.27	0.3695
17	3817	9.85	60.85	14.49	0.8688
18	3818	7.77	61.11	14.06	0.6674
19	3819	7.84	53.37	14.11	0.5904
20	3820	4.69	54.55	16.72	0.4277
21	3821	4.47	55.68	13.42	0.3339
22	3822	9.92	58.47	14.32	0.8303
23	3823	4.85	54.94	14.12	0.3764
24	3824	9.59	51.89	12.97	0.6454
25	3825	9.64	52.94	14.83	0.7567
26	3826	6.01	50.38	13.46	0.4075
27	3827	9.7	56.28	12.86	0.7023
28	3828	9.78	40.07	17.19	0.6738
29	3829	8.14	61.24	14.27	0.7114
30	3830	7.28	56.16	14.51	0.5933
31	3831	8.9	55.53	14.53	0.7182
32	3832	7.56	51.14	14.96	0.5783
33	3833	3.95	64.82	13.87	0.3551
34	3834	4.57	57.73	12.92	0.3409
35	3835	7.15	43.68	15.25	0.4762
36	3836	9.38	42.52	12.51	0.499
37	3837	7.85	36.48	15.24	0.4365
38	3838	4.1	37.83	15.36	0.2382

39	3839	8.03	44.86	16.27	0.5862
40	3840	8.1	42.95	15.51	0.5395
41	3841	8.02	48.33	15.23	0.5903
42	3842	8.06	52.47	13.78	0.5827
43	3843	7.04	41.9	16.25	0.4794
44	3844	7.62	52.67	12.57	0.5044
45	3845	8.62	42.39	16.61	0.6068
46	3846	7.6	54.35	14.37	0.5936
47	3847	8.02	60.85	7.33	0.3577
48	3848	7.5	49.54	15.4	0.5722
49	3849	7.45	50.03	16.93	0.631
50	3850	9.7	46.79	15.64	0.71
51	3851	3.92	51.89	14.65	0.2979
52	3852	8.16	56.62	15.19	0.7018
53	3853	8	59.91	14.62	0.7008
54	3854	3.8	56.94	14.63	0.3165
55	3855	8.45	59.65	13.06	0.6583
56	3856	9.78	50.99	13.36	0.666
57	3857	7.97	49.11	13.19	0.5165
58	3858	7.76	50.74	15.33	0.6037
59	3859	7.96	52.93	14.17	0.597
60	3860	7.53	54.92	13.09	0.5414
61	3861	8.13	55.45	14.46	0.652
62	3862	8.28	65.46	12.8	0.6939
63	3863	3.98	49.8	13.9	0.2754
64	3864	3.44	47.51	13.26	0.2167
65	3865	9.18	59.06	13.71	0.7436
66	3866	7.5	50.84	13.32	0.5077
67	3867	8.02	43.62	16.39	0.5734
68	3868	9.48	51.48	13.87	0.6769
69	3869	8.04	61.47	13.71	0.6778
70	3870	1.33	59.88	10.44	0.0831
71	3871	7.9	57.76	14.79	0.6747
72	3872	8.06	44.37	15.35	0.5489
73	3873	7.58	49.37	15.33	0.5738
74	3874	8.09	43.09	13.9	0.4846
75	3875	8.34	45.13	15.91	0.5988
76	3876	8.01	51.3	14.15	0.5815
77	3877	9.66	59.37	13.86	0.795
78	3878	8.05	57.59	15.84	0.7342
79	3879	8.05	55.18	12.25	0.5442
80	3880	8.23	58.95	14.67	0.7119
81	3881	7.65	57.83	15.23	0.674
82	3882	8.39	57.36	12.22	0.5881
83	3883	9.79	58	14.6	0.8292
84	3884	7.45	54.99	15.13	0.6198
85	3885	8.64	58.47	10.48	0.5296
86	3886	7.84	59.4	16.3	0.7589
87	3887	8.51	50.04	11.89	0.5063
88	3888	8.19	57.12	13.9	0.6503

89	3889	8.28	60.65	14.39	0.7228
90	3890	10.47	62.48	13.04	0.8533
91	3891	6.16	56.84	13.86	0.4854
92	3892	8.42	56.4	13.85	0.6576
93	3893	8.5	59.35	15.42	0.7777
94	3894	10.36	58.21	13.79	0.8319
95	3895	7.65	57.37	13.96	0.6128
96	3896	5.61	62.03	12.45	0.4331
97	3897	4.15	50.39	15.62	0.3266
98	3898	8.3	56.47	14.47	0.6781
99	3899	8.14	59.04	14.5	0.6968
100	3900	8.14	59.71	15.41	0.7489

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 43/148

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4201	7.87	51.26	13.4	0.5407
2	4202	7.83	54.47	12.61	0.5379
3	4203	7.75	51.02	12.52	0.4952
4	4204	10.43	45.04	14.5	0.6811
5	4205	4.41	55.9	11.4	0.2809
6	4206	7.91	58.43	11.95	0.5521
7	4207	10.24	53.77	12.96	0.7137
8	4208	6.77	53	11.72	0.4204
9	4209	4.88	57.42	11.84	0.3318
10	4210	9.73	53.38	12.81	0.6655
11	4211	7.98	55.04	11.45	0.5027
12	4212	10.41	55.52	12.81	0.7402
13	4213	4.21	63.13	12.88	0.3423
14	4214	10.34	36.05	16.5	0.6152
15	4215	8.54	55.08	13.44	0.632
16	4216	10	57.2	14.16	0.81
17	4217	9	47.67	15.46	0.6633
18	4218	10.18	53.88	13.46	0.7381
19	4219	7.61	59.19	15.26	0.6872
20	4220	8.29	59.65	14.22	0.703
21	4221	10.01	57.57	14.52	0.8368
22	4222	8.99	56.44	11.06	0.561
23	4223	8.74	44.53	13.77	0.5358
24	4224	10.32	57.74	12.69	0.7565
25	4225	8.15	59.82	14.51	0.7074
26	4226	4.99	53.73	13.75	0.3688
27	4227	8.49	58.24	12.14	0.6002
28	4228	8.77	52.92	12.74	0.5911
29	4229	9.02	65.1	12.47	0.7324
30	4230	8.37	65.13	12.68	0.6914
31	4231	8.29	59.38	12.61	0.6209
32	4232	8.4	61.17	13.23	0.6796
33	4233	8.21	62.74	12.54	0.6461
34	4234	5.45	62.14	13.41	0.454
35	4235	8.36	60.12	9.58	0.4815

36	4236	8.68	56.35	13.27	0.6493
37	4237	5.81	54.08	14.48	0.4549
38	4238	8.01	52.72	14.59	0.616
39	4239	8.2	63.82	12.64	0.6617
40	4240	7.98	63.51	13.57	0.6879
41	4241	8.24	54.19	12.53	0.5595
42	4242	5.33	61.65	14.1	0.4632
43	4243	10.11	64.45	12.38	0.8068
44	4244	8.94	63.35	12.2	0.6911
45	4245	8.73	61.73	11.13	0.5998
46	4246	7.81	62.26	12.19	0.5928
47	4247	8.18	56.64	12.62	0.5849
48	4248	8.12	59.69	12.08	0.5855
49	4249	7.99	61.12	12.68	0.6192
50	4250	10.64	57.45	13.28	0.8118
51	4251	4.07	45.75	12.44	0.2316
52	4252	7.91	47.58	13.79	0.5189
53	4253	8.45	49.24	13.99	0.5822
54	4254	8.14	59.95	13.63	0.665
55	4255	8.62	48.62	14.27	0.5982
56	4256	8.64	51.82	13.62	0.61
57	4257	8.51	53.1	13.6	0.6144
58	4258	8.92	40.53	15.25	0.5513
59	4259	8.7	49.6	14.09	0.6081
60	4260	7.99	57.6	15.23	0.7007
61	4261	8.01	53.84	15.73	0.6784
62	4262	9.87	48.18	14.67	0.6978
63	4263	10.5	54.54	14.58	0.8348
64	4264	8.47	63.97	12.05	0.653
65	4265	10.28	50.24	13.42	0.6929
66	4266	7.99	61.05	11.92	0.5817
67	4267	9.64	53.43	13.63	0.7018
68	4268	8.17	56.56	14.36	0.6634
69	4269	7.94	47.09	14.23	0.532
70	4270	7.73	54.49	13.71	0.5774
71	4271	8.14	58.48	12.86	0.6121
72	4272	8.47	61.3	13.28	0.6895
73	4273	8.76	46.57	13.01	0.5309
74	4274	8.16	52.84	12.41	0.5353
75	4275	7.99	50.83	14.38	0.5841
76	4276	7.64	50.4	14.17	0.5455
77	4277	8.29	62.75	10.69	0.5563
78	4278	5.24	58.89	13.58	0.4192
79	4279	4.8	64.34	12.76	0.3941
80	4280	8.5	65.42	10.42	0.5797
81	4281	5.15	56.76	13.27	0.3878
82	4282	8.5	54.93	14.2	0.663
83	4283	8.3	62.16	11.18	0.5768
84	4284	8.15	62.35	13.17	0.6691
85	4285	9.05	61.42	10.19	0.5665

86	4286	5.62	68.65	12.77	0.4929
87	4287	8.02	58.67	12.49	0.5879
88	4288	7.34	52.3	13.25	0.5087
89	4289	7.58	56.95	13.89	0.5996
90	4290	7.39	55.39	13.63	0.5579
91	4291	7.12	53.85	13.83	0.5304
92	4292	7.89	59.08	12.64	0.5894
93	4293	7.55	58.3	13.19	0.5806
94	4294	7.51	59.49	13.38	0.5978
95	4295	7.28	61.54	13.75	0.6159
96	4296	7.85	66	11.27	0.584
97	4297	7.93	62.34	13.35	0.6598
98	4298	7.51	65.66	13.37	0.6594
99	4299	9.61	43.37	15.19	0.6333
100	4300	8.04	44.69	14.46	0.5194

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 29/134

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2801	8.21	59.97	12.99	0.6396
2	2802	5.83	58.72	13.03	0.446
3	2803	7.88	60.87	11.58	0.5555
4	2804	9.26	63.09	10.75	0.6278
5	2805	7.86	60.08	13	0.6139
6	2806	9.46	65.1	14.22	0.876
7	2807	9.7	59.22	14.66	0.842
8	2808	8.39	61.19	12.11	0.6217
9	2809	4.24	62.87	12.22	0.3256
10	2810	10.1	60.72	12.19	0.7474
11	2811	8.13	64.15	11.15	0.5813
12	2812	7.94	61.81	13.15	0.6455
13	2813	8	65.69	14.52	0.7632
14	2814	9.76	57.62	13.35	0.7505
15	2815	8.11	63.07	11.97	0.6123
16	2816	9.68	65.71	14.81	0.9419
17	2817	7.69	64.47	12.73	0.6313
18	2818	9.62	63.43	14.66	0.8947
19	2819	8.09	59.08	13.56	0.648
20	2820	9.53	62.4	13.57	0.8072
21	2821	8.42	59.46	12.95	0.6483
22	2822	3.87	60.27	14.7	0.3429
23	2823	9.37	63.16	14.17	0.8386
24	2824	7.57	61.85	14.07	0.6586
25	2825	8.16	64.46	13.79	0.7254
26	2826	4.15	63.36	13.6	0.3577
27	2827	4.79	68.58	14.07	0.4622
28	2828	4.21	62.25	13.4	0.3511
29	2829	5.75	67.77	14.21	0.5537
30	2830	5.82	65.02	13.23	0.5005
31	2831	4.08	64.6	13.39	0.3529
32	2832	9.79	66.86	13.03	0.8527

33	2833	3.89	64.59	12.46	0.3131
34	2834	7.6	66.18	13.16	0.662
35	2835	9.37	61.2	15.92	0.9126
36	2836	4.14	63.64	13.64	0.3594
37	2837	9.49	64.76	12.14	0.7459
38	2838	5.73	62.31	13.87	0.4951
39	2839	9.31	71.36	12.18	0.809
40	2840	9.79	64.29	14.11	0.888
41	2841	3.8	61	11.98	0.2778
42	2842	5.46	66.42	12.93	0.469
43	2843	9.58	64.31	14.21	0.8756
44	2844	4.2	67.36	13.33	0.3772
45	2845	9.39	65.5	14.17	0.8714
46	2846	5.51	70.26	13.88	0.5372
47	2847	9.28	64	10.78	0.6403
48	2848	3.95	66.83	14.25	0.376
49	2849	7.97	70.05	11.93	0.6663
50	2850	5.69	72.41	13.15	0.5417
51	2851	8.2	68.08	12.53	0.6995
52	2852	10.09	60.07	15.58	0.9444
53	2853	9.47	40.92	15.13	0.5862
54	2854	7.71	45.71	12.99	0.458
55	2855	8.46	45.15	13.62	0.5203
56	2856	8.02	52.15	12.6	0.5269
57	2857	10.19	50.27	12.05	0.6175
58	2858	7.83	48.85	14.12	0.5403
59	2859	9.58	54.31	13.63	0.7089
60	2860	8.18	42.97	14.68	0.5162
61	2861	8.32	59.81	12.41	0.6173
62	2862	9.62	52.97	15.24	0.7763
63	2863	8.33	49.97	14.27	0.5939
64	2864	4.13	54.08	13.68	0.3056
65	2865	10.52	59.57	12.25	0.768
66	2866	8.8	62	12.02	0.6556
67	2867	10.4	56.91	12.97	0.7675
68	2868	10.48	61.64	11.03	0.7126
69	2869	10.62	58.35	12.54	0.7774
70	2870	10.22	55.91	13.43	0.7675
71	2871	10.64	61.31	11.43	0.7459
72	2872	10.4	59.54	12.65	0.7831
73	2873	10.62	59.23	12.87	0.8092
74	2874	8.89	61.55	12.17	0.6659
75	2875	8.92	61.92	12.86	0.71
76	2876	8.78	65.07	12.8	0.7314
77	2877	8.92	60.61	12.61	0.6815
78	2878	10.75	66.61	13.27	0.9503
79	2879	9.7	61.08	15.68	0.9293
80	2880	9.51	61.12	15.97	0.9282
81	2881	9.67	61.37	15.95	0.9467
82	2882	8.26	48.04	13.2	0.5237

83	2883	8.14	51.98	15.18	0.6422
84	2884	8.07	48.45	15.48	0.6053
85	2885	7.93	43.68	15.09	0.5226
86	2886	9.64	54.09	14.12	0.7365
87	2887	7.97	48.84	13.51	0.526
88	2888	7.97	49.07	14.49	0.5667
89	2889	8.02	49.74	13.91	0.555
90	2890	8.29	49.28	14.59	0.5961
91	2891	8.59	42.02	14.83	0.5352
92	2892	7.98	51.67	14.42	0.5945
93	2893	8	45.37	15.36	0.5576
94	2894	8.24	59.63	13.11	0.6444
95	2895	8.41	53.96	13.51	0.6131
96	2896	8.33	57.49	13.79	0.6606
97	2897	8.04	50.7	14.02	0.5716
98	2898	8.23	52.69	14.56	0.6312
99	2899	4.22	54.73	12.72	0.2937
100	2900	8.08	56.59	13.96	0.6383

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 12/16

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1101	9.91	66.49	13.22	0.8711
2	1102	9.74	62.12	12.41	0.751
3	1103	4.32	65.03	13.29	0.3732
4	1104	7.91	61.7	12.2	0.5956
5	1105	8.4	63.77	13.09	0.7014
6	1106	9.53	62.16	12.74	0.7548
7	1107	9.21	61.17	12.98	0.7313
8	1108	7.66	62.7	12.85	0.6174
9	1109	9.62	63.58	13.62	0.8331
10	1110	9.64	68.01	12.95	0.8493
11	1111	8.66	60.64	12.73	0.6686
12	1112	8.42	62.78	12.5	0.661
13	1113	8.27	65.13	13.39	0.7211
14	1114	8.32	65.89	13.23	0.7255
15	1115	8.24	62.38	11.89	0.6114
16	1116	7.81	63.44	14.11	0.699
17	1117	8.27	67.27	12.35	0.6872
18	1118	9.54	62.82	13.9	0.8328
19	1119	3.4	63.85	12.44	0.27
20	1120	10.09	57.99	10.57	0.6185
21	1121	7.37	44.4	13.85	0.4533
22	1122	10.27	52.91	12.3	0.6686
23	1123	8.3	53.03	12.86	0.5661
24	1124	8.21	51.72	12.78	0.5427
25	1125	7.45	47.3	14.23	0.5014
26	1126	8.06	51.59	13.57	0.5642
27	1127	8.22	52.75	12.95	0.5614
28	1128	9.59	62.05	15.99	0.9513
29	1129	7.15	53.43	14.67	0.5606

30	1130	9.7	57.83	11.21	0.6286
31	1131	8.28	56.65	13.38	0.6276
32	1132	9.35	56.13	12.15	0.6377
33	1133	9.71	52.96	12.63	0.6496
34	1134	9.83	58.13	14.66	0.8375
35	1135	7.79	54.32	12.46	0.5274
36	1136	8.48	54.44	13.48	0.6224
37	1137	8.33	56.17	12.98	0.6073
38	1138	9.37	56.25	11.77	0.6203
39	1139	9.48	56.03	13.92	0.7394
40	1140	9.86	58.27	14.64	0.8411
41	1141	9.63	61.72	15.64	0.9293
42	1142	8.05	61.5	15.67	0.776
43	1143	9.73	61.91	15.52	0.9351
44	1144	9.58	58.98	12.07	0.6821
45	1145	10.43	62.25	11.12	0.7218
46	1146	7.98	63.34	12.71	0.6424
47	1147	8.01	57.26	13.85	0.6352
48	1148	8.13	55.5	11.68	0.5268
49	1149	9.86	58.37	12.3	0.7079
50	1150	4.82	55.91	13.24	0.3567
51	1151	7.84	53.67	11.72	0.4931
52	1152	9.58	63.61	11.9	0.7252
53	1153	10.52	63.73	10.94	0.7332
54	1154	9.48	58.52	14.51	0.8049
55	1155	7.5	65.81	12.64	0.624
56	1156	9.97	63.52	11.04	0.6989
57	1157	9.49	58.22	14.62	0.8076
58	1158	7.7	61.19	12.39	0.5837
59	1159	8.06	47.22	12.3	0.4683
60	1160	9.74	55.09	12.91	0.6925
61	1161	10.36	58.8	13.37	0.8143
62	1162	10.34	66.48	13.21	0.9079
63	1163	8.54	59.31	13.59	0.6883
64	1164	8.35	60.01	12.28	0.6154
65	1165	10.13	56.84	12.86	0.7405
66	1166	8.32	58.6	13.04	0.6356
67	1167	8.39	65.26	13.58	0.7434
68	1168	5.36	62.38	13.31	0.4449
69	1169	10.14	43.17	14.13	0.6185
70	1170	9.82	46.43	14.32	0.653
71	1171	11.22	55.05	12.99	0.8022
72	1172	11.09	55.73	14.21	0.8783
73	1173	11.17	54.46	10.74	0.6534
74	1174	11.59	63.72	11.83	0.8739
75	1175	11.03	56.52	12.74	0.7942
76	1176	10.36	59.09	11.15	0.6827
77	1177	10.89	57.18	11.77	0.7329
78	1178	10.18	60.62	12.37	0.7635
79	1179	9.44	55.99	11.22	0.5928

80	1180	10.64	55.51	11.6	0.6852
81	1181	10.64	61.01	12.98	0.8427
82	1182	10.75	53.59	12.47	0.7181
83	1183	10.42	59.99	12.07	0.7544
84	1184	10.49	58.67	11.95	0.7353
85	1185	10.71	57.75	9.97	0.6169
86	1186	10.82	60.76	13.89	0.9132
87	1187	10.68	60.65	12.4	0.8031
88	1188	10.9	65.1	13.18	0.9352
89	1189	8.86	59.32	12.86	0.676
90	1190	10.75	57.53	13.19	0.8159
91	1191	11.18	60.96	11.11	0.7569
92	1192	10.82	60.29	11.03	0.7195
93	1193	10.43	62.25	12.58	0.8167
94	1194	11.35	61.68	11.62	0.8138
95	1195	11.2	62.1	11.74	0.8165
96	1196	10.87	62.39	11.3	0.7663
97	1197	10.72	61.54	12.11	0.7986
98	1198	10.68	62.92	13.13	0.8822
99	1199	10.71	63.45	12.47	0.8472
100	1200	10.8	61.31	11.89	0.7873

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 06/175

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	501	12.33	56.39	11.85	0.8236
2	502	8.03	61.36	15.86	0.7813
3	503	8.33	48.23	12.34	0.4956
4	504	8.66	56.25	11.95	0.582
5	505	8.29	55.32	13.29	0.6093
6	506	8.27	49.81	14.11	0.5814
7	507	9.95	62.27	15.63	0.9681
8	508	8.62	61.07	15.69	0.8258
9	509	8.44	44.84	14.25	0.5393
10	510	10.1	50.5	13.86	0.707
11	511	10.57	47.83	14.15	0.7156
12	512	9.93	56.17	13.58	0.7577
13	513	8.54	47.22	13.74	0.5542
14	514	10.94	52.62	14.86	0.8555
15	515	10.01	52.95	13.64	0.7227
16	516	8.47	56.4	14.29	0.6827
17	517	8.43	62.54	13.7	0.7225
18	518	4.48	59.35	11.96	0.3181
19	519	11.01	50.13	11.45	0.632
20	520	8.7	49.55	12.27	0.529
21	521	10.88	40.78	13.29	0.5897
22	522	10.43	53.11	12.2	0.6759
23	523	10.94	44.3	12.78	0.6192
24	524	8.78	54.13	10.92	0.5189
25	525	11.18	53.47	11.26	0.673
26	526	10.27	51.73	11.87	0.6306

27	527	8.41	53.65	12.71	0.5736
28	528	10.67	53.87	11.86	0.6818
29	529	10.55	54.69	11.19	0.6457
30	530	10.48	55.82	11.16	0.6529
31	531	10.95	55.66	11.8	0.7194
32	532	10.79	50.01	11.9	0.642
33	533	9.42	43.07	13.09	0.5313
34	534	10.49	55.32	11.62	0.6745
35	535	10.64	56.83	11.26	0.681
36	536	11.21	58.42	11.37	0.7443
37	537	10.54	56.03	11.07	0.6535
38	538	10.53	53.32	11.68	0.656
39	539	10.68	48.38	12.09	0.6248
40	540	10.55	56.55	10.38	0.6193
41	541	9.18	53.53	12.25	0.6022
42	542	10.58	57.23	11.38	0.6888
43	543	10.52	56.49	11.44	0.6796
44	544	10.44	58.62	11.36	0.6953
45	545	10.42	58.2	12.25	0.7429
46	546	10.89	58.4	11.3	0.7187
47	547	10.72	55.57	11.01	0.6561
48	548	10.73	57.01	11.12	0.6803
49	549	10.15	52.76	11.33	0.607
50	550	11.16	58.79	10.95	0.7187
51	551	10.08	51.57	11.65	0.6058
52	552	10.48	56.07	12.4	0.7284
53	553	10.6	60.78	11.01	0.7091
54	554	8.96	61.11	11.41	0.6245
55	555	10.67	57.59	11.95	0.7341
56	556	11.03	57.54	12.15	0.771
57	557	10.69	54.29	11.62	0.6745
58	558	10.32	56.85	11.49	0.6739
59	559	10.95	57.3	11.1	0.6964
60	560	10.75	54.51	11.28	0.6611
61	561	10.5	54.5	11.69	0.6688
62	562	10.66	57.93	10.69	0.6599
63	563	10.44	52.69	11.71	0.6441
64	564	11.91	45.02	13.31	0.7134
65	565	10.52	54.53	12.25	0.7027
66	566	10.38	55.76	11.89	0.6882
67	567	10.7	57.28	10.67	0.6538
68	568	10.77	48.72	10.59	0.5557
69	569	10.66	49.75	11.98	0.6353
70	570	11.01	40.98	12.79	0.5769
71	571	10.78	55.5	10.76	0.6436
72	572	10.31	50.73	11.55	0.6042
73	573	11.13	55.15	10.92	0.67
74	574	10.43	47.01	12.95	0.6352
75	575	9.64	50.68	11.19	0.5466
76	576	10.69	48.45	11.33	0.5869

77	577	10.97	52.67	13.12	0.758
78	578	11.44	51.91	11.6	0.6887
79	579	10.66	53.49	11.55	0.6588
80	580	11.02	52.72	12.27	0.713
81	581	9.61	51.28	11.17	0.5507
82	582	10.42	46.34	12.95	0.6252
83	583	11.37	53.22	11.78	0.7129
84	584	10.9	53.39	11.78	0.6856
85	585	10.84	54.4	11.42	0.6732
86	586	10.69	54.46	10.48	0.6104
87	587	10.97	48.52	13.23	0.7043
88	588	10.41	50.95	13.21	0.7006
89	589	11.07	55.58	11.44	0.7041
90	590	10.42	56.65	11.4	0.6731
91	591	10.06	53.91	11.83	0.6418
92	592	10.72	55.76	11.35	0.6786
93	593	10.52	55.36	11.27	0.6564
94	594	10.1	62.17	11.21	0.704
95	595	10.46	51.24	11.83	0.6339
96	596	10.66	57.25	10.93	0.6673
97	597	11.29	58.75	11.3	0.7497
98	598	10.25	55.49	11.79	0.6704
99	599	10.24	53.65	12.32	0.6769
100	600	9.67	53.67	11.94	0.6198

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 45/150

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4401	4.85	56.16	13.21	0.3599
2	4402	7.83	60.49	14	0.6632
3	4403	7.67	60.52	13.07	0.6067
4	4404	7.92	61.85	13.34	0.6534
5	4405	7.95	61.51	13.64	0.667
6	4406	4.23	60.57	14.48	0.371
7	4407	7.71	63.9	13.65	0.6723
8	4408	4.88	69.23	13.64	0.4607
9	4409	4.71	43.4	14.03	0.2868
10	4410	7.65	38.23	15.2	0.4445
11	4411	7.73	53.8	13.44	0.5589
12	4412	9.81	60.1	12.15	0.7161
13	4413	7.77	59.47	13.35	0.6169
14	4414	7.93	47.57	11.52	0.4346
15	4415	7.7	53.12	13.89	0.5683
16	4416	7.34	48.54	15.37	0.5476
17	4417	8.16	51.92	14.27	0.6047
18	4418	7.8	53.1	13.97	0.5788
19	4419	8.09	47.32	14.07	0.5388
20	4420	7.88	50.68	13.04	0.5209
21	4421	4.53	44.87	14.66	0.2981
22	4422	7.68	54.87	13.71	0.5775
23	4423	7.73	58.02	13.37	0.5998

24	4424	9.18	60.55	14.95	0.8308
25	4425	9.56	62.14	14.26	0.847
26	4426	9.01	60.02	14.55	0.7866
27	4427	8.1	56.51	11.94	0.5468
28	4428	9.63	53.87	12.85	0.6664
29	4429	7.82	58.05	14.63	0.6639
30	4430	8.26	53.85	13.76	0.6121
31	4431	7.39	58.04	14.01	0.6008
32	4432	7.63	58.19	14.59	0.6478
33	4433	8.02	55.16	12.93	0.5718
34	4434	8.14	61.16	13.82	0.6878
35	4435	7.99	54.53	13.42	0.5849
36	4436	9.3	58.58	13.43	0.7319
37	4437	7.65	54.17	13.9	0.576
38	4438	4.61	59.3	15.89	0.4343
39	4439	7.72	59.91	13.24	0.6122
40	4440	8.16	59	14.24	0.6854
41	4441	8.08	56.9	13.46	0.6189
42	4442	7.65	53.39	13.95	0.5699
43	4443	9.76	55.99	13.25	0.7242
44	4444	7.82	58.67	14.18	0.6506
45	4445	8.28	58.1	13.34	0.6417
46	4446	9.69	60.79	12.81	0.7549
47	4447	8.14	54.2	13.41	0.5918
48	4448	8.02	57.69	12.1	0.5598
49	4449	7.78	63.19	14.35	0.7056
50	4450	7.1	63.88	13.62	0.6177
51	4451	7.81	61.08	13.29	0.6342
52	4452	7.6	61.39	13.19	0.6156
53	4453	9.37	60.27	13.11	0.7402
54	4454	8.07	56.29	12.38	0.5625
55	4455	8.19	60.14	12.85	0.6331
56	4456	7.68	64.02	13.54	0.6659
57	4457	4.47	59.56	13.95	0.3715
58	4458	7.53	57.84	13.55	0.5904
59	4459	7.59	59.45	13.31	0.6004
60	4460	7.94	48.64	13.8	0.5328
61	4461	8.08	44.66	13.26	0.4783
62	4462	8	50.84	14.2	0.5776
63	4463	8.11	47.22	12.58	0.4817
64	4464	8.65	38.54	15.72	0.5242
65	4465	8.59	55.7	13.79	0.6597
66	4466	7.81	56.96	13.82	0.6146
67	4467	7.86	40.24	15.63	0.4944
68	4468	7.5	41.97	14.77	0.465
69	4469	7.96	50.48	13.39	0.5381
70	4470	7.64	48.6	12.82	0.476
71	4471	7.83	53.64	14.26	0.599
72	4472	7.9	59.76	13.96	0.6589
73	4473	8.07	55.78	13.73	0.6182

74	4474	7.37	54.59	13.35	0.5373
75	4475	8.01	55.96	14.15	0.6344
76	4476	7.71	56.49	13.83	0.6022
77	4477	4.23	44.22	15.29	0.2859
78	4478	8.9	44.14	13.77	0.5411
79	4479	8.23	51.26	13.23	0.558
80	4480	8.22	52.7	12.05	0.522
81	4481	8.32	56.61	14.01	0.6598
82	4482	9.04	53.09	11.79	0.5659

Date: 05.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 27/132**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2601	8.17	59.53	10.36	0.5041
2	2602	9.86	67.51	14.8	0.985
3	2603	8.2	67.03	14.69	0.8077
4	2604	8.04	62.67	13.21	0.6657
5	2605	7.71	64.97	13.54	0.6785
6	2606	9.94	58.43	13.26	0.7703
7	2607	8.03	66.95	15.5	0.8335
8	2608	8.51	64.24	14.21	0.777
9	2609	8.26	63.52	13.37	0.7013
10	2610	8.52	63.59	13.02	0.7055
11	2611	8.09	50.82	12.5	0.5137
12	2612	8.15	49.57	12.73	0.5143
13	2613	8.08	51.15	13.16	0.5438
14	2614	4.2	55.35	11.82	0.2747
15	2615	5.25	61.51	7.62	0.2462
16	2616	8.18	54.34	14.65	0.6511
17	2617	10.37	55.11	11.32	0.6471
18	2618	4.13	51.1	13.64	0.2879
19	2619	5.09	62.12	8.27	0.2616
20	2620	8	58.84	10.93	0.5144
21	2621	8.72	53.31	11.61	0.5398
22	2622	10.3	61.1	11.01	0.6932
23	2623	7.91	57.51	11.06	0.5031
24	2624	7.88	65.52	14.62	0.7549
25	2625	8.26	57.08	11.77	0.5551
26	2626	8.34	56.04	11.08	0.5179
27	2627	10.31	61.77	10.1	0.6433
28	2628	10.35	57.65	12.42	0.7411
29	2629	7.75	56.27	13.03	0.5681
30	2630	8.1	60.16	13.66	0.6658
31	2631	9.98	64.42	9.97	0.6407
32	2632	7.48	50.34	14.2	0.5348
33	2633	8.3	56.62	13.37	0.6283
34	2634	8.65	53.85	11.03	0.5138
35	2635	9.77	56.42	12.16	0.6702
36	2636	8.11	56.9	11.6	0.5353
37	2637	10.8	56.69	11.41	0.6988
38	2638	8.83	58.62	11.65	0.6031
39	2639	4.18	65.32	11.18	0.3051
40	2640	9.75	57.36	11.38	0.6367
41	2641	9.79	65.29	11.59	0.7411
42	2642	9.86	64.77	11.02	0.704
43	2643	8.11	68.5	12.01	0.6675
44	2644	8.33	62.6	16.28	0.8488

45	2645	9.65	54.5	13.41	0.7054
46	2646	8.16	54.67	12.73	0.5679
47	2647	8.09	61.16	12.12	0.5995
48	2648	7.9	57.87	10.77	0.4922
49	2649	4.13	52.97	14.5	0.3172
50	2650	9.88	56.5	13.84	0.7726
51	2651	8.2	60.76	12.41	0.6183
52	2652	3.31	54.16	10.75	0.1926
53	2653	9.52	54.12	13.19	0.6797
54	2654	7.98	58.9	14.79	0.6951
55	2655	7.72	59.06	12.44	0.5674
56	2656	7.87	61.76	12.16	0.591
57	2657	4.24	56.94	14.68	0.3545
58	2658	9.52	61.34	12.86	0.7511
59	2659	9.62	58.95	14.52	0.8235
60	2660	4.55	53.45	14.01	0.3408
61	2661	3.96	62.29	12.84	0.3168
62	2662	8.08	66.91	12.72	0.6876
63	2663	8.11	67.9	12.5	0.6885
64	2664	3.89	69.15	11.18	0.3007
65	2665	8.6	57.37	13.35	0.6588
66	2666	8	58.77	14.46	0.68
67	2667	8.23	57.92	13.17	0.6279
68	2668	7.96	61.66	16.67	0.8183
69	2669	3.7	62.2	16.62	0.3826
70	2670	10.92	49.48	12.91	0.6978
71	2671	8.73	50.47	12.8	0.564
72	2672	10.24	51.65	13.65	0.7219
73	2673	10.17	52.48	13.01	0.6946
74	2674	10.07	50.04	13.69	0.6898
75	2675	8.23	59.08	13.07	0.6354
76	2676	8.09	57.43	13.48	0.6262
77	2677	9.6	53.85	14.13	0.7306
78	2678	7.98	55.87	11.8	0.5259
79	2679	4.45	55.18	13.08	0.3213
80	2680	9.01	57.75	11.71	0.6091
81	2681	9.75	56.89	13.71	0.7605
82	2682	10.89	64.89	14.35	1.0139
83	2683	8.34	63.4	11.96	0.6322
84	2684	10.2	56.69	11.87	0.6865
85	2685	8.12	55.12	13.41	0.6001
86	2686	8.41	56.98	13.81	0.6619
87	2687	8.22	58.37	13.16	0.6313
88	2688	8.35	60.02	13.01	0.6521
89	2689	9.81	59.45	14.3	0.8339
90	2690	9.98	59.04	11.67	0.6876
91	2691	9.79	61.03	12.8	0.7646
92	2692	7.92	57.88	13.1	0.6003
93	2693	7.97	60.68	13.15	0.636
94	2694	8.72	56.68	13.53	0.6688

95	2695	8.44	53.26	13.99	0.6288
96	2696	8.36	51.22	13.61	0.5827
97	2697	10.21	53.05	13.69	0.7412
98	2698	8.75	54.56	12.23	0.5836
99	2699	7.9	54.82	13.81	0.598
100	2700	8.6	54.92	12.44	0.5874

Name of Division : Chittorgadh-II			Challan No. : 16/31		
--	--	--	----------------------------	--	--

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1501	9.8	50.94	13.15	0.6566
2	1502	8.18	53.16	13.11	0.5701
3	1503	8.18	61.31	11.79	0.5914
4	1504	8.33	57.81	12.68	0.6106
5	1505	9.66	56.59	11.15	0.6095
6	1506	8.14	58.31	12.67	0.6015
7	1507	8.42	55.99	13.36	0.6298
8	1508	10.27	56.21	12.74	0.7353
9	1509	8.28	58.81	12.79	0.6227
10	1510	8.29	52.81	12.82	0.5612
11	1511	7.38	57.92	12.41	0.5306
12	1512	8	60.41	12.46	0.6024
13	1513	8.01	62.85	12.98	0.6536
14	1514	7.83	61.68	12.55	0.606
15	1515	8.05	57.9	13.07	0.6094
16	1516	8.14	65.82	12.75	0.6829
17	1517	8.2	65.21	13.17	0.7044
18	1518	7.97	67.64	12.66	0.6822
19	1519	7.91	49.2	13.11	0.5102
20	1520	8.28	54.32	12.06	0.5423
21	1521	8.02	43.87	14.52	0.5109
22	1522	8.1	57.06	13.65	0.631
23	1523	9.47	55.98	12.92	0.6847
24	1524	7.95	55.37	13.38	0.5891
25	1525	7.9	52.96	12.42	0.5198
26	1526	9.74	50.45	12.59	0.6185
27	1527	9.86	54.33	13.09	0.701
28	1528	9.61	55.4	13.14	0.6996
29	1529	8.13	60.91	12.84	0.6358
30	1530	8.16	62.08	12.87	0.652
31	1531	9.36	60.09	13.48	0.7582
32	1532	7.97	57.78	12.06	0.5555
33	1533	8.18	57.4	14.18	0.6659
34	1534	7.95	61.54	10.17	0.4977
35	1535	8.59	61.1	12.77	0.67
36	1536	9.39	62.85	16.71	0.986
37	1537	7.93	61.1	11.69	0.5662
38	1538	7.82	62.66	11.17	0.5474
39	1539	8.08	61.39	12.77	0.6335
40	1540	4.65	63.28	8.41	0.2474
41	1541	8.2	55.62	13.12	0.5986

42	1542	8.31	59.56	12.93	0.6399
43	1543	10.09	56.26	12.09	0.6861
44	1544	7.88	61.77	13.21	0.643
45	1545	7.69	61	14.03	0.6583
46	1546	8.11	63.47	12.84	0.661
47	1547	9.67	58.14	12.62	0.7098
48	1548	8.72	63.87	13.76	0.7665
49	1549	8.02	58.92	12.7	0.5999
50	1550	9.82	57.38	13.05	0.7355
51	1551	8.72	62.73	12.26	0.6706
52	1552	8.31	48.93	10.95	0.4454
53	1553	8.71	49.17	13.14	0.5627
54	1554	8.53	48.04	13.09	0.5365
55	1555	8.14	47.28	13.66	0.5258
56	1556	8.64	49.35	12.48	0.5322
57	1557	8.14	47.75	12.1	0.4705
58	1558	4.15	51.66	11.92	0.2556
59	1559	8.11	58.16	11.78	0.5555
60	1560	10.79	60.82	12.66	0.8308
61	1561	8.28	60.61	11.88	0.5962
62	1562	10.19	54.16	11.74	0.6481
63	1563	8.15	57.73	11.05	0.52
64	1564	8.05	56.9	12.32	0.5643
65	1565	9.8	61.76	11.5	0.6958
66	1566	9.37	61.3	11.92	0.6849
67	1567	7.91	58.91	13.27	0.6186
68	1568	10.06	56.46	13.05	0.7414
69	1569	10.25	53.63	11.52	0.6335
70	1570	9.78	61.43	12.58	0.756
71	1571	8.56	54.92	13.58	0.6386
72	1572	9.7	58.64	11.95	0.68
73	1573	7.79	52.67	12.7	0.5212
74	1574	8.11	56.61	11.66	0.5353
75	1575	8.26	63.46	9.19	0.4816
76	1576	8.25	68.63	12.41	0.7029
77	1577	8.76	61.88	11.3	0.6123
78	1578	10.25	52.67	11.75	0.6345
79	1579	9.95	61.3	12.92	0.788
80	1580	8.19	58.03	11.3	0.5373
81	1581	8.27	61.92	12.61	0.6459
82	1582	8.16	59.28	11.57	0.5598
83	1583	8.18	56.09	12.94	0.5939
84	1584	9.93	61.82	12	0.7368
85	1585	9.87	63.91	12.14	0.7659
86	1586	8.04	53.34	12.47	0.5347
87	1587	8.32	52.51	12.36	0.54
88	1588	10.63	53.92	11.81	0.6771
89	1589	10.6	55.91	11.45	0.6784
90	1590	8.6	53.77	12.44	0.5753
91	1591	8.33	53.96	12.77	0.5739

92	1592	8.77	63	9.84	0.5437
93	1593	10.22	56.97	13.97	0.8135
94	1594	10.25	55.81	12.87	0.736
95	1595	11.11	58.76	10.99	0.7177
96	1596	10.48	55.89	12.18	0.7137
97	1597	11.13	61.33	14.17	0.9672
98	1598	10.83	59.18	11.39	0.7299
99	1599	10.65	57.27	12.24	0.7466
100	1600	11.09	57.98	12.3	0.7907

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 23/46

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2201	8.8	54.01	13.11	0.623
2	2202	10.26	60.75	13.84	0.8629
3	2203	9.41	56.84	12.95	0.6926
4	2204	10.08	55.72	11.7	0.6572
5	2205	10.28	60.09	13	0.8029
6	2206	9.8	59.03	13.06	0.7556
7	2207	10.33	59.9	13.77	0.8522
8	2208	9.64	60.75	12.1	0.7085
9	2209	10.12	62.23	12.9	0.8126
10	2210	7.7	61.47	11.75	0.5559
11	2211	10.59	59.17	13.01	0.8154
12	2212	8.32	57.97	13.27	0.6398
13	2213	8.21	57.05	12.6	0.5903
14	2214	10.29	54.65	12.88	0.7244
15	2215	8.31	57.68	13.25	0.6349
16	2216	8.39	58.96	12.94	0.6402
17	2217	10.3	62.06	12.7	0.8116
18	2218	10.13	55.26	12.52	0.701
19	2219	9.89	64.34	13.1	0.8337
20	2220	10.65	62.97	12.64	0.8477
21	2221	10.01	62.81	15.25	0.959
22	2222	10.12	66.14	12.28	0.8217
23	2223	7.91	55.72	11.76	0.5181
24	2224	8.29	63.46	14.39	0.7569
25	2225	10.44	64.09	11.76	0.7872
26	2226	9.86	60.66	13.34	0.7977
27	2227	10.31	61.08	11.53	0.7258
28	2228	8.69	59.63	13.63	0.7065
29	2229	8.02	58.63	13.56	0.6376
30	2230	10.58	63.89	13.32	0.9004
31	2231	8.74	60.61	13.56	0.7184
32	2232	9.88	62.85	11.79	0.7321
33	2233	11.58	63.56	13.44	0.9889
34	2234	8.1	61.78	12.95	0.648
35	2235	10.6	63.98	13.14	0.8915
36	2236	10.09	63.72	13.23	0.8506
37	2237	8.97	62.52	12.4	0.6952
38	2238	8.8	61.93	12.84	0.6996

39	2239	10.39	63.45	12.14	0.8
40	2240	10.35	58.89	12.58	0.7669
41	2241	9.96	63.34	13.36	0.8426
42	2242	8.47	61.07	12.13	0.6276
43	2243	4.35	59.92	14.4	0.3754
44	2244	8.48	58.57	13.88	0.6894
45	2245	8.09	58.61	13.43	0.6367
46	2246	9.82	63.52	13.46	0.8396
47	2247	10.38	64.28	12.97	0.8657
48	2248	10.62	65.81	14.25	0.9962
49	2249	10.42	64.82	12.71	0.8586
50	2250	10.01	61.51	13.31	0.8198
51	2251	10.07	66.48	14.38	0.9627
52	2252	10.47	64.5	9.4	0.6345
53	2253	8.31	64.32	12.97	0.6931
54	2254	10.36	64.73	12.19	0.8174
55	2255	10.12	66.1	14.04	0.9391
56	2256	9.86	66.45	14.01	0.918
57	2257	10.33	66.94	13.04	0.9018
58	2258	8.46	64.04	12.02	0.6514
59	2259	10.25	62.85	13.11	0.8446
60	2260	4.89	70.5	14.28	0.4924
61	2261	8.52	71.27	13.76	0.8358
62	2262	10.31	65.6	13.99	0.9465
63	2263	8.71	62.29	14.42	0.7822
64	2264	10.29	66.21	13.64	0.9292
65	2265	10.41	64.51	13.16	0.8838
66	2266	5.18	68.04	12.68	0.447
67	2267	8.67	67.92	13.37	0.7872
68	2268	8.27	56.22	13.27	0.6169
69	2269	4.17	58.95	12.18	0.2994
70	2270	8.58	61.28	13.84	0.7276
71	2271	8.5	59.78	13.16	0.6689
72	2272	8.46	56.55	9.78	0.4678
73	2273	8.84	66.09	13.33	0.7788
74	2274	8.87	64.24	13.64	0.777
75	2275	8.66	65.15	13.29	0.75
76	2276	10.14	61.56	13.87	0.866
77	2277	8.39	62.23	12.02	0.6276
78	2278	4.9	63.08	13.54	0.4185
79	2279	5.06	66.93	13.46	0.4559
80	2280	10.77	52.44	14.3	0.8077
81	2281	8.63	61.33	12.1	0.6403
82	2282	10.05	65.41	14.02	0.9216
83	2283	8.45	67.87	12.19	0.6988
84	2284	10.54	62.16	12.56	0.8232
85	2285	4.44	60.62	13.05	0.3512
86	2286	8.16	65.74	12.5	0.6708
87	2287	8.25	61.84	13.37	0.6823
88	2288	9.04	61.37	13.44	0.7458

89	2289	4.2	63.68	12.55	0.3356
90	2290	10.67	71.95	12.88	0.9891
91	2291	9.89	64.36	13.86	0.8822
92	2292	9.84	66.87	13.14	0.8649
93	2293	10.69	70.06	13.17	0.9867
94	2294	8.85	66.12	13.28	0.777
95	2295	9.94	63.07	14.08	0.8827
96	2296	4.36	70.27	11.77	0.3606
97	2297	9.72	63.69	14.51	0.8981
98	2298	9.88	69.68	12	0.826
99	2299	8.14	52.29	14.78	0.6292
100	2300	8.08	53.58	13.53	0.5858

Date: 04.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 08/25**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	701	10.39	53.89	12.12	0.6785
2	702	10.62	55.96	10.49	0.6234
3	703	10.46	61.52	11.22	0.7217
4	704	10.85	61.22	10.42	0.6922
5	705	10.6	56.58	11.24	0.6742
6	706	10.72	56.01	11.16	0.67
7	707	10.89	56.75	10.91	0.6741
8	708	10.92	58.53	11.33	0.724
9	709	11.08	58.3	10.77	0.6958
10	710	10.43	52.84	11.24	0.6195
11	711	11.54	58.71	11.29	0.7651
12	712	11	57.15	10.6	0.6666
13	713	10.93	57.95	11.22	0.7105
14	714	10.67	61.74	10.63	0.7
15	715	10.67	57.72	11.38	0.701
16	716	10.79	50.77	11.42	0.6258
17	717	10.56	52.21	11.28	0.622
18	718	10.14	53.15	11.38	0.6135
19	719	10.64	50	11.72	0.6235
20	720	10.8	48.64	12.36	0.6491
21	721	11.16	51.75	10.88	0.6283
22	722	10.77	60.13	10.54	0.6828
23	723	10.68	54.97	11.24	0.66
24	724	10.77	58.57	10.98	0.6925
25	725	10.63	55.26	11.44	0.6718
26	726	10.46	56.15	11.33	0.6653
27	727	10.97	59.02	10.96	0.7098
28	728	11	58.14	11.18	0.715
29	729	11	60.01	10.6	0.6996
30	730	10.86	60.97	11.24	0.7439
31	731	11.01	57.92	10.27	0.6551
32	732	10.46	56.06	10.52	0.6171
33	733	10.53	58.01	10.72	0.655
34	734	10.47	53.35	12.82	0.7161
35	735	10.46	60.01	10.71	0.6726
36	736	10.86	60.72	10.36	0.6831
37	737	8.49	58.75	11.97	0.5968
38	738	10.68	55.59	12.16	0.722
39	739	11.19	55.83	10.93	0.6826
40	740	4.57	56.59	11.61	0.3002
41	741	10.82	60.75	10.47	0.6882
42	742	10.16	52.42	12.17	0.6482
43	743	8.25	44.86	14.16	0.5239
44	744	8.06	50.19	12.17	0.4925

45	745	7.88	49.59	12.12	0.4736
46	746	4.43	40.73	14.49	0.2614
47	747	8.14	41.67	12.69	0.4306
48	748	8.06	44.08	13.7	0.4868
49	749	7.58	52.68	12.95	0.517
50	750	8.19	51.36	12.44	0.5233
51	751	7.91	48.04	13.3	0.5054
52	752	7.91	51.51	12.31	0.5015
53	753	7.51	39.21	13.19	0.3883
54	754	8.05	51.12	11.23	0.4621
55	755	8.18	51.19	12.17	0.5096
56	756	8.04	52.07	12.14	0.5081
57	757	8.29	51.06	11.91	0.504
58	758	3.83	52.06	11.74	0.234
59	759	9.37	58.03	14.11	0.7674
60	760	7.81	54.59	11.8	0.503
61	761	8.11	52.76	13.51	0.5782
62	762	9.6	58.35	14.16	0.793
63	763	8.46	56.07	12.43	0.5897
64	764	8.57	57.68	11.95	0.5905
65	765	8.79	56.73	13.06	0.6513
66	766	7.73	57.17	14.71	0.6501
67	767	9.66	57.85	14.5	0.8105
68	768	9.54	58.14	14.22	0.789
69	769	9.51	49.5	11.21	0.5278
70	770	7.96	58.48	14.07	0.6551
71	771	8.02	56.28	12.46	0.5622
72	772	9.35	58.26	14.62	0.7966
73	773	8.08	61.42	11.01	0.5462
74	774	4.23	66.87	13.14	0.3718
75	775	8.03	65.74	12.06	0.6368
76	776	10.59	58.87	12.99	0.8101
77	777	10.31	64.46	12.13	0.8062
78	778	10.42	60.69	12.03	0.7607
79	779	10.13	60.24	11.7	0.7142
80	780	9.77	59.83	11.98	0.7005
81	781	8.27	64.99	12.96	0.6963
82	782	10.68	58.41	12.12	0.7561
83	783	10.5	63.22	12.58	0.8348
84	784	11.18	62.13	12.02	0.8351
85	785	10.92	64.01	12.12	0.8474
86	786	8.34	61.03	12.9	0.6564
87	787	10.72	64.86	12.37	0.8597
88	788	10.58	59.53	12.82	0.8073
89	789	8.54	62.52	11.28	0.6021
90	790	10.34	60	12.62	0.7827
91	791	10.01	63.85	12.44	0.7948
92	792	10.35	59.38	12.88	0.7918
93	793	10.32	66.47	12.05	0.8266
94	794	10.47	61.59	12.91	0.8324

95	795	10.5	66.21	13.97	0.9712
96	796	10.21	67.42	12.84	0.8842
97	797	10.37	70.01	12.06	0.8752
98	798	8.45	69.74	12.78	0.7529
99	799	8.55	65.66	13.84	0.7772
100	800	10.24	59.11	12.16	0.7363

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 13/29

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1201	9.25	61.01	11.98	0.6762
2	1202	8.86	65.22	12.88	0.7442
3	1203	11.11	62.61	12.55	0.8732
4	1204	11.32	64.93	10.66	0.7833
5	1205	11.15	61.8	13.72	0.9455
6	1206	11.02	62.94	11.55	0.8012
7	1207	10.32	57.8	13.08	0.7802
8	1208	10.76	63.22	10.53	0.7166
9	1209	11.12	62.29	11.37	0.7873
10	1210	10.52	62.91	12.02	0.7953
11	1211	10.68	56.92	11.74	0.7134
12	1212	10.66	67.17	10.87	0.7782
13	1213	10.88	61.85	11.58	0.779
14	1214	11.16	61.06	11.3	0.77
15	1215	11.06	60.62	12.12	0.8129
16	1216	10.96	62.55	11.75	0.8056
17	1217	10.38	57.77	13.24	0.7941
18	1218	10.24	61.31	11.86	0.7444
19	1219	8.59	63.89	11.02	0.6047
20	1220	10.85	63.37	10.42	0.7161
21	1221	10.74	62.76	11.01	0.7421
22	1222	8.03	51.68	12.4	0.5147
23	1223	7.84	63.95	14.45	0.7244
24	1224	7.76	62.39	14.94	0.7232
25	1225	7.19	54.81	14.54	0.573
26	1226	7.16	58.9	14.45	0.6093
27	1227	8.15	58.54	13.02	0.621
28	1228	7.79	60.34	15.21	0.7151
29	1229	7.88	64.91	14.42	0.7376
30	1230	8.1	68.59	13.84	0.7687
31	1231	9.72	49.86	13.32	0.6454
32	1232	8.45	59.13	13.75	0.687
33	1233	9.75	58.66	12.94	0.74
34	1234	8.17	54.08	12.78	0.5645
35	1235	7.9	54.04	12.88	0.5498
36	1236	8.11	54.61	11.48	0.5085
37	1237	8.39	58.9	12.5	0.6175
38	1238	10.36	56.96	12.64	0.7459
39	1239	8.23	59.16	13.18	0.6419
40	1240	8.09	56.55	13.07	0.5979
41	1241	10.27	59.2	12.33	0.7497

42	1242	10.3	62.14	12.49	0.7993
43	1243	8.19	62.59	13.01	0.6667
44	1244	8.36	55.73	13.03	0.6069
45	1245	8.55	58.06	10.85	0.5387
46	1246	8.35	59.88	12.44	0.6221
47	1247	10.08	61.2	12.89	0.7953
48	1248	9.67	59.19	13.13	0.7514
49	1249	10.63	63.53	12.66	0.8547
50	1250	8.33	56.87	13.08	0.6198
51	1251	8.23	58.15	12.19	0.5835
52	1252	8.41	61.9	12.76	0.6644
53	1253	8.3	57.72	12.7	0.6084
54	1254	8.48	53.15	12.3	0.5546
55	1255	8.24	60.44	12.84	0.6394
56	1256	7.95	58.53	12.39	0.5764
57	1257	8.33	55.33	12.15	0.5598
58	1258	8.05	60.38	13.12	0.6376
59	1259	8.55	64.5	12	0.6618
60	1260	8.05	57.23	13.24	0.6102
61	1261	7.99	56.54	12.79	0.5777
62	1262	7.8	58.9	12.75	0.5858
63	1263	9.68	56.48	12.82	0.7008
64	1264	8.32	62.52	12.48	0.649
65	1265	9.12	62.85	12.54	0.7187
66	1266	8.16	60.45	11.75	0.5794
67	1267	9.62	58.87	13.03	0.7379
68	1268	8.57	61.25	12.69	0.6659
69	1269	8.64	59.6	11.83	0.6091
70	1270	8.37	62.11	11.85	0.616
71	1271	8.21	60.95	12.78	0.6396
72	1272	7.49	63.28	13.21	0.6262
73	1273	10.37	58.08	11.81	0.7114
74	1274	10.04	59.22	12.63	0.751
75	1275	9.67	50.42	12.87	0.6276
76	1276	8.25	57.42	13.03	0.6171
77	1277	9.59	56.76	12.54	0.6828
78	1278	10.14	56.1	12.07	0.6865
79	1279	10.6	53.26	12.41	0.7007
80	1280	9.77	56.82	12.69	0.7044
81	1281	10.43	58.7	11.96	0.7322
82	1282	10.28	62.53	12.68	0.8152
83	1283	10.96	63.88	11.01	0.7705
84	1284	10.2	57.83	12.35	0.7283
85	1285	4.59	59.32	10.65	0.2901
86	1286	10.77	53.64	12.84	0.7421
87	1287	11.08	53.48	12.68	0.7512
88	1288	10.28	54.77	11.92	0.6713
89	1289	11.89	60.26	10.84	0.7764
90	1290	10.77	55.79	10.97	0.6591
91	1291	10.54	54.68	11.65	0.6714

92	1292	10.82	60.85	10.73	0.7065
93	1293	11.45	57.76	11.27	0.7454
94	1294	10.78	57.79	11.39	0.7093
95	1295	9.38	60.57	10.55	0.5994
96	1296	11.16	57.84	11.01	0.7109
97	1297	10.76	56.51	12.19	0.7414
98	1298	10.97	57.92	12.12	0.7701
99	1299	10.47	58.7	11.81	0.7256
100	1300	10.64	58.08	11.73	0.7246

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 34/139

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3301	10.68	63.91	12.71	0.8672
2	3302	10.56	66.99	12.29	0.8691
3	3303	10.96	64.72	12.59	0.8932
4	3304	11.02	63.12	12.01	0.8353
5	3305	10.09	59.83	13.17	0.7951
6	3306	9.94	61.66	11.69	0.7167
7	3307	10.18	64.54	12.57	0.8256
8	3308	10.22	67.18	13.22	0.9075
9	3309	10.1	70.21	12.21	0.8656
10	3310	10.49	62.03	13.49	0.878
11	3311	8.71	64.12	12.16	0.6794
12	3312	10.27	65.6	11.81	0.7959
13	3313	10.39	63.08	13.24	0.8676
14	3314	10.56	72.78	12.6	0.9684
15	3315	10.93	65.94	12.47	0.8984
16	3316	10.11	67.85	12.65	0.8674
17	3317	10.22	69.91	13.36	0.9545
18	3318	8.23	68.01	13.12	0.7341
19	3319	8.46	72.54	13.07	0.802
20	3320	10.13	67.06	12.9	0.8762
21	3321	7.54	54.17	12.74	0.5203
22	3322	7.73	62.06	13.76	0.6601
23	3323	8.09	63.89	13.6	0.703
24	3324	8.05	63.14	13.1	0.6657
25	3325	8.06	66.58	12.69	0.6811
26	3326	8.55	62.77	12	0.6438
27	3327	9.98	64.25	13.31	0.8533
28	3328	8.58	64.74	11.91	0.6615
29	3329	8.23	64.47	13.36	0.7086
30	3330	7.87	65.04	11.62	0.595
31	3331	7.46	64.91	12.48	0.6043
32	3332	10.22	65.75	12.43	0.835
33	3333	9.87	59.9	13.94	0.8241
34	3334	9.79	64.81	13.53	0.8586
35	3335	8.08	64.87	12.53	0.6569
36	3336	7.68	61.83	12.71	0.6036
37	3337	7.79	66.21	14.18	0.7315
38	3338	10.51	71.67	12.95	0.9753

39	3339	8.08	64.89	12.14	0.6367
40	3340	9.85	64.58	13.07	0.8313
41	3341	9.43	69.66	12.91	0.8478
42	3342	9.81	63.22	13.24	0.8211
43	3343	8.44	65.3	13.38	0.7377
44	3344	8.25	63.18	11.73	0.6113
45	3345	9.66	69.53	13.82	0.9283
46	3346	8.39	68	12.31	0.7022
47	3347	10.38	66.62	12.5	0.8647
48	3348	10.12	68.2	12.11	0.8359
49	3349	8.25	65.37	13.39	0.7219
50	3350	10.21	61.08	14.19	0.8852
51	3351	7.79	68.77	14.72	0.7883
52	3352	7.82	54.31	12.04	0.5114
53	3353	8.22	55.83	11.14	0.5113
54	3354	8.37	59.41	12.44	0.6185
55	3355	9.94	58.81	11.32	0.662
56	3356	8.08	58.19	11.08	0.5212
57	3357	9.72	61.15	13.13	0.7805
58	3358	8.11	57.05	13.57	0.6277
59	3359	8.2	61.13	11.07	0.5551
60	3360	8.21	63.72	12.01	0.6281
61	3361	8.4	65.74	11.55	0.6376
62	3362	8.04	66.99	12.2	0.6569
63	3363	10.24	63.97	12.19	0.7987
64	3364	10.06	59.28	11.69	0.6972
65	3365	8.03	62.54	12.25	0.6151
66	3366	9.4	66.49	12.26	0.7661
67	3367	10.25	63.62	11.4	0.7431
68	3368	9.82	65.13	12.16	0.7777
69	3369	9.32	69.26	12.65	0.8164
70	3370	8.04	49.72	11.87	0.4744
71	3371	4.79	52.61	11.96	0.3013
72	3372	9.59	54.44	11.61	0.6061
73	3373	9.19	58.27	12.56	0.6727
74	3374	9.31	54.13	14.04	0.7076
75	3375	10.08	62.26	16.22	1.0181
76	3376	9.01	53.05	12.74	0.6091
77	3377	7.95	53.42	12.21	0.5183
78	3378	7.91	50.02	13.77	0.545
79	3379	7.24	54.26	13.75	0.5401
80	3380	9.76	56.1	11.6	0.6354
81	3381	8.12	49.73	12.59	0.5083
82	3382	10.28	62.99	16	1.0362
83	3383	9.46	59.68	11.33	0.6395
84	3384	8.03	61.46	12.66	0.6247
85	3385	7.7	59.43	13.81	0.6322
86	3386	10.37	57.7	12.82	0.7674
87	3387	8.21	62.34	16.25	0.8317
88	3388	8	57.77	12.83	0.5928

89	3389	9.85	63.06	16.14	1.0027
90	3390	9.6	53.78	12.51	0.6461
91	3391	7.38	53.44	12.22	0.4819
92	3392	8.04	57.92	12.4	0.5773
93	3393	9.57	63.14	12.81	0.7742
94	3394	9.44	61.8	12.23	0.7137
95	3395	8.62	61.29	12.56	0.6637
96	3396	8.43	60.73	13.14	0.6727
97	3397	9.8	64.02	10.06	0.6311
98	3398	8.07	62.66	13.57	0.6859
99	3399	8.22	68.72	12.31	0.6954
100	3400	8.44	65.09	12.74	0.6997

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 40/145

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3901	8.2	59.15	12.83	0.6224
2	3902	8.18	59.73	14.3	0.6986
3	3903	8.15	61.84	15.02	0.7571
4	3904	8.14	58.73	12.28	0.5869
5	3905	8.29	59.86	13.77	0.6831
6	3906	8.18	58.93	14.07	0.6781
7	3907	9.84	66.28	13.93	0.9082
8	3908	4	62.09	13.87	0.3444
9	3909	8.17	63.22	14.92	0.7704
10	3910	7.65	64.74	12.82	0.6349
11	3911	8.29	64.19	16.17	0.8605
12	3912	8.12	55	12.2	0.5449
13	3913	8.09	51.04	11.99	0.4951
14	3914	8.81	54.34	15.15	0.7251
15	3915	8.5	62.28	12.04	0.6375
16	3916	9.8	59.74	12.94	0.7575
17	3917	8.06	59.87	12.48	0.6021
18	3918	10.39	59.2	13.46	0.8281
19	3919	9.76	60.12	12.51	0.734
20	3920	9.77	58.68	11.49	0.6585
21	3921	7.58	54.94	13.32	0.5549
22	3922	7.77	56.45	12.68	0.5563
23	3923	8.17	58.67	13.09	0.6275
24	3924	8.37	54.8	12.97	0.5951
25	3925	8.2	56	12.04	0.5527
26	3926	8.52	57.64	15.37	0.7549
27	3927	9.68	59.16	11.56	0.6621
28	3928	4.28	61.68	10.77	0.2842
29	3929	9.14	64.65	11.65	0.6882
30	3930	9.63	64.2	13.16	0.8137
31	3931	9.94	60.63	13.44	0.8101
32	3932	9.67	64.05	13.33	0.8258
33	3933	10.22	64.97	11.97	0.7951
34	3934	10.42	62.29	12.59	0.8169
35	3935	8.19	60.62	12.24	0.6077

36	3936	4.13	61.47	10.88	0.2763
37	3937	4.78	44.43	13.26	0.2815
38	3938	8.09	45.73	12.11	0.4482
39	3939	4.77	55.25	13.23	0.3487
40	3940	8.05	56.74	12.6	0.5756
41	3941	7.49	61.61	12.81	0.591
42	3942	7.82	60.1	13.58	0.6381
43	3943	7.88	60.68	12.85	0.6146
44	3944	7.9	61.43	12.5	0.6067
45	3945	7.64	59.74	12.81	0.5845
46	3946	7.43	61.77	13.05	0.5989
47	3947	4.56	60.1	13.31	0.3648
48	3948	7.81	64.58	12.42	0.6264
49	3949	8.21	35.17	13.14	0.3793
50	3950	9.62	48.09	12.02	0.556
51	3951	8.49	55.06	11.57	0.5408
52	3952	8.11	58.36	12.89	0.6099
53	3953	7.95	56.33	12.46	0.5581
54	3954	7.91	49.5	12.85	0.5031
55	3955	8.17	52.18	12.09	0.5155
56	3956	8.16	59.04	11.57	0.5573
57	3957	8.29	49.6	13.06	0.5372
58	3958	7.95	59.05	12.94	0.6074
59	3959	8.11	60.06	11.57	0.5636
60	3960	9.54	62.01	12.24	0.7241
61	3961	4.44	56.5	13.77	0.3454
62	3962	9.71	60.36	12.33	0.7224
63	3963	8.41	56.19	12.9	0.6097
64	3964	9.66	61.92	11.95	0.7148
65	3965	8.48	57.33	11.39	0.5537
66	3966	8.53	57.16	12.77	0.6227
67	3967	10.21	45.12	12.9	0.5942
68	3968	10.28	53.6	12.85	0.7083
69	3969	8.11	57.45	12.67	0.5904
70	3970	10.12	54.16	12.39	0.6791
71	3971	10.06	52.56	13.68	0.7233
72	3972	8.75	61.26	12.78	0.6851
73	3973	8.52	59.61	15	0.7617
74	3974	10.61	59.84	12.7	0.8064
75	3975	10.17	60.93	13.46	0.8339
76	3976	8.49	55.69	12.37	0.585
77	3977	7.35	48.34	12.49	0.4439
78	3978	4.2	49.61	12.7	0.2646
79	3979	9.38	51.2	12.85	0.6172
80	3980	9.58	48.11	11.85	0.5461
81	3981	9.24	47.55	13.29	0.584
82	3982	8.15	49.92	13.38	0.5444
83	3983	7.74	46.61	13.15	0.4745
84	3984	9.34	56.2	13.52	0.7098
85	3985	7.96	53	12.74	0.5373

86	3986	8	54.2	12.32	0.5344
87	3987	8.16	51.55	12.47	0.5247
88	3988	6.65	50.55	12.74	0.4283
89	3989	9.82	55.61	12.79	0.6982
90	3990	7.89	51.82	13.93	0.5697
91	3991	4.63	46.98	13.13	0.2857
92	3992	9.55	49.95	13.43	0.6408
93	3993	4.38	57.33	13.54	0.3399
94	3994	7.84	63.3	12.27	0.6092
95	3995	7.29	59.03	13.2	0.5679
96	3996	10.26	58.54	13.44	0.8075
97	3997	8.06	55.78	13.34	0.5997
98	3998	7.27	54.7	12.07	0.4798
99	3999	7.59	53.66	14.14	0.5761
100	4000	7.53	50.9	14.22	0.5452

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 42/147

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4101	9.64	49.37	12.82	0.6102
2	4102	7.92	59.23	13.15	0.617
3	4103	4.04	59.67	13.39	0.3228
4	4104	10.12	58.22	12.35	0.7276
5	4105	9.55	61.05	13.74	0.8012
6	4106	8.56	54.81	12.39	0.5812
7	4107	8.04	51.13	13.55	0.5572
8	4108	8.25	56.49	13.58	0.6328
9	4109	7.8	58.99	12.09	0.5561
10	4110	4.26	53.18	13.69	0.3101
11	4111	7.9	55.1	13.01	0.5664
12	4112	4.17	54.56	13.03	0.2965
13	4113	8.29	58.13	13.85	0.6673
14	4114	9.79	60.17	12.38	0.7294
15	4115	3.97	57.96	14.56	0.3351
16	4116	7.68	55.92	13.72	0.5891
17	4117	10.06	57.51	13.7	0.7927
18	4118	8.3	62.25	11.58	0.5984
19	4119	8.16	59.69	13.2	0.643
20	4120	9.57	66.18	13.64	0.8642
21	4121	8.59	46.54	13.39	0.5352
22	4122	8.24	42.51	12.51	0.4384
23	4123	5.59	41.23	12.42	0.2862
24	4124	8.42	50.99	12	0.5153
25	4125	8.13	40.68	12.22	0.4041
26	4126	5.08	59.35	8.02	0.2418
27	4127	10.65	46.26	12.06	0.5943
28	4128	5.08	41.55	13.09	0.2764
29	4129	8.68	50.63	13.23	0.5816
30	4130	8.1	50.78	11.76	0.4836
31	4131	10.87	49.75	10.53	0.5696
32	4132	9.08	46.12	12.51	0.5239

33	4133	8.8	50.03	14.19	0.6248
34	4134	4.89	43.04	16.24	0.3418
35	4135	10.53	55	11.87	0.6876
36	4136	8.86	56.1	10.61	0.5272
37	4137	3.99	46.94	13.27	0.2486
38	4138	8.17	49.63	13.48	0.5466
39	4139	8.83	53.35	11.32	0.5333
40	4140	5.34	49.36	11.39	0.3001
41	4141	7.96	51.68	12.33	0.5071
42	4142	9.67	49.2	14.74	0.7011
43	4143	5.51	42.48	13.98	0.3273
44	4144	10.21	53.97	8.5	0.4686
45	4145	9.92	49.68	11.96	0.5892
46	4146	8.18	56.81	14.24	0.6618
47	4147	4.83	51.73	12.82	0.3202
48	4148	10.82	56.23	12.25	0.7455
49	4149	8.36	48.95	13.26	0.5426
50	4150	11.13	58.97	13.43	0.8815
51	4151	8.6	51.47	11.68	0.5169
52	4152	8.04	52.24	14.4	0.6046
53	4153	8.78	57.22	14.54	0.7305
54	4154	10.47	53.62	13.67	0.7675
55	4155	10.14	57.11	12.55	0.727
56	4156	8.38	44.58	14.04	0.5246
57	4157	9.44	60.35	12.63	0.7193
58	4158	8.81	55.36	13.64	0.6652
59	4159	8.37	51.14	13.18	0.5641
60	4160	7.99	48.88	12.56	0.4906
61	4161	9.95	55.74	10.85	0.602
62	4162	7.41	44.87	13.06	0.4342
63	4163	8.57	59.36	13.83	0.7036
64	4164	8.23	53.18	13.39	0.586
65	4165	8.26	55.08	11.56	0.5262
66	4166	8.08	55.17	13.81	0.6157
67	4167	8.21	49.69	13.32	0.5435
68	4168	8.54	57.12	12.97	0.6328
69	4169	8.16	50.31	12.86	0.528
70	4170	8.5	55.16	12.84	0.6018
71	4171	4.21	50.14	12.19	0.2572
72	4172	8.07	52.1	12.96	0.5447
73	4173	8.05	52.6	13.27	0.5619
74	4174	8.62	54.28	13.76	0.6439
75	4175	8.08	56.01	13.8	0.6246
76	4176	7.88	52.66	12.5	0.5185
77	4177	8.15	56.66	13.54	0.6251
78	4178	7.92	54.83	13.17	0.5718
79	4179	9.31	54.81	13.56	0.6917
80	4180	8.26	60.56	14.68	0.7343
81	4181	8.25	55.41	12.42	0.5676
82	4182	8.18	57.58	12.61	0.5939

83	4183	8.02	56.74	11.84	0.5389
84	4184	8	60.21	13.75	0.6624
85	4185	8.34	67.14	14.06	0.7873
86	4186	8.1	58.42	13.3	0.6294
87	4187	8.74	44.39	11.78	0.4571
88	4188	8.27	49.34	14.19	0.5789
89	4189	7.24	48.85	11.87	0.4199
90	4190	8.14	50.26	12.42	0.5079
91	4191	10	54.13	12.54	0.679
92	4192	8.56	55.71	11.97	0.571
93	4193	10.83	54.55	12.25	0.7234
94	4194	8.44	50.97	12.79	0.5503
95	4195	8.57	52.76	11.87	0.5365
96	4196	8.15	52.03	11.3	0.4792
97	4197	11.42	50.93	10.84	0.6304
98	4198	8.47	49.94	10.57	0.4472
99	4199	10.82	47.32	12.62	0.646
100	4200	8.37	50.99	11.39	0.4863

Date: 01.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 17/20**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1601	10.76	61.5	10.36	0.6854
2	1602	10.62	63.03	8.77	0.5873
3	1603	10.63	57.22	11.36	0.691
4	1604	10.57	55.94	12.78	0.7558
5	1605	10.98	61.72	11.54	0.7818
6	1606	10.93	56.06	11.68	0.7159
7	1607	10.18	59.76	12.55	0.7635
8	1608	8.64	58.96	12.18	0.6204
9	1609	10.59	58.02	11.67	0.7169
10	1610	10.97	60.27	14.05	0.9292
11	1611	10.13	58.86	12.95	0.7719
12	1612	10.33	57.37	11.23	0.6653
13	1613	10.63	62.33	13.49	0.894
14	1614	11	60.51	11.3	0.7524
15	1615	8.64	59.76	13.02	0.6722
16	1616	8.44	57.15	14.35	0.6921
17	1617	10.42	60.77	11.12	0.7044
18	1618	10.74	61.45	12.92	0.8528
19	1619	8.29	56.91	12.74	0.601
20	1620	11.02	61.93	10.87	0.7416
21	1621	8.84	59.58	11.3	0.5949
22	1622	8.3	60.59	12.41	0.6242
23	1623	10.68	62.44	11.95	0.7967
24	1624	10.6	58.53	12.44	0.7717
25	1625	10.52	57.98	10.95	0.668
26	1626	10.95	62.74	12.26	0.8421
27	1627	10.37	63.52	12.59	0.8296
28	1628	10.59	60.52	10.87	0.6968
29	1629	10.38	61.08	12.79	0.8107
30	1630	8.73	58.73	11.14	0.5709
31	1631	8.38	63.56	12.74	0.6788
32	1632	10.21	65.09	11.89	0.7903
33	1633	8.59	61.03	10.86	0.5695
34	1634	10.36	57.8	13.55	0.8112
35	1635	10.6	63.73	12.66	0.8554
36	1636	10.22	51.46	13.21	0.695
37	1637	8.49	51.32	11.98	0.5221
38	1638	8.3	54.59	12.58	0.5702
39	1639	10.41	55.2	13.08	0.7516
40	1640	8.06	56.03	13.55	0.6118
41	1641	8.37	54.76	13.5	0.6185
42	1642	8.38	57.4	13.03	0.6268
43	1643	8.63	60.17	13.2	0.6852
44	1644	10.51	57.68	12.36	0.7494

45	1645	10.05	62.71	12.18	0.7678
46	1646	10.39	50.97	13.5	0.7148
47	1647	8.34	58.81	12.91	0.633
48	1648	10.28	57.06	10.88	0.6384
49	1649	8.53	57.63	12.09	0.5945
50	1650	7.92	61.74	11.05	0.5401
51	1651	8.38	56.3	13.41	0.6327
52	1652	8.26	57.33	12.21	0.5782
53	1653	8.35	53.18	10.62	0.4718
54	1654	8.11	63.72	14.64	0.7567
55	1655	8.47	61.81	12.54	0.6564
56	1656	8.75	59.03	13.65	0.7053
57	1657	10.27	58.64	11.27	0.6788
58	1658	9.78	57.75	13.26	0.7491
59	1659	9.89	65.09	11.43	0.7358
60	1660	8.56	56.54	11.5	0.5564
61	1661	8.3	58.51	12.97	0.63
62	1662	8.29	59.58	11.01	0.5438
63	1663	8.5	56.78	14.2	0.6851
64	1664	8.2	53.18	12.52	0.5461
65	1665	10.54	60.38	13.12	0.8348
66	1666	10.82	57.4	12.86	0.7985
67	1667	8.33	61.05	12.71	0.6464
68	1668	8.09	61.07	13.53	0.6682
69	1669	8.38	59.49	13.85	0.6905
70	1670	10.85	63.53	13.54	0.9331
71	1671	8.4	62.04	11.17	0.5821
72	1672	8.6	62.79	13.66	0.7379
73	1673	8.49	61.96	12.64	0.6648
74	1674	8.41	60.73	14.01	0.7157
75	1675	8.45	62.98	13.72	0.7301
76	1676	8.68	61.21	12.35	0.6562
77	1677	8.42	57.18	13.24	0.6374
78	1678	8.78	63.82	10.18	0.5707
79	1679	10.7	61.88	13.19	0.8731
80	1680	8.13	56.03	12.33	0.5618
81	1681	10.23	63.45	12.72	0.8256
82	1682	10.37	64.37	12.82	0.8555
83	1683	10.79	59.2	12.65	0.8082
84	1684	8.25	63.34	13.97	0.7301
85	1685	10.84	57.9	13.01	0.8163
86	1686	7.76	47.21	13.75	0.5036
87	1687	9.9	60.25	12.45	0.7425
88	1688	8.34	51.23	13.35	0.5705
89	1689	10.39	60.12	12.99	0.8115
90	1690	10.85	55.54	10.82	0.6521
91	1691	8.23	55.15	12.89	0.5852
92	1692	9.76	52.53	13.14	0.6734
93	1693	8.62	56.48	11.69	0.5689
94	1694	8.51	57.64	11.83	0.5804

95	1695	8.27	53	13.26	0.5814
96	1696	8.56	57.6	11.82	0.5829
97	1697	8.34	56.69	13.83	0.6539
98	1698	8.46	60.66	10.37	0.5321
99	1699	8.47	57.45	11.78	0.5734
100	1700	10.21	66.75	14.29	0.974

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 19/42

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1801	8.46	55.53	12.64	0.5939
2	1802	7.65	54.25	14.89	0.6181
3	1803	8.72	55.83	13.56	0.6601
4	1804	7.76	52.87	13.92	0.5711
5	1805	4.02	55.87	11.63	0.2613
6	1806	8.48	60.81	12.63	0.6513
7	1807	7.08	55.59	14.68	0.5777
8	1808	4.08	61.55	12.79	0.3211
9	1809	8.07	61.41	12.78	0.6335
10	1810	4.76	55.46	11.07	0.2923
11	1811	7.88	57.33	15.07	0.6808
12	1812	7.89	58.92	13.41	0.6233
13	1813	7.99	51.64	12.45	0.5138
14	1814	8.24	55.09	12.92	0.5867
15	1815	8.44	58.29	12.83	0.6313
16	1816	8.76	51.33	12.99	0.5843
17	1817	8.17	55.75	12.22	0.5564
18	1818	7.82	52.44	13.41	0.5497
19	1819	7.58	46.54	14.61	0.5154
20	1820	7.4	61.51	14.63	0.666
21	1821	4.03	64.32	13.14	0.3405
22	1822	3.94	61.58	13.74	0.3333
23	1823	8.95	60.18	13.83	0.7446
24	1824	7.53	53.47	11.15	0.4488
25	1825	10.06	53.11	14.76	0.7887
26	1826	8.12	60.3	13.08	0.6407
27	1827	7.4	68.58	13.56	0.6882
28	1828	8.13	63.02	12.42	0.6366
29	1829	3.99	65.21	12.51	0.3256
30	1830	8.49	48.8	12.91	0.5349
31	1831	9.52	52.41	13.95	0.6959
32	1832	9.72	64	13.31	0.8281
33	1833	10.29	57.87	11.61	0.6915
34	1834	9.31	54.25	11.93	0.6024
35	1835	8.19	56.06	13.95	0.6405
36	1836	10.35	60	12.42	0.7711
37	1837	3.09	60.62	11.73	0.2197
38	1838	8.15	60.3	13.4	0.6585
39	1839	7.87	63.76	12.91	0.6477
40	1840	8.28	63.21	13.35	0.6988
41	1841	4.09	60.81	14.06	0.3497

42	1842	7.93	60.67	13.78	0.6629
43	1843	8.62	57.18	13.57	0.6689
44	1844	6.71	57.96	12.32	0.4791
45	1845	10.02	59.74	12.62	0.7555
46	1846	9.62	61.35	14.39	0.8494
47	1847	8.5	65.93	13.04	0.731
48	1848	4.24	68.37	14.52	0.421
49	1849	9.56	64.93	13.54	0.8403
50	1850	8.45	64.39	13.36	0.7267
51	1851	8.49	64.2	13.05	0.7115
52	1852	8.23	58.11	14.32	0.6847
53	1853	4.05	65.57	13.47	0.3576
54	1854	8.69	60.78	11.67	0.6161
55	1855	8.28	61.95	13.87	0.7113
56	1856	8.02	65.77	12.74	0.6721
57	1857	8.39	64.68	12.03	0.6527
58	1858	7.82	65.2	12.12	0.6178
59	1859	3.5	62.4	13.09	0.286
60	1860	3.97	69.86	12.57	0.3486
61	1861	3.91	53.2	14.23	0.296
62	1862	8.54	55.74	13.58	0.6465
63	1863	8.11	60.55	12.54	0.6155
64	1864	9.42	63.61	14.15	0.8478
65	1865	10.05	55.93	13.02	0.7316
66	1866	8.06	53.1	13.15	0.5626
67	1867	8.63	60.1	13.29	0.6895
68	1868	8.41	57.01	12.79	0.6131
69	1869	10.16	59.17	12.88	0.7742
70	1870	8.16	65.61	13.37	0.7156
71	1871	8.31	59.01	13.22	0.6482
72	1872	8.45	59.51	14.08	0.7081
73	1873	8.25	61.35	13.84	0.7004
74	1874	8.06	60.95	12.81	0.6295
75	1875	8.03	65.69	13.23	0.6978
76	1876	7.78	65.24	12.61	0.6403
77	1877	3.98	65.27	13.33	0.3463
78	1878	10.1	56.42	12.76	0.7272
79	1879	8.05	62.44	12.73	0.64
80	1880	4.41	62.7	12.09	0.3343
81	1881	8.21	63.46	13.33	0.6946
82	1882	8.81	59.63	11.02	0.5788
83	1883	8.45	64.54	13.14	0.7166
84	1884	10.09	66.09	12.53	0.8355
85	1885	4.24	62.65	13.68	0.3634
86	1886	4.11	62.86	13.78	0.3559
87	1887	8.17	62.24	15.1	0.768
88	1888	8.39	63.43	13.07	0.6955
89	1889	8.02	65.73	12.34	0.6504
90	1890	3.14	59.25	12.96	0.2412
91	1891	8.21	69.5	14.52	0.8284

92	1892	8.08	56.39	12.4	0.5648
93	1893	7.99	57.68	12.1	0.5577
94	1894	8.48	53.65	12.99	0.5911
95	1895	9.62	60.36	13.49	0.7831
96	1896	7.25	58.18	13.94	0.588
97	1897	8.24	58.81	13.89	0.6732
98	1898	8.56	56.45	13.27	0.6411
99	1899	8.23	56.97	12.95	0.6074
100	1900	3.89	57.62	12.69	0.2844

Date: 31.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 22/45**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2103	7.93	61.74	15.92	0.7795
2	2141	9.91	68.74	14.08	0.9593
3	2178	10.44	61.92	11.72	0.7579
4	2152	10.53	58.54	11.31	0.6971
5	2179	10.12	60.54	13.15	0.8056
6	2124	8.12	61.59	12.79	0.6399
7	2167	8.66	65.54	12.39	0.7032
8	2186	10.6	55.97	11.90	0.7060
9	2129	9.76	62.25	15.86	0.9633
10	2188	9.81	57.85	13.64	0.7740
11	2121	8.56	57.43	11.53	0.5667
12	2176	8.3	59.25	12.52	0.6159
13	2147	10.22	59.99	12.20	0.7481
14	2123	7.93	60.54	12.31	0.5908
15	2182	10.55	63.31	12.24	0.8176
16	2162	8.28	59.24	13.28	0.6516
17	2122	8.07	58.02	12.27	0.5746
18	2136	7.77	63.70	12.65	0.6263
19	2189	9.89	57.51	12.07	0.6864
20	2114	9.88	58.88	11.77	0.6847
21	2166	9.97	61.76	13.05	0.8036
22	2154	10.43	60.04	13.09	0.8198
23	2142	10.31	53.91	12.32	0.6846
24	2119	4.34	55.12	13.53	0.3238
25	2144	8.48	55.98	13.11	0.6224
26	2160	10.75	59.26	12.28	0.7826
27	2156	9.94	60.69	13.51	0.8151
28	2113	9.77	56.58	12.11	0.6692
29	2126	8.24	59.14	11.95	0.5826
30	2106	8.03	49.67	13.31	0.5308
31	2200	10.54	57.22	11.67	0.7041
32	2133	7.52	56.28	13.45	0.5693
33	2169	8.94	62.41	12.83	0.7161
34	2199	8.28	56.23	12.11	0.5639
35	2187	8.08	53.10	14.29	0.6133
36	2172	9.9	64.40	11.29	0.7197
37	2110	8.32	52.77	13.89	0.6099
38	2185	8.51	64.93	12.37	0.6834
39	2146	9.97	55.27	12.39	0.6829
40	2112	7.88	52.47	13.63	0.5634
41	2104	7.99	54.00	12.65	0.5457
42	2101	9.62	60.86	14.77	0.8648
43	2183	10.15	62.87	12.58	0.8029
44	2102	8.08	58.12	13.15	0.6173

45	2127	8.03	61.57	12.55	0.6207
46	2108	8.02	58.62	11.96	0.5622
47	2117	8.35	51.14	12.65	0.5402
48	2190	7.83	58.55	12.14	0.5567
49	2196	10.01	65.03	12.53	0.8158
50	2153	10.15	62.15	12.74	0.8039
51	2145	8.67	52.28	12.18	0.5523
52	2131	8.12	59.08	12.56	0.6025
53	2150	10.26	55.96	12.35	0.7090
54	2180	8.5	62.05	12.59	0.6639
55	2139	8.51	55.42	12.88	0.6076
56	2195	8.41	58.73	13.23	0.6535
57	2109	8.06	58.05	11.63	0.5441
58	2197	10.42	57.81	12.99	0.7825
59	2174	9.88	63.02	11.57	0.7203
60	2173	10.08	62.18	12.88	0.8074
61	2191	10.38	57.29	11.78	0.7007
62	2181	10.19	62.21	12.67	0.8030
63	2151	8.72	59.12	13.60	0.7011
64	2159	10.39	60.82	12.35	0.7803
65	2132	8.19	61.04	11.88	0.5938
66	2170	10.17	61.27	11.47	0.7150
67	2148	9	58.11	10.69	0.5589
68	2164	10.48	61.41	13.29	0.8552
69	2171	8.45	61.10	12.21	0.6304
70	2111	7.99	59.38	12.16	0.5769
71	2125	8.34	56.19	12.30	0.5763
72	2161	10.4	57.34	12.61	0.7519
73	2143	10.31	53.72	12.62	0.6990
74	2105	8.13	54.98	12.64	0.5650
75	2115	7.35	58.30	12.88	0.5520
76	2184	10.56	64.74	12.87	0.8796
77	2192	11.14	57.67	12.97	0.8333
78	2149	8.86	52.94	13.37	0.6273
79	2198	10.44	60.44	11.71	0.7392
80	2107	8.04	53.36	12.20	0.5234
81	2130	8.16	64.90	11.83	0.6267
82	2118	7.95	57.45	13.11	0.5986
83	2157	10.06	61.82	13.02	0.8098
84	2194	8.28	59.32	11.09	0.5448
85	2135	8.01	56.27	11.94	0.5383
86	2138	8.07	58.48	11.85	0.5593
87	2158	10.01	60.94	13.05	0.7958
88	2177	9.8	62.74	13.21	0.8124
89	2155	8.38	60.13	10.73	0.5405
90	2165	8.31	60.05	12.01	0.5992
91	2134	8.1	57.55	11.85	0.5524
92	2116	8.1	56.05	13.31	0.6043
93	2137	8.47	54.45	13.30	0.6132
94	2193	9.99	57.00	14.79	0.8422

95	2120	7.82	60.65	11.56	0.5482
96	2140	3.74	52.82	12.02	0.2375
97	2128	9.87	58.61	11.79	0.6820
98	2175	10.64	63.09	12.82	0.8608
99	2168	10.12	60.66	12.86	0.7894
100	2163	10.44	53.75	11.40	0.6400

Name of Division : Chittorgadh-II			Challan No. : 21/44		
--	--	--	----------------------------	--	--

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2051	8.46	54.39	12.63	0.5812
2	2038	10.24	59.95	11.86	0.7281
3	2069	8.62	55.76	13.09	0.6293
4	2048	10.41	60.82	12.63	0.7995
5	2050	7.82	67.04	13.56	0.7108
6	2024	10.05	60.77	12.67	0.7739
7	2065	9.82	65.15	13.65	0.8730
8	2005	8.24	45.02	13.55	0.5026
9	2078	10.49	59.55	13.55	0.8465
10	2092	9.63	60.26	14.02	0.8137
11	2055	9.92	61.21	14.75	0.8958
12	2029	10.34	58.17	13.48	0.8107
13	2043	10.16	64.15	12.31	0.8026
14	2033	10.28	59.86	13.05	0.8029
15	2019	7.86	60.51	13.80	0.6563
16	2028	10.52	54.10	12.38	0.7048
17	2090	10.15	59.60	13.51	0.8171
18	2056	10.23	57.55	13.43	0.7908
19	2017	7.78	54.45	13.26	0.5617
20	2016	5.1	54.04	13.49	0.3718
21	2066	10.15	64.36	13.81	0.9023
22	2020	7.52	61.97	13.89	0.6475
23	2072	10.35	55.01	13.96	0.7949
24	2046	10.23	58.92	13.15	0.7928
25	2049	8.7	59.52	13.16	0.6812
26	2093	10.36	62.44	13.79	0.8920
27	2099	8.09	62.17	15.96	0.8025
28	2070	10.47	51.93	12.96	0.7046
29	2031	10.58	65.12	12.56	0.8654
30	2032	4.16	55.95	13.24	0.3083
31	2079	8.35	57.24	12.61	0.6029
32	2087	10.34	61.39	12.45	0.7900
33	2021	7.98	57.26	13.88	0.6344
34	2008	7.46	48.48	13.51	0.4886
35	2013	9.67	53.01	14.02	0.7185
36	2074	9.82	60.08	13.22	0.7797
37	2073	10.04	58.51	13.28	0.7801
38	2047	8.57	69.44	9.81	0.5836
39	2001	9.91	60.53	13.71	0.8225
40	2054	10.06	61.86	12.22	0.7605
41	2042	9.98	61.34	11.74	0.7186

42	2007	7.94	52.16	12.92	0.5352
43	2084	8.45	62.04	12.01	0.6295
44	2091	8.73	59.99	13.00	0.6809
45	2011	4.32	55.80	13.58	0.3275
46	2035	9.95	54.20	12.27	0.6617
47	2061	10.22	60.81	12.14	0.7542
48	2006	9.23	47.40	12.95	0.5667
49	2045	8.24	57.32	12.56	0.5933
50	2097	8.08	53.85	12.26	0.5333
51	2096	7.47	61.45	16.19	0.7433
52	2053	10.25	63.48	12.51	0.8138
53	2098	8.24	54.06	12.17	0.5422
54	2067	8.84	50.69	12.53	0.5613
55	2088	10.46	60.12	13.24	0.8326
56	2062	10.17	64.42	12.99	0.8512
57	2085	10.62	57.72	14.09	0.8634
58	2023	7.5	58.77	13.26	0.5843
59	2081	10.19	58.95	14.13	0.8488
60	2063	10.35	65.53	12.12	0.8218
61	2077	9	51.65	12.93	0.6012
62	2076	10.34	58.87	13.27	0.8076
63	2100	7.95	53.60	14.38	0.6129
64	2082	8.68	59.27	13.18	0.6779
65	2012	4.48	51.98	14.56	0.3391
66	2052	9.77	61.58	13.06	0.7855
67	2034	10.2	55.67	13.36	0.7589
68	2095	10.34	58.04	12.58	0.7548
69	2015	7.72	54.34	13.99	0.5867
70	2089	10.17	58.10	13.53	0.7994
71	2036	10.2	57.37	12.99	0.7599
72	2086	10.27	57.92	13.59	0.8082
73	2003	8.45	59.14	12.83	0.6414
74	2083	10.41	54.85	13.11	0.7485
75	2026	10.55	56.77	12.58	0.7533
76	2040	9.52	56.41	12.60	0.6769
77	2071	10.59	57.19	15.11	0.9150
78	2009	7.88	48.76	13.43	0.5161
79	2037	8.29	55.20	13.79	0.6309
80	2002	8.19	63.57	12.82	0.6675
81	2059	10.11	59.86	13.60	0.8230
82	2044	10.58	56.05	11.78	0.6983
83	2060	10.11	61.38	13.28	0.8240
84	2027	10.41	54.07	12.58	0.7079
85	2068	10.28	54.84	14.82	0.8358
86	2058	8.41	61.14	10.75	0.5525
87	2025	8.44	54.07	11.23	0.5123
88	2075	8.41	54.11	12.90	0.5870
89	2064	10.69	61.20	12.84	0.8402
90	2057	10.18	61.36	12.84	0.8022
91	2039	9.72	55.27	14.04	0.7543

92	2041	9.73	54.22	12.26	0.6470
93	2004	10.48	59.15	11.83	0.7336
94	2030	10.21	60.29	13.98	0.8607
95	2094	4.25	63.14	14.51	0.3893
96	2018	8.02	59.36	14.03	0.6681
97	2022	3.79	57.46	13.02	0.2835
98	2010	9.8	49.31	12.90	0.6233
99	2080	8.38	59.03	13.15	0.6503
100	2014	3.72	52.47	12.22	0.2385

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 11/28

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1079	7.84	64.89	13.18	0.6703
2	1028	10.77	55.11	11.76	0.6979
3	1096	9.98	58.50	11.73	0.6846
4	1026	10.55	56.52	12.76	0.7607
5	1030	9.31	56.57	7.83	0.4124
6	1094	9.38	62.23	11.86	0.6922
7	1019	11.55	60.10	10.52	0.7300
8	1074	8.04	58.33	11.35	0.5322
9	1038	10.92	55.35	11.53	0.6967
10	1067	10.61	60.71	10.85	0.6992
11	1087	9.23	55.31	12.31	0.6286
12	1022	11.08	62.87	11.13	0.7756
13	1001	10.3	53.46	11.52	0.6345
14	1053	10.95	60.54	11.50	0.7621
15	1095	8.25	62.99	12.91	0.6707
16	1059	8.94	66.03	11.00	0.6490
17	1029	8.34	52.61	12.81	0.5621
18	1023	10.78	54.59	12.09	0.7115
19	1086	9.29	61.34	11.92	0.6791
20	1088	9.8	63.56	12.76	0.7948
21	1055	10.69	64.56	12.00	0.8285
22	1009	10.42	58.69	11.79	0.7211
23	1048	11.34	63.81	10.53	0.7620
24	1037	9.26	58.16	12.93	0.6964
25	1100	9.37	63.51	12.86	0.7655
26	1050	11.11	60.05	11.52	0.7688
27	1089	1.39	53.91	12.60	0.0944
28	1025	11.14	57.35	10.53	0.6729
29	1080	9.2	61.48	12.77	0.7222
30	1027	11.08	58.93	10.59	0.6914
31	1021	10.71	58.64	10.93	0.6865
32	1084	4.42	64.87	12.66	0.3629
33	1071	11.07	64.68	11.12	0.7959
34	1041	10.9	57.69	12.05	0.7575
35	1081	9.08	60.74	10.50	0.5793
36	1002	10.63	60.35	11.17	0.7165
37	1020	10.8	55.84	10.82	0.6523
38	1008	10.57	59.10	10.69	0.6680

39	1006	10.84	54.75	10.65	0.6320
40	1092	8.19	63.20	11.95	0.6183
41	1099	8.25	63.05	10.86	0.5651
42	1024	10.53	54.91	10.44	0.6034
43	1052	11.21	56.76	12.17	0.7746
44	1044	10.84	56.62	12.42	0.7621
45	1047	9.74	59.52	11.61	0.6730
46	1043	11.19	58.08	10.93	0.7106
47	1013	10.93	55.34	10.73	0.6492
48	1058	10.59	60.61	11.62	0.7455
49	1064	10.62	62.25	15.21	1.0057
50	1093	9.53	62.22	12.78	0.7576
51	1097	7.46	56.41	12.09	0.5088
52	1061	9.3	62.41	11.06	0.6417
53	1078	9.93	63.19	12.79	0.8023
54	1062	7.35	59.42	10.65	0.4653
55	1033	9.11	56.72	11.79	0.6095
56	1042	11.12	59.67	10.27	0.6817
57	1005	10.53	55.24	10.63	0.6181
58	1035	10.71	57.23	11.41	0.6994
59	1072	10.64	63.27	12.50	0.8416
60	1018	10.76	56.07	10.95	0.6607
61	1036	11.19	54.09	11.39	0.6893
62	1056	10.64	60.39	11.23	0.7214
63	1016	10.9	55.19	11.52	0.6932
64	1034	9.23	53.56	11.22	0.5547
65	1098	7.98	60.63	12.75	0.6169
66	1046	11.04	54.53	12.56	0.7562
67	1049	10.61	56.52	11.18	0.6706
68	1003	10.91	56.86	10.59	0.6568
69	1073	10.98	65.29	12.19	0.8740
70	1083	8.05	57.53	11.77	0.5450
71	1063	11.1	61.16	11.59	0.7870
72	1040	10.81	58.44	12.41	0.7837
73	1068	8.7	58.46	10.73	0.5455
74	1054	7.13	62.36	10.36	0.4606
75	1039	10.97	58.35	11.14	0.7130
76	1011	10.57	59.68	11.36	0.7166
77	1076	9.15	59.85	10.71	0.5865
78	1004	10.94	56.96	10.45	0.6509
79	1082	9.25	55.68	12.68	0.6531
80	1077	9.07	63.90	12.39	0.7183
81	1014	10.77	56.88	11.29	0.6914
82	1065	10.53	58.21	10.19	0.6244
83	1075	8.24	57.57	12.73	0.6040
84	1015	10.26	58.67	10.24	0.6166
85	1057	8.91	59.89	12.89	0.6879
86	1069	11.16	62.96	10.47	0.7354
87	1032	10.31	55.65	11.77	0.6753
88	1031	10.55	51.97	11.55	0.6330

89	1051	10.93	55.51	11.42	0.6930
90	1070	10.78	67.67	11.02	0.8042
91	1017	11.66	59.57	10.63	0.7381
92	1007	10.85	48.40	11.57	0.6076
93	1045	10.86	61.49	12.82	0.8558
94	1060	10.6	61.51	12.11	0.7897
95	1085	9.19	63.52	13.35	0.7793
96	1090	9.37	62.11	12.62	0.7346
97	1091	8.88	57.17	12.26	0.6225
98	1066	10.51	60.15	11.75	0.7431
99	1012	10.82	57.64	11.10	0.6925
100	1010	10.68	54.98	10.97	0.6440

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 10/27

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	928	10.75	54.79	11.63	0.6848
2	913	9.16	47.99	11.34	0.4983
3	984	10.68	56.01	10.36	0.6194
4	936	10.49	54.39	10.83	0.6179
5	989	11.03	57.88	10.71	0.6839
6	992	11.13	57.19	10.84	0.6901
7	972	10.88	59.27	10.21	0.6582
8	955	11.03	60.20	11.53	0.7655
9	933	11.04	58.10	13.53	0.8677
10	919	10.81	57.66	11.12	0.6929
11	995	10.5	53.58	11.20	0.6300
12	980	10.6	58.76	11.16	0.6954
13	937	9.15	58.11	11.39	0.6057
14	959	10.32	63.48	10.65	0.6976
15	988	10.73	52.28	11.13	0.6245
16	962	9.28	64.70	10.70	0.6422
17	947	10.78	62.54	11.13	0.7503
18	945	10.74	61.30	10.77	0.7088
19	952	10.87	59.38	10.68	0.6892
20	946	10.72	62.64	11.21	0.7525
21	975	10.66	57.76	10.82	0.6662
22	956	11.3	63.92	10.87	0.7853
23	949	11.13	58.00	11.31	0.7301
24	963	10.65	62.86	11.69	0.7828
25	970	8.78	52.10	11.21	0.5128
26	991	10.08	62.17	10.86	0.6804
27	944	8.93	56.84	11.08	0.5626
28	968	11.35	50.73	11.87	0.6833
29	902	8.6	62.31	11.25	0.6029
30	917	9.32	54.40	9.94	0.5042
31	927	10.83	59.03	10.66	0.6812
32	999	10.57	58.13	11.04	0.6786
33	958	11.67	55.17	11.09	0.7142
34	901	10.2	57.56	10.44	0.6130
35	997	10.77	54.11	11.22	0.6537

36	954	9.86	61.90	10.65	0.6498
37	915	10.68	51.52	11.67	0.6419
38	979	10.6	54.03	11.22	0.6424
39	930	11.24	57.63	10.69	0.6924
40	953	10.03	61.86	10.60	0.6580
41	966	10.99	62.57	10.55	0.7253
42	983	10.58	51.04	11.38	0.6147
43	982	10.69	52.72	11.08	0.6243
44	903	9.86	57.06	10.50	0.5906
45	998	10.46	52.24	12.65	0.6914
46	948	10.75	60.29	11.30	0.7321
47	942	9.84	61.32	10.60	0.6396
48	977	10.63	60.92	10.98	0.7111
49	921	10.79	54.58	11.98	0.7057
50	918	11.13	53.45	12.39	0.7368
51	904	10.53	57.44	12.67	0.7666
52	967	8.72	52.29	10.88	0.4962
53	993	10.62	54.94	11.54	0.6733
54	986	10.76	54.46	10.45	0.6122
55	920	10.77	57.97	11.21	0.7001
56	941	9.13	60.73	9.17	0.5085
57	957	10.95	55.87	10.83	0.6625
58	935	10.66	56.93	12.35	0.7494
59	931	11.33	55.56	11.00	0.6923
60	976	10.57	52.20	11.07	0.6109
61	994	10.77	55.89	11.65	0.7011
62	926	10.9	61.82	12.73	0.8578
63	907	10.38	61.21	12.24	0.7775
64	974	10.47	49.03	10.91	0.5601
65	922	11.39	53.90	11.34	0.6959
66	911	10.2	62.51	12.78	0.8150
67	934	10.71	54.06	10.99	0.6362
68	960	10.97	57.35	11.21	0.7054
69	973	11.25	49.56	11.56	0.6446
70	961	11	56.63	11.05	0.6886
71	929	10.16	54.59	10.97	0.6086
72	932	10.7	57.93	12.24	0.7586
73	985	10.66	55.66	10.98	0.6513
74	1000	10.43	57.50	11.17	0.6696
75	964	12.51	60.83	11.05	0.8407
76	971	10.43	54.24	10.40	0.5883
77	939	10.68	54.09	14.83	0.8565
78	916	10.53	59.32	11.08	0.6918
79	938	10.93	56.46	11.97	0.7389
80	990	10.59	57.77	11.30	0.6915
81	906	10.38	60.72	12.42	0.7827
82	978	10.58	52.97	11.50	0.6443
83	950	10.93	58.43	11.50	0.7345
84	951	9.95	61.69	10.65	0.6537
85	981	9.03	61.02	10.72	0.5906

86	965	10.58	60.44	10.80	0.6909
87	969	8.63	48.11	10.54	0.4375
88	996	10.5	56.79	12.15	0.7245
89	923	10.77	55.68	11.06	0.6634
90	987	10.52	54.12	12.49	0.7112
91	943	11.45	56.43	11.75	0.7591
92	905	9.69	58.09	11.19	0.6298
93	908	11.28	56.26	11.11	0.7050
94	910	10.7	55.23	11.17	0.6602
95	925	9.13	55.97	10.95	0.5597
96	940	10.28	59.41	11.48	0.7011
97	914	8.27	51.11	11.58	0.4896
98	924	9.19	48.51	12.14	0.5413
99	912	9.01	53.19	12.60	0.6037
100	909	9.96	56.02	11.92	0.6653

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 18/19

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1763	9.86	58.98	12.36	0.7188
2	1765	10.18	57.10	11.47	0.6668
3	1714	8.45	58.60	12.85	0.6363
4	1777	8.15	62.91	13.18	0.6756
5	1758	10.04	62.15	12.61	0.7871
6	1741	8.2	55.74	11.82	0.5404
7	1770	10.67	56.93	11.84	0.7192
8	1711	8.17	58.16	13.48	0.6405
9	1796	8.5	54.37	12.89	0.5958
10	1716	7.82	57.66	12.85	0.5795
11	1794	7.25	51.07	13.53	0.5010
12	1722	11.45	55.61	12.84	0.8175
13	1706	8.27	60.20	12.51	0.6227
14	1778	10.15	61.40	13.08	0.8150
15	1788	9.8	61.70	15.92	0.9624
16	1704	10	56.54	12.63	0.7140
17	1726	8.51	53.04	12.73	0.5744
18	1753	9.82	54.00	13.37	0.7090
19	1705	7.87	58.92	12.44	0.5769
20	1744	10.44	58.67	11.83	0.7245
21	1736	10.17	61.63	16.10	1.0089
22	1712	9.82	56.81	12.97	0.7237
23	1784	10.86	64.47	12.02	0.8417
24	1749	10.41	60.28	11.75	0.7370
25	1739	9.77	55.53	11.22	0.6087
26	1746	10.28	60.40	13.66	0.8481
27	1755	8.41	57.86	12.06	0.5870
28	1730	10.55	52.22	11.53	0.6351
29	1756	8.35	55.76	12.50	0.5820
30	1798	7.47	55.41	13.57	0.5617
31	1748	8.19	56.14	13.29	0.6110
32	1723	8.59	60.10	11.85	0.6116

33	1718	8.79	60.55	12.20	0.6496
34	1771	10.04	62.67	12.22	0.7691
35	1721	8.59	59.72	13.26	0.6803
36	1751	10.4	55.55	13.50	0.7800
37	1783	8.88	64.27	12.48	0.7122
38	1707	8.5	54.58	12.28	0.5695
39	1772	10.71	63.18	12.71	0.8600
40	1800	8.12	56.81	12.62	0.5822
41	1752	10.15	57.41	13.66	0.7958
42	1768	8.79	62.53	12.63	0.6944
43	1717	8.51	57.30	13.04	0.6357
44	1750	10.21	59.11	13.77	0.8311
45	1764	9.94	58.42	12.56	0.7296
46	1702	8.7	59.58	10.39	0.5385
47	1719	10.33	62.77	10.88	0.7055
48	1779	9.66	65.27	11.66	0.7351
49	1747	10.63	56.72	12.68	0.7643
50	1795	8.07	61.04	16.22	0.7989
51	1787	10.48	65.60	11.77	0.8091
52	1774	10.9	61.05	12.19	0.8110
53	1735	8.2	55.64	11.88	0.5420
54	1761	10.37	61.85	12.34	0.7912
55	1797	7.78	60.76	12.41	0.5866
56	1773	10.64	63.62	12.86	0.8704
57	1727	8.59	61.94	13.38	0.7121
58	1793	7.55	48.44	13.50	0.4938
59	1729	8.25	57.51	12.71	0.6031
60	1728	8.62	58.52	12.92	0.6517
61	1775	9.87	64.52	12.38	0.7886
62	1740	8.65	59.72	12.66	0.6539
63	1734	10.12	50.95	13.21	0.6811
64	1709	8.58	58.77	12.69	0.6401
65	1754	8.97	58.11	11.43	0.5956
66	1766	10.38	60.67	12.99	0.8179
67	1790	7.63	52.22	13.54	0.5394
68	1737	7.82	51.34	11.76	0.4723
69	1703	8.73	58.30	13.36	0.6801
70	1782	10.6	61.71	11.99	0.7844
71	1743	8.95	55.15	10.93	0.5397
72	1776	8.46	63.05	13.69	0.7301
73	1732	7.75	53.74	12.26	0.5107
74	1791	8.06	57.06	11.99	0.5513
75	1769	10.09	63.46	12.83	0.8213
76	1799	4.09	56.47	12.22	0.2822
77	1738	9.78	52.74	12.00	0.6191
78	1733	9.66	60.64	16.28	0.9534
79	1708	8.46	57.56	13.08	0.6370
80	1720	8.02	57.20	13.46	0.6175
81	1786	5.28	65.91	12.21	0.4250
82	1789	7.81	50.11	12.35	0.4834

83	1781	10.48	63.39	12.98	0.8625
84	1731	9.55	49.83	12.06	0.5740
85	1759	10.2	60.58	13.34	0.8242
86	1792	8.09	50.81	12.99	0.5339
87	1701	8.51	62.22	13.13	0.6953
88	1715	8.84	60.43	11.09	0.5923
89	1725	8.33	61.20	13.19	0.6722
90	1713	8.28	59.18	13.11	0.6425
91	1710	10.71	58.96	13.45	0.8493
92	1767	9.83	63.55	11.74	0.7333
93	1785	8.88	64.89	12.79	0.7370
94	1762	9.95	61.77	11.66	0.7164
95	1745	10.67	61.68	12.13	0.7981
96	1724	10.64	60.04	12.79	0.8172
97	1757	10.4	57.43	12.26	0.7322
98	1780	10.43	62.71	11.83	0.7739
99	1742	8.65	61.13	11.01	0.5821
100	1760	10.2	60.89	11.53	0.7160

Date: 29.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 44/149**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4304	4.09	50.47	12.32	0.2544
2	4351	8.26	55.64	12.15	0.5584
3	4317	7.57	51.30	13.02	0.5057
4	4399	7.93	55.83	13.65	0.6043
5	4352	4.09	67.56	13.84	0.3824
6	4310	8.22	48.89	12.19	0.4899
7	4318	9.38	48.76	11.67	0.5337
8	4361	8.19	61.35	12.84	0.6454
9	4321	8.3	58.68	12.49	0.6084
10	4378	7.71	54.51	11.63	0.4888
11	4373	7.7	65.31	13.92	0.6999
12	4369	7.48	52.48	13.30	0.5221
13	4371	7.72	61.45	13.10	0.6215
14	4356	8.23	58.94	13.49	0.6543
15	4320	9.81	57.64	11.12	0.6288
16	4349	8.47	52.56	12.67	0.5641
17	4319	8.22	54.18	12.81	0.5705
18	4381	7.21	55.46	12.96	0.5184
19	4396	7.62	58.56	12.88	0.5745
20	4325	8.23	58.36	12.25	0.5884
21	4323	4.77	50.43	12.61	0.3034
22	4347	8	54.89	12.52	0.5496
23	4383	7.74	62.49	13.17	0.6370
24	4329	7.72	56.47	10.41	0.4539
25	4311	9.7	54.83	10.80	0.5742
26	4398	7.8	58.61	13.82	0.6318
27	4359	7.97	60.65	13.52	0.6535
28	4302	8.02	57.25	12.66	0.5815
29	4324	8.09	56.94	10.75	0.4951
30	4392	7.75	52.12	13.18	0.5324
31	4368	8.08	55.44	12.21	0.5470
32	4315	8.51	59.25	12.17	0.6136
33	4308	9.58	55.97	12.88	0.6907
34	4355	4.81	59.87	12.14	0.3497
35	4339	8.28	55.06	12.13	0.5531
36	4397	9.39	60.42	13.69	0.7766
37	4334	8.15	60.14	12.14	0.5949
38	4344	8.31	57.51	12.19	0.5825
39	4336	8.59	60.44	12.19	0.6331
40	4322	7.46	49.86	12.39	0.4610
41	4309	3.98	66.60	14.82	0.3928
42	4391	8.97	41.01	13.02	0.4790
43	4338	3.8	52.80	13.35	0.2679
44	4342	8.8	55.94	12.53	0.6169

45	4327	7.79	56.56	12.50	0.5508
46	4384	7.45	57.47	11.99	0.5133
47	4316	9.53	56.59	12.07	0.6509
48	4313	4.74	55.73	11.86	0.3133
49	4365	9.93	64.69	12.54	0.8053
50	4380	7.48	58.77	13.48	0.5924
51	4386	4.96	55.74	13.40	0.3705
52	4393	7.56	56.03	13.99	0.5927
53	4394	3.79	58.51	13.86	0.3074
54	4326	8.16	55.00	12.69	0.5696
55	4335	8.33	64.47	11.66	0.6264
56	4372	3.63	64.12	11.00	0.2559
57	4364	8.25	58.20	13.42	0.6443
58	4333	8.07	52.99	11.45	0.4898
59	4337	8.38	57.64	12.80	0.6184
60	4306	4.01	59.59	13.95	0.3332
61	4330	8.27	54.31	12.56	0.5640
62	4312	8.45	52.07	12.00	0.5281
63	4375	8.74	59.15	14.12	0.7298
64	4343	8.41	57.11	12.50	0.6005
65	4346	7.44	54.38	12.73	0.5148
66	4376	6.94	59.75	12.38	0.5136
67	4362	10.1	59.32	12.22	0.7323
68	4370	7.8	60.74	12.74	0.6037
69	4360	7.71	59.79	13.38	0.6168
70	4332	9.45	51.93	12.69	0.6228
71	4390	4.09	55.44	13.96	0.3166
72	4363	7.79	59.97	11.41	0.5328
73	4389	7.17	58.82	13.43	0.5664
74	4377	7.56	56.24	13.32	0.5662
75	4358	10.47	60.70	13.64	0.8669
76	4367	4.03	62.90	13.56	0.3438
77	4307	4.3	65.19	10.60	0.2971
78	4374	3.67	69.52	13.75	0.3509
79	4331	8.45	52.72	13.54	0.6033
80	4388	7.7	57.76	12.31	0.5475
81	4348	8.4	55.94	9.40	0.4418
82	4305	4.08	56.58	14.23	0.3284
83	4357	7.86	59.56	12.91	0.6044
84	4395	9.65	54.74	13.24	0.6996
85	4379	7.44	58.64	12.65	0.5520
86	4303	8.09	50.69	14.03	0.5752
87	4314	8.73	54.29	12.06	0.5718
88	4350	8.3	55.61	13.56	0.6258
89	4340	8.41	53.11	12.62	0.5635
90	4345	7.83	54.36	12.40	0.5277
91	4382	4.48	55.96	13.78	0.3454
92	4385	4.28	61.13	12.99	0.3398
93	4366	8.44	65.40	11.93	0.6583
94	4328	9.59	56.68	10.96	0.5955

95	4353	8.24	59.55	13.18	0.6468
96	4301	8.19	53.50	12.02	0.5266
97	4400	9.49	57.02	14.00	0.7573
98	4354	8.16	59.69	12.18	0.5932
99	4341	7.73	57.48	12.54	0.5573
100	4387	6.89	59.98	12.55	0.5188

Date: 27.08.2022

अस्वीकरण:--

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 03/22**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	277	10.25	57.25	12.28	0.7206
2	212	8.69	59.20	11.45	0.5892
3	254	10.48	58.84	12.10	0.7462
4	210	10.54	61.13	11.29	0.7273
5	234	10.28	59.16	12.81	0.7792
6	279	8.3	61.60	12.40	0.6341
7	221	11.17	64.88	12.78	0.9260
8	281	10.44	59.40	12.74	0.7903
9	289	8.83	56.83	11.91	0.5978
10	233	10.35	60.12	12.44	0.7742
11	246	10.39	58.82	11.46	0.7003
12	295	8.58	60.33	13.23	0.6847
13	260	10.85	52.53	11.46	0.6532
14	286	8.28	53.26	11.58	0.5109
15	256	4.35	56.71	12.20	0.3010
16	273	10.21	54.49	12.00	0.6677
17	201	10.77	61.17	11.74	0.7733
18	215	10.61	62.77	10.71	0.7130
19	276	9.97	52.87	12.58	0.6630
20	240	10.52	63.25	12.54	0.8342
21	203	10.56	63.95	11.01	0.7434
22	297	8.83	61.99	12.84	0.7029
23	264	8.38	48.56	12.75	0.5187
24	271	8.68	55.24	13.45	0.6449
25	232	10.58	55.92	13.11	0.7755
26	244	10.35	58.22	12.14	0.7317
27	226	10.39	55.29	12.01	0.6899
28	214	10.76	59.09	10.90	0.6929
29	293	5.6	53.82	13.02	0.3926
30	213	10.69	63.31	11.58	0.7836
31	211	11.6	57.46	10.86	0.7238
32	274	10.63	56.70	12.19	0.7345
33	239	10.66	61.29	12.47	0.8144
34	202	11.03	60.97	11.30	0.7600
35	251	5.31	60.54	11.18	0.3595
36	217	10.57	59.25	10.73	0.6723
37	299	8.87	53.32	12.64	0.5978
38	283	10.97	59.82	12.97	0.8513
39	249	10.37	58.43	10.29	0.6232
40	235	11.1	61.79	11.44	0.7848
41	218	11.53	59.92	12.02	0.8302
42	300	8.87	53.70	11.96	0.5695
43	266	8.51	51.96	11.66	0.5157
44	219	11.16	63.71	13.11	0.9319

45	248	10.4	55.49	13.14	0.7582
46	225	10.32	56.35	10.20	0.5934
47	288	10.11	57.76	11.03	0.6440
48	253	10.02	59.81	10.82	0.6483
49	204	10.79	60.75	10.93	0.7165
50	284	10.56	56.93	12.47	0.7498
51	290	10.9	57.93	12.20	0.7706
52	262	9.37	55.30	12.26	0.6353
53	259	10.25	57.04	12.89	0.7534
54	243	8.62	61.45	11.88	0.6293
55	223	10.49	56.02	12.33	0.7249
56	224	10.49	55.18	12.65	0.7322
57	296	9.9	56.71	13.15	0.7385
58	298	10.67	58.53	12.01	0.7501
59	242	10.17	59.38	12.66	0.7648
60	220	11.81	58.46	12.42	0.8574
61	263	10.25	51.81	12.20	0.6478
62	261	8.57	53.45	11.49	0.5262
63	270	10.19	50.89	12.08	0.6267
64	209	11.22	57.97	10.87	0.7069
65	287	10.22	56.01	12.14	0.6950
66	245	10.21	55.26	13.57	0.7658
67	230	10.26	53.56	12.75	0.7008
68	280	8.43	58.82	10.74	0.5328
69	227	10.6	60.10	11.21	0.7144
70	255	9.72	59.27	13.36	0.7698
71	216	10.4	63.46	11.61	0.7665
72	272	10.26	49.82	12.44	0.6361
73	258	10.62	62.60	12.76	0.8485
74	268	9.93	55.01	12.67	0.6921
75	250	10.37	57.72	13.20	0.7902
76	247	10.28	57.92	13.19	0.7854
77	237	10.06	59.74	12.91	0.7756
78	205	11.14	60.19	11.41	0.7653
79	275	8.53	53.69	12.57	0.5758
80	278	8.45	57.54	13.31	0.6473
81	231	10.39	58.03	12.25	0.7387
82	267	10.05	52.73	11.40	0.6040
83	252	10.3	57.51	12.05	0.7138
84	238	10.62	62.08	11.34	0.7476
85	236	10.05	54.64	13.20	0.7246
86	285	10.69	61.49	12.59	0.8274
87	265	10.2	44.78	13.60	0.6212
88	228	9.5	55.97	12.60	0.6698
89	241	10.21	57.95	12.98	0.7678
90	207	10.81	60.66	11.18	0.7329
91	294	9.98	54.23	11.78	0.6377
92	291	8.69	62.30	11.33	0.6135
93	222	10.31	52.99	12.93	0.7062
94	292	10.64	55.49	12.36	0.7299

95	282	9.66	56.32	12.68	0.6897
96	229	10.31	57.83	12.88	0.7681
97	257	10.42	59.52	11.00	0.6825
98	269	8.58	54.71	12.59	0.5912
99	208	10.7	61.78	10.84	0.7169
100	206	10.92	60.31	12.00	0.7906

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 07/17

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	675	8.08	58.75	12.75	0.6052
2	667	7.71	58.65	11.95	0.5405
3	652	8	64.80	13.55	0.7024
4	664	7.52	54.60	12.80	0.5256
5	647	8.15	61.13	12.43	0.6194
6	672	8.22	58.78	13.90	0.6716
7	610	10.64	59.16	11.83	0.7448
8	651	8.16	62.87	12.02	0.6169
9	674	8.02	56.66	11.56	0.5253
10	612	10.79	56.74	11.37	0.6960
11	641	7.79	58.66	12.21	0.5578
12	676	8.11	61.01	13.96	0.6910
13	657	8.25	51.00	12.31	0.5181
14	632	7.87	59.84	13.12	0.6178
15	670	10	58.91	14.16	0.8340
16	621	11.29	58.61	10.78	0.7135
17	697	10.87	57.54	10.60	0.6631
18	658	7.98	52.12	13.32	0.5538
19	681	8.2	61.42	13.76	0.6929
20	698	8.53	52.99	13.17	0.5954
21	650	7.91	65.12	13.47	0.6937
22	613	10.45	59.85	12.36	0.7733
23	688	10.08	58.30	11.85	0.6965
24	685	4.79	59.22	13.69	0.3885
25	642	8.44	66.47	13.68	0.7672
26	696	10.72	55.52	11.83	0.7043
27	678	8.05	63.17	13.88	0.7060
28	636	9.81	58.52	14.58	0.8368
29	615	10.87	54.02	11.27	0.6620
30	659	8	55.79	12.89	0.5752
31	617	10.58	57.79	11.02	0.6739
32	634	7.9	61.64	11.36	0.5530
33	656	10.22	57.75	13.51	0.7972
34	620	9.55	61.66	11.50	0.6771
35	611	10.74	56.48	11.54	0.7002
36	684	7.99	57.94	12.81	0.5929
37	682	7.85	58.54	12.01	0.5519
38	643	7.99	62.71	12.84	0.6432
39	606	10.34	51.41	12.29	0.6535
40	663	8.04	58.37	12.56	0.5893
41	693	11.26	54.06	11.38	0.6925

42	694	10.46	55.58	11.57	0.6726
43	609	10.72	54.91	11.09	0.6528
44	649	7.81	59.76	12.94	0.6037
45	607	10.59	58.91	11.00	0.6862
46	679	8.23	61.95	13.37	0.6814
47	665	7.93	60.36	12.16	0.5821
48	692	10.94	54.13	10.81	0.6400
49	691	10.42	53.80	12.04	0.6752
50	601	10.36	60.29	11.26	0.7034
51	644	9.18	55.03	13.30	0.6720
52	628	8.12	58.02	14.31	0.6740
53	700	11.24	52.32	12.14	0.7137
54	604	10.64	57.06	11.58	0.7033
55	614	10.83	59.43	10.31	0.6639
56	623	7.84	56.83	12.95	0.5770
57	666	9.36	59.07	13.14	0.7263
58	689	7.91	60.12	12.71	0.6043
59	625	9.25	55.28	13.42	0.6863
60	653	8.07	59.07	12.05	0.5746
61	686	8.6	63.80	13.51	0.7413
62	602	10.75	61.00	10.56	0.6923
63	646	7.79	52.14	13.06	0.5305
64	635	7.96	56.72	12.83	0.5795
65	640	8.47	62.27	12.41	0.6547
66	645	8.42	64.48	12.98	0.7048
67	695	10.94	55.98	10.47	0.6411
68	639	9.51	59.31	13.98	0.7884
69	690	7.9	63.53	12.77	0.6407
70	622	8.04	54.65	12.17	0.5347
71	637	8.11	57.84	13.30	0.6237
72	687	10.04	56.48	12.78	0.7249
73	633	7.91	57.81	13.28	0.6075
74	631	8.44	59.06	12.17	0.6068
75	608	10.68	55.43	11.46	0.6782
76	699	10.99	53.92	11.50	0.6814
77	668	9.48	57.31	14.03	0.7622
78	677	7.86	62.10	12.25	0.5981
79	683	7.99	58.43	12.96	0.6048
80	680	7.83	56.40	13.53	0.5974
81	629	8.01	59.72	12.71	0.6080
82	616	10.44	57.66	12.04	0.7245
83	655	7.93	65.06	14.31	0.7383
84	671	8.04	59.47	13.54	0.6472
85	661	9.39	62.94	14.01	0.8282
86	662	8.01	57.88	13.18	0.6112
87	626	8.26	59.46	15.25	0.7492
88	638	7.61	60.90	13.37	0.6195
89	624	8.3	61.92	13.52	0.6947
90	654	8.17	66.64	12.73	0.6928
91	618	10.96	56.17	11.70	0.7201

92	603	10.56	57.84	10.94	0.6684
93	619	10.9	60.87	11.32	0.7510
94	627	7.96	61.14	11.92	0.5803
95	648	9.99	54.58	12.99	0.7083
96	660	7.82	56.56	12.89	0.5701
97	673	7.83	64.23	14.85	0.7470
98	605	10.45	54.68	12.42	0.7096
99	630	8.34	62.62	12.76	0.6664
100	669	8.18	64.24	14.48	0.7607

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 04/23

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	319	11.09	52.06	11.28	0.6510
2	340	10.64	61.01	11.74	0.7618
3	384	9.95	60.17	12.32	0.7373
4	378	10.22	61.39	12.61	0.7910
5	352	10.51	62.11	11.93	0.7788
6	339	10.14	54.34	11.06	0.6094
7	322	10.4	58.57	12.26	0.7467
8	305	7.46	54.52	13.52	0.5498
9	397	10.72	53.37	11.58	0.6625
10	390	7.65	56.16	12.50	0.5370
11	351	10.61	64.70	12.98	0.8912
12	362	10.8	62.57	11.51	0.7776
13	335	8.91	53.22	12.23	0.5800
14	348	11.12	59.08	11.92	0.7828
15	345	10.71	58.86	12.52	0.7893
16	386	10.1	65.30	11.53	0.7605
17	328	10.72	57.91	11.24	0.6979
18	388	9.98	65.65	11.45	0.7505
19	398	11.86	54.89	11.30	0.7353
20	307	8.57	54.15	12.91	0.5990
21	310	8.2	52.35	13.68	0.5871
22	359	11.39	61.07	10.41	0.7244
23	394	10.07	54.82	12.66	0.6989
24	355	10.93	64.08	12.31	0.8624
25	400	10.71	53.91	11.70	0.6758
26	370	10.08	58.34	12.03	0.7076
27	343	11.55	58.95	11.26	0.7669
28	381	10.12	63.11	10.57	0.6750
29	379	5.37	62.62	13.22	0.4446
30	323	10.72	52.05	11.68	0.6518
31	383	9.76	64.52	13.14	0.8276
32	367	12.1	55.10	11.31	0.7538
33	395	8.99	53.07	9.85	0.4702
34	324	10.78	51.99	12.10	0.6781
35	361	11.68	58.03	11.13	0.7545
36	366	10.99	61.53	11.56	0.7814
37	399	11.8	58.36	11.27	0.7764
38	371	9.5	60.70	12.29	0.7087

39	369	10.1	56.27	12.10	0.6878
40	357	10.95	60.05	11.04	0.7260
41	337	8.61	50.93	12.37	0.5424
42	375	10.08	57.08	13.45	0.7741
43	334	10.68	55.59	10.63	0.6312
44	315	7.96	49.05	13.03	0.5086
45	353	10.48	60.14	12.04	0.7588
46	313	8.24	61.38	11.16	0.5644
47	301	8.21	42.50	12.12	0.4228
48	364	11.1	59.50	11.93	0.7881
49	365	10.72	58.17	11.05	0.6893
50	389	4.3	61.89	12.93	0.3440
51	374	10.19	63.90	13.22	0.8611
52	318	8.43	49.34	12.42	0.5168
53	312	10.04	60.78	13.13	0.8012
54	336	8.08	52.62	12.68	0.5389
55	304	9.56	51.89	12.83	0.6367
56	326	11.4	56.41	11.52	0.7410
57	325	10.55	53.94	10.70	0.6087
58	331	10.99	60.46	10.50	0.6979
59	311	9.3	53.74	13.12	0.6557
60	308	8.12	55.81	13.51	0.6122
61	346	10.64	57.32	12.21	0.7448
62	350	10.68	60.78	11.35	0.7369
63	329	11.06	54.68	11.58	0.7001
64	320	9.02	59.57	7.65	0.4113
65	385	9.5	56.94	13.47	0.7286
66	338	9.65	56.15	10.93	0.5925
67	341	11.07	54.00	11.39	0.6808
68	332	10.83	57.38	11.75	0.7299
69	393	9.73	57.78	12.98	0.7297
70	303	8.9	53.18	11.06	0.5233
71	314	8.24	56.35	13.68	0.6353
72	380	10.09	60.66	12.15	0.7436
73	302	7.89	53.88	13.46	0.5720
74	321	11.42	57.39	11.67	0.7651
75	306	8.01	55.02	12.40	0.5463
76	356	12.13	57.70	10.85	0.7593
77	392	8.34	52.60	12.64	0.5546
78	368	10.17	59.26	13.23	0.7973
79	317	10.01	60.16	14.46	0.8709
80	358	10.35	59.68	11.85	0.7317
81	333	10.8	62.39	11.56	0.7787
82	354	11.01	59.56	11.82	0.7751
83	342	10.8	59.25	11.05	0.7074
84	396	11.17	58.12	11.46	0.7439
85	373	10.35	61.15	12.04	0.7618
86	349	11.12	60.47	11.54	0.7762
87	382	10.82	64.04	12.55	0.8699
88	309	8.27	52.18	12.27	0.5293

89	327	10.76	58.92	11.83	0.7500
90	347	11.34	63.73	11.28	0.8153
91	376	10.33	56.55	12.11	0.7076
92	330	10.73	57.84	11.91	0.7393
93	372	10.09	62.26	12.77	0.8022
94	360	11.05	58.38	11.96	0.7713
95	391	8.56	48.05	12.53	0.5153
96	387	5.28	61.16	12.98	0.4192
97	344	10.78	59.45	11.07	0.7093
98	316	7.88	58.57	14.44	0.6666
99	377	10.11	61.43	11.17	0.6935
100	363	10.7	58.73	11.03	0.6934

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 02/21

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	134	10.52	56.58	12.21	0.7269
2	120	10.23	52.47	13.59	0.7294
3	192	11.16	55.92	11.09	0.6919
4	168	10.99	65.34	10.94	0.7858
5	126	10.6	55.45	11.51	0.6763
6	111	10.29	52.56	12.90	0.6977
7	124	10.48	59.68	11.21	0.7011
8	148	11	59.21	11.62	0.7568
9	119	10.23	55.48	12.67	0.7192
10	136	10.15	52.50	11.75	0.6263
11	180	11.01	62.11	11.83	0.8092
12	166	11.75	57.68	10.92	0.7402
13	133	10.66	59.66	11.28	0.7174
14	146	8.91	54.75	11.74	0.5729
15	118	8.91	55.95	11.28	0.5622
16	105	7.45	51.38	14.40	0.5513
17	156	10.53	56.02	11.35	0.6697
18	164	10.61	59.92	11.10	0.7056
19	170	10.87	57.26	10.48	0.6522
20	173	10.23	53.41	11.68	0.6384
21	159	10.44	64.32	11.92	0.8007
22	196	10.34	59.28	11.91	0.7300
23	186	10.41	57.31	11.17	0.6662
24	123	10.33	50.92	10.53	0.5537
25	194	10.67	58.16	11.76	0.7298
26	131	10.36	56.62	11.85	0.6952
27	137	8.74	58.11	10.91	0.5541
28	181	10.96	58.13	11.59	0.7387
29	122	9.69	55.43	13.04	0.7006
30	200	10.96	60.24	11.32	0.7475
31	179	10.49	62.67	11.49	0.7553
32	142	10.59	61.39	12.05	0.7837
33	132	10.61	56.50	11.81	0.7077
34	121	10.79	57.17	11.32	0.6981
35	108	4.02	61.76	14.38	0.3570

36	160	12.1	52.62	11.38	0.7248
37	185	10.31	57.73	12.23	0.7279
38	143	10.56	60.67	11.90	0.7624
39	117	10.72	55.04	11.63	0.6861
40	106	10.17	56.47	12.15	0.6977
41	149	10.49	58.06	11.16	0.6798
42	197	10.58	64.88	12.48	0.8570
43	128	8.31	55.77	12.26	0.5684
44	158	10.61	56.55	10.95	0.6568
45	155	10.37	57.34	11.70	0.6958
46	199	10.82	61.62	12.22	0.8147
47	152	10.36	57.05	10.20	0.6030
48	176	10.59	58.96	10.92	0.6820
49	112	10.2	51.75	13.26	0.6997
50	177	11.4	57.58	11.36	0.7456
51	183	10.89	58.96	12.69	0.8146
52	109	7.53	65.10	13.49	0.6611
53	130	10.57	56.31	11.33	0.6744
54	182	10.94	58.32	11.52	0.7352
55	153	10.19	56.52	12.12	0.6980
56	193	11.09	57.13	10.97	0.6953
57	104	8.46	61.63	12.02	0.6269
58	127	10.32	52.75	11.45	0.6233
59	101	11.38	56.49	13.03	0.8376
60	110	8.46	45.33	12.29	0.4712
61	103	9.93	52.43	12.93	0.6733
62	161	8.8	56.54	11.09	0.5518
63	188	11.23	53.24	10.59	0.6334
64	147	11.09	55.36	11.67	0.7164
65	162	10.29	59.51	11.86	0.7265
66	195	10.51	57.30	10.52	0.6338
67	189	10.62	62.87	12.79	0.8538
68	178	10.13	54.70	11.81	0.6544
69	144	11.19	61.15	11.95	0.8180
70	165	11.24	59.73	11.92	0.8003
71	114	11.11	52.15	12.67	0.7344
72	169	11.01	60.92	8.78	0.5890
73	172	10.68	47.98	12.80	0.6558
74	175	10.17	60.68	11.07	0.6834
75	116	10.53	59.83	12.20	0.7687
76	163	11.05	56.25	11.52	0.7160
77	141	10.14	60.21	11.68	0.7128
78	174	10.89	55.12	12.21	0.7329
79	154	10.53	59.21	11.10	0.6918
80	115	10.68	56.51	13.63	0.8224
81	129	10.87	53.26	11.51	0.6663
82	191	10.4	58.88	11.33	0.6937
83	145	10.57	55.03	12.07	0.7018
84	184	11.13	59.41	11.56	0.7646
85	102	8.76	61.59	11.97	0.6456

86	198	10.63	62.45	11.24	0.7462
87	190	10.03	56.32	11.15	0.6299
88	167	2.14	60.20	10.93	0.1408
89	135	10.64	60.03	11.61	0.7416
90	107	9.27	63.42	13.26	0.7796
91	151	10.3	54.69	11.10	0.6252
92	171	11.13	60.98	13.02	0.8837
93	157	11.09	57.30	12.02	0.7641
94	139	9.91	53.37	11.19	0.5916
95	187	10.56	56.90	11.35	0.6822
96	140	11.15	60.31	11.28	0.7582
97	150	10.82	55.42	10.66	0.6395
98	125	11.07	47.22	12.47	0.6520
99	113	10.57	53.79	12.40	0.7050
100	138	10.85	59.35	12.00	0.7725

Date: 24.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 09/26**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	801	10.73	57.48	12.7	0.7833
2	802	9.92	48.55	13.04	0.6279
3	803	8.45	56.49	12.36	0.5898
4	804	10.38	53.73	13.1	0.7308
5	805	10.37	60.07	12.52	0.7798
6	806	10.22	59.96	11.87	0.7277
7	807	9.83	57.54	13.3	0.752
8	808	9.68	59.69	12.21	0.7057
9	809	10.01	59.23	12.61	0.7477
10	810	10.22	61.29	12.68	0.7941
11	811	8.68	60.23	12.8	0.6692
12	812	10.54	59.07	12.44	0.7747
13	813	8.47	64.34	12.43	0.6776
14	814	10.38	57.24	12.3	0.7308
15	815	10.79	65.89	13.31	0.9463
16	816	8.24	62.73	13.14	0.679
17	817	10.6	65.72	12.8	0.8915
18	818	8.47	60.76	13.02	0.67
19	819	9.92	65.42	13.96	0.9057
20	820	10.78	60.58	10.8	0.705
21	821	4.65	61.02	10.52	0.2985
22	822	7.92	51.86	13.44	0.552
23	823	7.92	44.74	13.16	0.4665
24	824	7.38	48.82	13.76	0.4959
25	825	9.42	51.97	13.49	0.6603
26	826	8.03	53.16	13.02	0.5557
27	827	9.73	54.52	13.7	0.7268
28	828	8.27	53.81	13.7	0.6095
29	829	7.79	55.78	12.87	0.5593
30	830	8.08	51.39	13.7	0.5688
31	831	9.83	58.78	11.72	0.6773
32	832	9.79	55.45	13.94	0.7568
33	833	10.02	58.4	13.46	0.7876
34	834	8.22	49.08	13.81	0.5573
35	835	10	52.51	13.39	0.703
36	836	8.13	57.89	12.78	0.6016
37	837	7.88	52.11	13.55	0.5563
38	838	9.8	55.84	12.5	0.684
39	839	9.88	54.49	12.85	0.6916
40	840	9.64	54.2	12.53	0.6546
41	841	8	60.32	12.09	0.5832
42	842	10.33	60.25	12.05	0.75
43	843	9.04	58.25	12.29	0.6473
44	844	8	57.87	12.06	0.5584

45	845	7.95	58.83	13.67	0.6392
46	846	8.15	59.9	12.84	0.6267
47	847	7.81	58.7	12.83	0.5881
48	848	9.72	56.05	12.77	0.696
49	849	9.69	57.83	13.7	0.7674
50	850	7.97	62.53	12.2	0.6081
51	851	9.44	62.19	12.75	0.7486
52	852	8.03	52.36	12.43	0.5228
53	853	8.17	52.96	13.58	0.5874
54	854	8.14	57.4	12.3	0.5747
55	855	8.21	61.49	12.86	0.6494
56	856	8.01	55.56	12.99	0.5783
57	857	8.15	56.82	12.65	0.586
58	858	7.86	57.55	13.45	0.6084
59	859	9.42	62.42	14.98	0.8808
60	860	8.48	58.26	12.99	0.6419
61	861	8.04	64.93	11.6	0.6054
62	862	7.86	63.88	12.66	0.6359
63	863	7.54	49.59	12.68	0.4743
64	864	10.18	55.03	11.99	0.6719
65	865	10.29	56.81	11.85	0.6925
66	866	10.4	54.61	11.3	0.6417
67	867	7.37	51.52	12.87	0.4886
68	868	8.25	54.99	11.89	0.5396
69	869	10.34	55.32	12.58	0.7197
70	870	10.54	63.37	11.27	0.7526
71	871	10.47	57.34	13.53	0.8125
72	872	9.38	56.43	12.35	0.6538
73	873	10.37	61.27	11.26	0.7155
74	874	10.57	55.33	11.66	0.6818
75	875	10.46	57.54	12.98	0.7814
76	876	10.97	59.09	11.46	0.7427
77	877	10.22	56.38	11.71	0.6745
78	878	10.26	56.83	12.41	0.7233
79	879	9.72	58.11	11.86	0.6697
80	880	9.66	56.92	11.4	0.6269
81	881	10.18	56.77	12.19	0.7045
82	882	10.38	55.8	12.94	0.7494
83	883	10.33	59.29	12.3	0.7531
84	884	10.89	57.08	10.56	0.6567
85	885	6.94	56.3	11.51	0.4497
86	886	10.38	54.75	12.15	0.6903
87	887	10.84	54.17	12.79	0.7512
88	888	10.69	61.94	11.91	0.7889
89	889	10.41	54.93	11.21	0.6413
90	890	10.62	58.2	11.8	0.7296
91	891	10.41	55.29	11.9	0.685
92	892	10.04	58.61	12.35	0.7269
93	893	10.81	60.47	11	0.7189
94	894	10.36	57.36	11.24	0.6682

95	895	8.85	60.77	9.87	0.531
96	896	10.55	54.18	10.76	0.6151
97	897	9.77	64.02	11.65	0.7288
98	898	10.07	59.11	11.39	0.6777
99	899	10.74	60.47	12.29	0.798
100	900	10.12	55.17	13.3	0.7428

Name of Division : Chittorgadh-II			Challan No. : 15/30		
--	--	--	----------------------------	--	--

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1401	10.18	57.55	14.3	0.8378
2	1402	10.22	50.11	14.19	0.7266
3	1403	11.32	51.86	12.71	0.746
4	1404	10.38	46	14.5	0.6923
5	1405	10.44	50.88	13.13	0.6974
6	1406	10.1	50.96	13.81	0.711
7	1407	11.03	53.28	12.26	0.7203
8	1408	10.61	58.87	13.1	0.818
9	1409	10.58	54.74	13.43	0.7776
10	1410	10.46	50.29	13.46	0.7081
11	1411	10.78	57.32	13.12	0.8107
12	1412	10.97	61.2	12.29	0.8249
13	1413	10.89	58.29	12.47	0.7917
14	1414	10.49	52.62	12.68	0.6997
15	1415	10.85	58.91	14.99	0.9581
16	1416	11.09	52.92	12.06	0.7075
17	1417	10.45	53.28	13.1	0.7294
18	1418	10.58	57.66	13.51	0.8242
19	1419	10.96	47.31	12.49	0.6477
20	1420	10.72	56.76	14.06	0.8555
21	1421	10.23	44.64	14.65	0.669
22	1422	10.12	57.41	13.73	0.7975
23	1423	10.55	56.07	13.04	0.7712
24	1424	10.66	57.13	13.76	0.8379
25	1425	11.32	48.67	14.26	0.7856
26	1426	10.83	61.43	13.53	0.9
27	1427	10.42	51.42	12.95	0.694
28	1428	8.88	55.32	13.03	0.6402
29	1429	11.12	56.18	13.49	0.8429
30	1430	8.84	50.84	13.61	0.6117
31	1431	8.43	51.13	10.66	0.4594
32	1432	8.37	53.23	10.24	0.4562
33	1433	9.18	50.36	11.72	0.5416
34	1434	9.24	52.67	12.06	0.5867
35	1435	8.59	56.96	12.13	0.5936
36	1436	8.53	61.85	11.87	0.6261
37	1437	8.83	51.62	12.96	0.5907
38	1438	9.55	59.08	12.61	0.7115
39	1439	10.67	58.71	11	0.6893
40	1440	8.91	60.02	11.01	0.589
41	1441	8.71	55.97	11.18	0.5452

42	1442	9.26	53.24	12.49	0.6158
43	1443	10.66	62.24	10.78	0.7153
44	1444	8.6	56.95	11.94	0.5848
45	1445	8.7	57.9	12.54	0.6316
46	1446	10.63	57.68	12.08	0.7409
47	1447	10.28	63.46	11.68	0.7617
48	1448	8.25	54.3	12.14	0.5437
49	1449	11.2	57.87	11.46	0.7426
50	1450	10.57	60.06	12.87	0.8171
51	1451	11.2	54.19	11.44	0.6944
52	1452	11.12	57.08	11.93	0.7573
53	1453	10.86	58.7	12.61	0.8036
54	1454	10.24	59.32	13.74	0.8346
55	1455	11.2	60.4	12.9	0.8725
56	1456	10.91	57.81	12.44	0.7844
57	1457	10.43	62.28	13.05	0.848
58	1458	11.46	59.95	13.36	0.9179
59	1459	10.99	61.39	12.77	0.8616
60	1460	9.67	55.6	13.35	0.7175
61	1461	10.49	58.09	11.98	0.7301
62	1462	10.45	58.67	13.02	0.7984
63	1463	10.96	57.68	12.31	0.7782
64	1464	10.65	60.06	11.79	0.754
65	1465	11.28	55.32	12.24	0.7637
66	1466	11.08	59.92	12.82	0.8509
67	1467	11.1	57.37	10.91	0.6949
68	1468	8.36	57.21	12.03	0.5752
69	1469	11.35	63.71	11.83	0.8558
70	1470	11.07	61.69	11.85	0.8092
71	1471	10.28	57.87	11.92	0.7093
72	1472	10.04	59.23	11.33	0.6737
73	1473	11.13	58.25	13.92	0.9026
74	1474	11.19	60.4	12.22	0.8258
75	1475	10.97	61.05	11.66	0.7811
76	1476	10.57	61.13	13.4	0.8657
77	1477	10.69	60.04	11.89	0.7633
78	1478	10.9	59.45	11.57	0.7499
79	1479	10.51	61.79	12.14	0.7883
80	1480	8.2	60.51	12.2	0.6052
81	1481	10.5	61.19	12.32	0.7917
82	1482	8.99	62.15	11.05	0.6176
83	1483	8.38	60.71	12.85	0.6536
84	1484	9.17	65.13	11.62	0.6942
85	1485	8.79	62.62	12.23	0.6733
86	1486	10.76	57.89	11.92	0.7424
87	1487	10.93	59.68	11.11	0.7247
88	1488	11.34	62.04	11.93	0.8392
89	1489	10.54	55.69	11.44	0.6714
90	1490	10.57	59.93	12.48	0.7906
91	1491	10.78	63.57	12.05	0.8257

92	1492	8.96	61.65	12.34	0.6819
93	1493	11.16	66.67	10.6	0.789
94	1494	10.84	64.91	10.18	0.7165
95	1495	10.98	66.27	10.05	0.7313
96	1496	10.94	71.43	11.79	0.9211
97	1497	8.31	48.76	12.94	0.5244
98	1498	7.57	63.44	14.66	0.704
99	1499	4.76	46.71	12.48	0.2775
100	1500	8.42	51.55	12.88	0.5591

Date: 20.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 41/146**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4001	7.92	50.5	13.88	0.5552
2	4002	7.16	52.18	12.5	0.4668
3	4003	7.77	49.72	14.1	0.5447
4	4004	11.03	53.39	12.46	0.7335
5	4005	11.37	55.56	13.77	0.8698
6	4006	10.82	54.76	11.8	0.699
7	4007	11.27	54.79	13.78	0.8509
8	4008	10.58	59.85	12.5	0.7914
9	4009	8.03	55.77	13.63	0.6103
10	4010	8.51	55.76	13.43	0.6374
11	4011	10.75	54.67	14.23	0.8363
12	4012	10.04	54.15	14.81	0.8052
13	4013	8.67	50.71	13.63	0.5991
14	4014	10.63	59.18	14.53	0.9142
15	4015	8.86	56.19	11.34	0.5644
16	4016	11.24	53.15	13.11	0.7834
17	4017	10.74	56.52	13.39	0.813
18	4018	9.08	58	12.66	0.6665
19	4019	10.78	64.34	13.82	0.9583
20	4020	10.75	62.5	14.29	0.96
21	4021	11.03	58.24	13.58	0.8725
22	4022	8.63	60.79	13.88	0.7284
23	4023	8.26	61.17	13.05	0.6591
24	4024	11.06	55.11	13.65	0.8317
25	4025	8	53.82	13.53	0.5824
26	4026	8.1	59.69	13.69	0.6618
27	4027	7.8	59.13	14.27	0.6583
28	4028	7.57	61.3	12.77	0.5927
29	4029	8.16	60.58	13.01	0.643
30	4030	7.61	60.19	12.89	0.5905
31	4031	8.04	62.19	13.2	0.6601
32	4032	8.56	60.73	13.65	0.7096
33	4033	8.45	63.09	14.65	0.7808
34	4034	8.28	61.84	13.92	0.7129
35	4035	8.12	63.24	14.2	0.7292
36	4036	8.07	62.52	14.62	0.7376
37	4037	8.14	60.43	15.49	0.7619
38	4038	7.64	64.24	14.32	0.7029
39	4039	7.97	68.2	16.61	0.903
40	4040	8.02	66.2	10.5	0.5574
41	4041	9.82	61.28	14.05	0.8455
42	4042	8.02	62.52	13.79	0.6913
43	4043	8.02	62.71	14.86	0.7475
44	4044	7.57	61.46	14.06	0.654

45	4045	8.22	65.45	15.16	0.8154
46	4046	7.98	66.56	14.08	0.7477
47	4047	7.71	64.32	13.96	0.6924
48	4048	8.18	66.93	15.43	0.845
49	4049	7.71	71.03	16.08	0.8805
50	4050	7.7	70.96	14.54	0.7946
51	4051	8.46	46.23	12.91	0.5051
52	4052	8.39	48.12	12.64	0.5101
53	4053	8.37	45.3	11.9	0.4511
54	4054	8.17	54.73	13.12	0.5866
55	4055	8.4	58.13	11.97	0.5846
56	4056	9.7	50.54	13.06	0.6402
57	4057	8.1	49.27	13.33	0.5322
58	4058	8.38	55.7	13.36	0.6235
59	4059	8.36	55.18	13.18	0.6078
60	4060	8.47	55.88	12.97	0.6141
61	4061	8.1	61.47	12.67	0.631
62	4062	4.79	44.22	13.52	0.2864
63	4063	7.73	49.61	14.53	0.5573
64	4064	7.75	49.57	12.35	0.4743
65	4065	7.09	49.98	14.25	0.5048
66	4066	8.05	55.37	13.64	0.6078
67	4067	7.74	52.49	13.62	0.5534
68	4068	8.01	55.26	13.5	0.5975
69	4069	7.72	57.42	13.86	0.6145
70	4070	8.2	56.98	13.34	0.6232
71	4071	8.05	57	13.23	0.607
72	4072	7.84	55.23	13.63	0.5904
73	4073	7.9	54.61	14.3	0.617
74	4074	7.73	50.7	13.53	0.5303
75	4075	10.15	56.02	12.69	0.7217
76	4076	7.91	58.27	13.47	0.6209
77	4077	7.86	54.8	13.83	0.5958
78	4078	4.75	55.26	11.51	0.3021
79	4079	8.15	59.19	12.89	0.6218
80	4080	7.89	54.86	12.91	0.5586
81	4081	8.01	55.68	14.06	0.6272
82	4082	4.24	52.96	14.73	0.3307
83	4083	7.87	57.15	12.74	0.5729
84	4084	8.18	54.75	13.1	0.5865
85	4085	7.52	54.28	14.04	0.573
86	4086	9.19	52.96	13.44	0.6543
87	4087	8.02	58.56	13.73	0.6448
88	4088	9.89	56.3	13.57	0.7556
89	4089	8.06	62.02	13.32	0.6658
90	4090	8.35	59.01	12.44	0.6129
91	4091	7.84	56.76	14.52	0.646
92	4092	7.62	58.39	14.95	0.6652
93	4093	7.48	42.24	12.93	0.4084
94	4094	8.22	49.39	14.36	0.5828

95	4095	8	50.5	14.5	0.5856
96	4096	1.86	48.36	12.97	0.1166
97	4097	7.95	46.31	13.15	0.4842
98	4098	8.16	58.66	13.52	0.6471
99	4099	3.99	47.97	14.4	0.2757
100	4100	9.53	49.46	15.24	0.7186

Date: 16.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Chittorgadh-II****Challan No. : 14/18**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1301	11.14	57.22	11.52	0.7341
2	1302	11.83	57.6	11.48	0.782
3	1303	10.9	56.93	11.66	0.7238
4	1304	11.41	59.82	11.08	0.7565
5	1305	10.61	63.59	12.28	0.8286
6	1306	10.44	59.78	12.6	0.7861
7	1307	12.47	59.08	11.7	0.8617
8	1308	11.15	54.05	12.41	0.7482
9	1309	10.46	59.35	11.02	0.6841
10	1310	10.72	61.3	13.23	0.8694
11	1311	11.22	65.18	12.38	0.9055
12	1312	10.9	62.7	11.07	0.7565
13	1313	10.88	59.18	11.96	0.7703
14	1314	10.61	64.11	12.9	0.8774
15	1315	11.03	63.28	11.73	0.8184
16	1316	11.13	63.92	11.25	0.8002
17	1317	10.74	62.8	10.99	0.7411
18	1318	11.58	57.21	11.69	0.7747
19	1319	10.97	61.59	11.9	0.8041
20	1320	11.1	59.58	12.05	0.797
21	1321	8.71	62.14	11.86	0.6419
22	1322	11	57.36	12.66	0.7986
23	1323	10.62	62.55	13.41	0.891
24	1324	5.5	58.07	11.61	0.3707
25	1325	10.93	61.03	10.77	0.7181
26	1326	11.05	62.67	12.94	0.8962
27	1327	10.75	56.2	13.35	0.8063
28	1328	11.19	58.24	11.49	0.7486
29	1329	10.76	61.65	11.16	0.7403
30	1330	10.84	63.56	12.65	0.8715
31	1331	10.69	66.28	11.87	0.8413
32	1332	10.63	63.45	11.55	0.7792
33	1333	11.29	64.62	11.39	0.8309
34	1334	10.69	64.63	13.14	0.9076
35	1335	10.38	60.03	12.33	0.7681
36	1336	10.72	65.41	12.12	0.8501
37	1337	10.96	64.6	11.3	0.8001
38	1338	11.03	65.17	11.23	0.8074
39	1339	10.07	53.72	8.23	0.4451
40	1340	10.48	53.56	11.76	0.6602
41	1341	11.72	59.02	10.98	0.7595
42	1342	9.91	59.72	11.1	0.657
43	1343	10.59	55.94	13.07	0.7741
44	1344	9.21	58.32	10.85	0.583

45	1345	10.38	63.43	9.77	0.6436
46	1346	11.68	57.11	11.61	0.7744
47	1347	10.7	53.94	13.13	0.7576
48	1348	10.55	59.61	10.7	0.6731
49	1349	10.85	59.38	11.1	0.715
50	1350	10.67	59.13	11.74	0.7405
51	1351	10.2	62.01	11.03	0.6977
52	1352	10.61	56.37	12.61	0.7544
53	1353	7.4	55.13	11.52	0.4699
54	1354	10.75	57.72	12.2	0.7568
55	1355	11	57.96	13.41	0.8547
56	1356	10.62	58.29	11.29	0.6988
57	1357	11.29	62.28	12.22	0.8592
58	1358	8.58	59.94	11.83	0.6083
59	1359	10.59	60.98	13.3	0.8588
60	1360	10.74	59.78	11.58	0.7432
61	1361	10.52	60.36	11.8	0.749
62	1362	8.3	58.81	11.9	0.581
63	1363	10.71	58.93	10.71	0.6758
64	1364	11.5	62.36	10.87	0.7797
65	1365	10.39	58.86	13.27	0.8115
66	1366	9.25	63.4	12.49	0.7326
67	1367	11.01	62.88	11.07	0.7663
68	1368	10.51	65.75	12.2	0.8429
69	1369	11.05	58.04	10.25	0.6575
70	1370	10.92	58.8	11.72	0.7524
71	1371	11.49	65.15	10.24	0.7664
72	1372	10.96	59.88	12.61	0.8275
73	1373	11	62.89	11.64	0.8052
74	1374	11.03	60.13	11.87	0.7875
75	1375	10.96	59.45	12.45	0.811
76	1376	10.78	64.8	12.24	0.8549
77	1377	11.22	60.32	10.78	0.7293
78	1378	10.41	55.18	10.84	0.6225
79	1379	10.18	64.36	11.67	0.7645
80	1380	10.78	62.54	11.82	0.7966
81	1381	10.66	61.96	12.78	0.8443
82	1382	9.45	59.44	12.3	0.6908
83	1383	10.64	63.13	11.56	0.7767
84	1384	10.56	61.17	11.92	0.7698
85	1385	9.16	66.35	12.01	0.7301
86	1386	8.5	60.15	12.47	0.6375
87	1387	10.18	62.12	13.55	0.8572
88	1388	11.09	64.76	11.57	0.8306
89	1389	10.07	63.96	12.95	0.8338
90	1390	10.61	61.72	13.04	0.8541
91	1391	9.05	51.74	11.71	0.5484
92	1392	8.47	53.64	13.2	0.5997
93	1393	9.13	45.28	12.83	0.5305
94	1394	10.02	55.07	13.4	0.7395

95	1395	9.95	51.35	13.52	0.6905
96	1396	10.53	55.05	13.37	0.775
97	1397	10.99	60.34	13.41	0.8891
98	1398	11.3	53.83	13.39	0.8147
99	1399	10.81	49.37	14.2	0.7578
100	1400	10.74	55.9	13.02	0.7819
Name of Division : Chittorgadh-II			Challan No. : 05/24		
1	401	10.21	56.46	11.41	0.6575
2	402	10.53	58.7	11.75	0.7266
3	403	10.92	52.5	11.75	0.6738
4	404	10.99	54.2	11.4	0.6792
5	405	10.59	58.31	10.86	0.6703
6	406	11.17	57.68	11.37	0.7328
7	407	10.36	47.74	12.13	0.5998
8	408	11.31	53.97	11.97	0.7306
9	409	10.63	59.25	10.9	0.6867
10	410	10.57	57.52	10.64	0.6469
11	411	10.39	55.45	11.79	0.6795
12	412	10.64	55.36	12.16	0.7161
13	413	10.09	57.69	11.68	0.6801
14	414	10.96	58.3	11.48	0.7332
15	415	10.51	55.39	12.2	0.7105
16	416	10.59	52.31	11.87	0.6576
17	417	10.76	54.54	11.83	0.694
18	418	10.53	59.55	11.75	0.7371
19	419	11.19	58.18	12.44	0.8102
20	420	11.11	51.99	11.64	0.6722
21	421	10.93	62.15	11.13	0.7564
22	422	11.43	56.99	11.44	0.7452
23	423	11.15	61.16	10.95	0.747
24	424	10.89	58.4	11.52	0.7329
25	425	11.55	59.55	11.54	0.7935
26	426	10.48	57.81	11.38	0.6896
27	427	11	57.61	11.7	0.7414
28	428	11.12	54.28	11.51	0.695
29	429	10.69	58.76	10.99	0.6906
30	430	11.65	55.84	11.37	0.7398
31	431	11.5	55.94	11.69	0.7521
32	432	10.82	58.92	12.25	0.7812
33	433	10.94	58	11.38	0.722
34	434	10.54	61.21	11.83	0.7631
35	435	10.93	62.03	11.75	0.7968
36	436	7.5	56.88	12.22	0.5213
37	437	11	57.46	10.67	0.6743
38	438	10.81	52.73	12.71	0.7243
39	439	10.79	62.1	10.92	0.7316
40	440	11.05	60.01	11.63	0.7713
41	441	10.89	62.4	11.35	0.771
42	442	4.97	55.84	10.66	0.2957

43	443	12.7	55.11	11.36	0.795
44	444	11.01	64	11.5	0.8103
45	445	12.1	55.89	11.18	0.7563
46	446	10.86	64.34	12.14	0.8482
47	447	10.88	62.97	11.18	0.766
48	448	9.69	49.81	12.27	0.5921
49	449	8.12	56.34	12.19	0.5578
50	450	10.74	47.82	12.07	0.6197
51	451	10.63	54.82	12.04	0.7016
52	452	11.03	55.31	11.66	0.7114
53	453	10.76	52.71	11.04	0.6262
54	454	10.73	54.87	11.14	0.6556
55	455	9.05	55.13	10.43	0.5204
56	456	10.62	52.93	12	0.6744
57	457	10.5	60.98	11.05	0.7077
58	458	10.48	52.45	12.85	0.7064
59	459	10.89	57.98	11.06	0.698
60	460	11.44	40.73	12.37	0.5766
61	461	11.04	53.86	11.86	0.7055
62	462	8.76	55.62	11.13	0.5422
63	463	10.66	57.23	11.38	0.694
64	464	10.39	53.81	11.8	0.6598
65	465	10.99	59.38	11.15	0.7275
66	466	10.31	61.06	12.32	0.7753
67	467	10.94	53.94	12.12	0.7155
68	468	11.97	52.38	11.21	0.7026
69	469	1.81	56.95	12.03	0.124
70	470	10.63	50.83	12.79	0.691
71	471	9.94	60.58	12.17	0.7326
72	472	10.71	56.72	11.81	0.7176
73	473	10.64	55.3	11.5	0.6767
74	474	10.64	60.46	11.11	0.715
75	475	11.24	54.05	11.23	0.6823
76	476	10.63	56.4	11.1	0.6654
77	477	10.32	56.5	11.4	0.6646
78	478	10.43	56.53	11.82	0.6967
79	479	12.06	53.53	11.06	0.714
80	480	10.88	58.41	11.81	0.7507
81	481	10.6	50.52	12.61	0.6752
82	482	10.63	53.62	10.91	0.6219
83	483	11.26	61.11	11.14	0.7668
84	484	11	55.38	11.27	0.6864
85	485	11.04	58.52	10.99	0.7099
86	486	11.47	53.42	11.1	0.6802
87	487	11.88	54.87	11.28	0.7354
88	488	11.02	56.53	11.23	0.6998
89	489	11.15	57.53	10.9	0.6991
90	490	10.67	53.17	11.72	0.6647
91	491	9	60.22	9.95	0.5391
92	492	10.92	56.64	11.23	0.6945

93	493	10.27	58.23	11.03	0.6593
94	494	10.92	55.1	10.69	0.6432
95	495	10.79	53.27	12.54	0.7208
96	496	11.03	59.82	11.08	0.7313
97	497	11.79	55.2	10.69	0.6956
98	498	10.91	61.29	11.73	0.7844
99	499	11.05	60.42	11.14	0.7437
100	500	9.61	61.8	10.76	0.6391

Name of Division : Chittorgadh-II			Challan No. : 28/133		
--	--	--	-----------------------------	--	--

1	2701	11.01	56.57	12.3	0.7663
2	2702	8.87	56.81	12.8	0.6448
3	2703	9.05	55.57	12.92	0.6498
4	2704	10.38	52.61	13.53	0.7391
5	2705	8.26	56.88	12.92	0.6071
6	2706	9.09	57.21	12.53	0.6518
7	2707	8.32	55.69	13.52	0.6265
8	2708	8.19	55.45	13.18	0.5987
9	2709	10.29	59.32	13.86	0.8458
10	2710	6.65	39.83	11.22	0.2973
11	2711	8.22	57.76	13.78	0.6543
12	2712	10.56	59.41	11.48	0.7202
13	2713	8.58	60.86	12.42	0.6486
14	2714	8.26	55.61	12.64	0.5807
15	2715	8.63	55.53	13.07	0.6265
16	2716	8.31	63.52	9.92	0.5235
17	2717	9.84	59.66	12.74	0.7478
18	2718	8.69	59.22	12.9	0.6639
19	2719	8.18	63.93	12.5	0.6536
20	2720	8.23	62.48	11.67	0.6
21	2721	8.39	61.44	10.69	0.5512
22	2722	10.15	59.57	13.03	0.7876
23	2723	10.66	61.12	13.14	0.856
24	2724	8.32	66.26	11.5	0.634
25	2725	10.63	57.16	11.95	0.726
26	2726	9	64.87	13.16	0.7686
27	2727	10.86	62.97	10.62	0.7265
28	2728	8.9	62.8	12.18	0.6808
29	2729	10.78	58	11.34	0.7093
30	2730	8.04	62.04	12.69	0.6327
31	2731	8.19	62.06	9.73	0.4947
32	2732	10.52	59.29	13.21	0.8237
33	2733	10.53	62.36	11.66	0.7655
34	2734	10.33	67.63	14.02	0.9793
35	2735	11.32	60.49	11.52	0.789
36	2736	7.83	57.04	13.27	0.5927
37	2737	8.26	65.36	13.11	0.7079
38	2738	10.31	60.89	13.57	0.8516
39	2739	8.28	66.39	12.89	0.7088
40	2740	8.47	66.97	13.65	0.7742
41	2741	10.35	68.18	13.35	0.9419

42	2742	8.26	68.5	12.38	0.7004
43	2743	10.27	68.59	13.49	0.95
44	2744	8.39	64.02	12.65	0.6796
45	2745	9.35	44.91	12.65	0.5311
46	2746	10.09	48.63	13.22	0.6488
47	2747	10.42	52.53	13.38	0.7325
48	2748	8.42	54.47	12.67	0.581
49	2749	8.29	51.83	12	0.5156
50	2750	8.48	51.19	12.39	0.5376
51	2751	8.1	52.47	13.47	0.5727
52	2752	8.15	48.39	12.46	0.4914
53	2753	8.12	50.45	12.47	0.5107
54	2754	10.19	52.39	11.7	0.6246
55	2755	10.21	49.34	12.95	0.6524
56	2756	8.4	54.57	12.39	0.5678
57	2757	8.07	52.83	13.57	0.5786
58	2758	8.09	55.64	13.34	0.6003
59	2759	8.17	52.73	12.69	0.5466
60	2760	8.5	52.67	13.25	0.5933
61	2761	10.15	56.32	13.05	0.746
62	2762	8.21	56.41	13.01	0.6026
63	2763	7.86	52.6	13.16	0.5439
64	2764	8.25	54.47	12.04	0.5412
65	2765	8.09	58.48	14.59	0.6901
66	2766	8.26	53.8	13.64	0.6063
67	2767	8.97	57.65	11.99	0.6198
68	2768	9.9	55.29	13.71	0.7504
69	2769	8.58	61.23	13.51	0.7096
70	2770	10.49	62.24	15.54	1.0144
71	2771	10.36	61.65	15.47	0.9883
72	2772	8.52	62.41	13.06	0.6944
73	2773	10.25	58.5	13.91	0.8343
74	2774	8.35	57.43	13.74	0.6588
75	2775	7.85	62.32	12.29	0.6013
76	2776	8.47	59.81	13.11	0.664
77	2777	10.16	58.2	12.94	0.765
78	2778	8.63	59.07	13.44	0.6852
79	2779	8.43	64.18	14.16	0.7663
80	2780	8.35	62.71	12.37	0.648
81	2781	8.45	63.69	13.64	0.7343
82	2782	8.13	61.65	14.01	0.7024
83	2783	8.45	62.16	13.29	0.698
84	2784	8.51	63.85	13.72	0.7455
85	2785	10.02	61.91	13.68	0.8487
86	2786	8.26	61.42	13.46	0.6831
87	2787	8.32	65.8	14.16	0.7754
88	2788	10.23	63.16	14.09	0.9105
89	2789	10.08	61.61	13.05	0.8104
90	2790	10.4	62.82	15.47	1.0109
91	2791	4.41	64.58	13.61	0.3876

92	2792	8.71	60.03	13.18	0.689
93	2793	10.14	58	13.43	0.7899
94	2794	9.04	59.03	16.03	0.8552
95	2795	8.55	61.5	12.78	0.672
96	2796	7.63	66.58	12.72	0.6463
97	2797	7.9	67.54	14.94	0.7971
98	2798	4.44	65.57	13.82	0.4023
99	2799	4.11	70.96	15.8	0.4607
100	2800	8.51	67.38	13.59	0.7795

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 35/140

1	3401	9.49	68.07	14.4	0.93
2	3402	8.38	65.18	13.15	0.7182
3	3403	7.79	63.25	13.53	0.6668
4	3404	8.25	69.59	14.13	0.811
5	3405	9.86	68.3	11.8	0.7947
6	3406	8.51	66.29	13.76	0.7761
7	3407	8.45	63.29	13.4	0.7166
8	3408	8.19	68.48	13.87	0.778
9	3409	9.5	65.06	12.14	0.7505
10	3410	7.92	59.38	13.86	0.6518
11	3411	9.78	63.6	12.74	0.7922
12	3412	8.59	66.21	12.67	0.7207
13	3413	8.49	68.5	13.56	0.7887
14	3414	8.64	65.37	13.55	0.7655
15	3415	7.95	63.32	14.2	0.7147
16	3416	7.95	65.83	13.52	0.7075
17	3417	8.28	64.91	12.54	0.674
18	3418	9.59	71.05	13.05	0.889
19	3419	9.52	66.95	13.5	0.8606
20	3420	8.28	68.76	11.56	0.6583
21	3421	9.86	60.73	12.73	0.7622
22	3422	8.3	66.84	14.03	0.7785
23	3423	9.36	67.82	13.21	0.8387
24	3424	7.34	61.31	13.82	0.6217
25	3425	8.11	67.37	12.9	0.7048
26	3426	7.85	68.46	13.64	0.7332
27	3427	4.93	56.19	12.58	0.3486
28	3428	7.57	61.8	12.86	0.6018
29	3429	9.4	45.88	12.73	0.549
30	3430	9.58	58.37	13.69	0.7654
31	3431	7.96	60.56	12.73	0.6137
32	3432	8.42	66.43	13.88	0.7763
33	3433	8.37	59.6	12.18	0.6077
34	3434	9.55	57.85	12.84	0.7096
35	3435	8.28	54.25	12.44	0.5589
36	3436	8.1	55.91	13.32	0.6035
37	3437	9.76	58.11	14.37	0.815
38	3438	7.94	59.55	12.38	0.5852
39	3439	8.14	59.73	12.27	0.5967
40	3440	8.13	63.02	12.81	0.6561

41	3441	8.51	60.99	13.84	0.7182
42	3442	8.23	55.12	12.74	0.5777
43	3443	9.84	63.11	14.48	0.8994
44	3444	9.83	63.8	12.54	0.7864
45	3445	8.21	57.09	12.42	0.5821
46	3446	3.99	59.76	13.87	0.3308
47	3447	5.05	57.17	12.19	0.352
48	3448	7.95	60.99	14.3	0.6932
49	3449	4.05	60.27	13.22	0.3228
50	3450	8.12	62.7	14.34	0.73
51	3451	9.49	65.36	14.49	0.8987
52	3452	10.06	66.92	13.69	0.9215
53	3453	10.06	61.28	13.95	0.8601
54	3454	8.37	63.41	14.71	0.7809
55	3455	8.18	65.16	14.63	0.7796
56	3456	8.23	66.54	14.49	0.7934
57	3457	7.81	62.73	12.67	0.6209
58	3458	9.8	63.26	12.54	0.7771
59	3459	7.76	59.84	12.75	0.5921
60	3460	9.75	60.2	12.66	0.743
61	3461	8.11	64.06	14	0.7275
62	3462	8.17	69.18	15.03	0.8497
63	3463	9.5	70.97	14.78	0.9966
64	3464	9.65	69.18	13.08	0.8733
65	3465	8.08	63.13	13.58	0.6925
66	3466	8.33	66.22	14.15	0.7805
67	3467	2.44	65.16	13.14	0.2089
68	3468	7.78	66.96	14.23	0.7414
69	3469	8.06	50.32	13.16	0.5336
70	3470	8.28	62.14	13.61	0.7005
71	3471	9.73	55.12	12.55	0.6733
72	3472	8.27	53.08	13.13	0.5764
73	3473	9.61	55.12	14.89	0.789
74	3474	11.07	57.74	15.34	0.9808
75	3475	7.52	53.44	13.94	0.5602
76	3476	10.41	62.94	13.97	0.915
77	3477	10.31	61.32	13.71	0.8671
78	3478	8.2	59.96	13.01	0.6396
79	3479	7.36	58.92	12.17	0.5277
80	3480	8.22	58.96	13.08	0.6338
81	3481	8.7	61.42	13.74	0.7343
82	3482	8.46	66	12.62	0.7047
83	3483	9.83	65.5	13.73	0.8837
84	3484	8.4	69.59	13.82	0.8081
85	3485	9.99	69.36	14.13	0.979
86	3486	10.06	67.87	13.17	0.8994
87	3487	8.1	59.68	12.94	0.6253
88	3488	8.12	60.72	9.06	0.4466
89	3489	8.32	67.36	13.39	0.7505
90	3490	10.07	54.8	11.64	0.6425

91	3491	10.52	61.87	13.04	0.849
92	3492	9.85	62.17	10.81	0.6619
93	3493	10.36	56.8	12.13	0.7138
94	3494	10.34	60.55	12.25	0.7672
95	3495	9.4	60.24	12.88	0.7294
96	3496	10.67	60.77	13.12	0.8504
97	3497	10.06	62.34	13.76	0.8631
98	3498	9.99	57.5	11.88	0.6823
99	3499	9.73	60.4	12.19	0.7161
100	3500	10.32	56.25	12.62	0.7327

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 36/141

1	3501	9.62	59.96	12.46	0.7186
2	3502	8.12	56.14	12.5	0.57
3	3503	8.34	63.18	12.55	0.6614
4	3504	9.47	61.81	11.75	0.6875
5	3505	10.18	55.42	11.96	0.6749
6	3506	9.66	56.97	12.8	0.7042
7	3507	8.02	52.51	13.35	0.5622
8	3508	9.23	60.22	10.86	0.6036
9	3509	11.09	64.12	12.48	0.8872
10	3510	10.21	60.43	12.97	0.8005
11	3511	10.22	63.86	10.8	0.7052
12	3512	10.19	59.38	12.04	0.7286
13	3513	10.27	65.07	12.57	0.8401
14	3514	10.54	63.85	11.75	0.7905
15	3515	10.34	60.3	12.84	0.8003
16	3516	9.85	59.67	12.64	0.7427
17	3517	9.83	65.44	12.38	0.7962
18	3518	9.95	64.33	12.93	0.8278
19	3519	10.45	63.55	10.94	0.7263
20	3520	10.37	64.01	12.58	0.8348
21	3521	10.22	51.1	11.72	0.6122
22	3522	9.49	51.79	13.21	0.6491
23	3523	10.02	52.53	13.67	0.7194
24	3524	8.13	52.18	13.2	0.5602
25	3525	8.35	56.96	13.92	0.6622
26	3526	9.82	55.51	14	0.763
27	3527	8.39	56.01	13.25	0.6225
28	3528	10.07	62.17	9.7	0.6072
29	3529	9.66	64.3	13.62	0.8462
30	3530	8.39	61.4	12.49	0.6435
31	3531	8.6	52.14	12.6	0.565
32	3532	8.13	55.9	13.43	0.6106
33	3533	8.62	54.69	12.98	0.612
34	3534	8.12	45.37	13.49	0.4969
35	3535	8.25	49.04	13.66	0.5528
36	3536	8.17	55.08	13.29	0.598
37	3537	8.42	52.64	13.53	0.5995
38	3538	9.25	56.82	12.43	0.653
39	3539	8.03	55.08	12.25	0.542

40	3540	8.23	58.79	12.35	0.5975
41	3541	9.25	59.92	14.32	0.7936
42	3542	10.33	57.7	11.98	0.7138
43	3543	10.06	63.6	13.14	0.841
44	3544	8.13	47.28	9.26	0.3561
45	3545	8.36	47.83	10.79	0.4314
46	3546	10.34	51.36	11.37	0.6039
47	3547	10.25	49.23	10.79	0.5443
48	3548	10.68	50.94	10.99	0.5981
49	3549	10.28	55.41	11.84	0.6744
50	3550	8.74	57.83	11.26	0.569
51	3551	10.5	57.32	11.3	0.6804
52	3552	10.65	52.52	12.19	0.6816
53	3553	8.22	55	11.91	0.5384
54	3554	10.22	57.24	11.27	0.6592
55	3555	10.49	59.37	10.49	0.6535
56	3556	8.4	56.98	11.97	0.5729
57	3557	10.08	61.2	11.39	0.7026
58	3558	10.42	58.54	11.7	0.7138
59	3559	11	52.83	11.83	0.6875
60	3560	4.72	61.74	12.7	0.37
61	3561	10.32	61.69	11.25	0.7162
62	3562	10.49	63.87	10.26	0.6871
63	3563	10.32	63.82	11.25	0.741
64	3564	7.95	58.22	11.68	0.5406
65	3565	10.16	59.43	9.51	0.574
66	3566	7.88	46.75	14.25	0.5248
67	3567	8.45	52.57	13.87	0.616
68	3568	8.37	47.99	13.38	0.5374
69	3569	9.91	53.13	12.99	0.6838
70	3570	8.01	55.15	14.87	0.6568
71	3571	7.7	55.75	13.61	0.5844
72	3572	9.68	56.65	12.76	0.6999
73	3573	8.29	58.72	13.08	0.6367
74	3574	9.35	56.43	12.94	0.6826
75	3575	8.49	58.47	13.48	0.669
76	3576	7.95	59.83	13.96	0.6638
77	3577	8.73	57.74	13.79	0.6949
78	3578	8.11	59.71	13.11	0.635
79	3579	8.43	57.79	13.58	0.6618
80	3580	7.78	58.56	11.58	0.5275
81	3581	8.06	55.9	13.35	0.6013
82	3582	8.4	57.34	12.28	0.5914
83	3583	8.71	55.17	13.32	0.6402
84	3584	8.13	61.24	12.74	0.6341
85	3585	8.31	55.72	14.09	0.6523
86	3586	8.23	60.84	12.69	0.6354
87	3587	7.92	57.74	13.73	0.6281
88	3588	4.29	54.37	13.94	0.3252
89	3589	10.08	56.66	13.29	0.759

90	3590	8.33	58.21	13.31	0.6456
91	3591	7.86	64.13	14.86	0.7491
92	3592	7.99	49.34	13.17	0.5194
93	3593	10.04	53.63	14.95	0.8052
94	3594	6.59	54.63	13.34	0.4804
95	3595	7.81	54.77	13.36	0.5717
96	3596	8.09	52.84	12.81	0.5477
97	3597	7.98	49.86	12.84	0.5107
98	3598	8.51	62.5	5.81	0.3089
99	3599	8.14	54.6	13.53	0.6015
100	3600	8.12	62.57	13.19	0.6699

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 37/142

1	3601	8.13	59.1	12.72	0.6114
2	3602	8.33	63.55	12.59	0.6664
3	3603	8.18	59.59	12.97	0.6323
4	3604	7.84	50.36	13.01	0.5135
5	3605	8.36	53.16	12.04	0.535
6	3606	8.43	50.76	12.51	0.5353
7	3607	4.45	59.52	12.37	0.3275
8	3608	4.61	58.71	12.45	0.337
9	3609	8.38	58.57	12.92	0.6344
10	3610	4.26	55.29	12.19	0.2871
11	3611	7.57	61.01	12.34	0.57
12	3612	8.38	50.77	11.94	0.5078
13	3613	8.09	54.1	12.03	0.5267
14	3614	8.56	58.65	12.45	0.6249
15	3615	8.42	60.54	12.83	0.6542
16	3616	8.1	58.39	12.93	0.6116
17	3617	8.07	55.61	11.92	0.535
18	3618	5.7	57.11	12.55	0.4087
19	3619	8.51	55.83	11.59	0.5506
20	3620	8.52	61.22	10.67	0.5564
21	3621	8.43	54.83	11.78	0.5446
22	3622	8.53	60.54	12.42	0.6415
23	3623	8.26	59.28	11.89	0.5823
24	3624	10.77	65.94	11.46	0.8142
25	3625	5.48	57.1	12.08	0.3781
26	3626	4.62	57.6	12.01	0.3197
27	3627	5.52	64.16	12.11	0.4289
28	3628	5.63	67.38	12.11	0.4594
29	3629	9.01	58.06	12.57	0.6577
30	3630	4.62	60.35	11.12	0.31
31	3631	4.02	68.13	12.05	0.33
32	3632	8.6	63.57	11.8	0.645
33	3633	5.4	60.64	12.58	0.412
34	3634	8.88	60.82	12.23	0.6607
35	3635	11.17	48.73	12.25	0.6668
36	3636	11	52.73	12.04	0.6985
37	3637	11.6	57.86	11.49	0.7714
38	3638	11.15	51.73	12.16	0.7013

39	3639	10.21	49.94	12.13	0.6187
40	3640	8.66	60.61	12.13	0.6365
41	3641	10.86	59.73	11.65	0.7559
42	3642	4.62	60.44	12.77	0.3567
43	3643	8.79	57.4	12.75	0.6434
44	3644	10.99	55.37	12.84	0.7814
45	3645	8.9	58.26	12.79	0.663
46	3646	10.11	56.31	12.36	0.7037
47	3647	8.67	58.62	12.45	0.6329
48	3648	8.55	58.77	12.44	0.625
49	3649	7.65	54.44	12.64	0.5263
50	3650	10.71	60.77	11.63	0.7572
51	3651	4.59	59.12	12.53	0.3401
52	3652	4.71	64.2	12.71	0.3843
53	3653	4.34	59.83	12.17	0.316
54	3654	4.35	61.26	12.54	0.3341
55	3655	8.26	53.26	11.68	0.5138
56	3656	10.18	55.52	11.24	0.6352
57	3657	9.9	60.74	11.57	0.696
58	3658	4.13	54.39	11.95	0.2685
59	3659	8.74	62.19	7.85	0.4265
60	3660	8.21	60.8	12.62	0.6297
61	3661	8.06	49.16	13	0.515
62	3662	8.31	49.16	13.3	0.5435
63	3663	10	53.68	12.46	0.669
64	3664	8.65	52.27	12.34	0.5579
65	3665	8.63	56.26	11.62	0.5644
66	3666	8.91	58.07	13.43	0.695
67	3667	8.55	56.29	11.49	0.5532
68	3668	9.05	59.24	11.9	0.638
69	3669	8.95	54.93	11.21	0.5513
70	3670	8.56	56.37	12.05	0.5812
71	3671	8.54	58.73	11.56	0.5799
72	3672	8.37	56.94	11.52	0.5491
73	3673	11.46	61.49	10.38	0.7311
74	3674	10.36	62.36	10.78	0.6962
75	3675	8.3	66.08	10.12	0.5553
76	3676	4.34	56.24	12.5	0.3051
77	3677	8.23	63.09	14.23	0.7391
78	3678	8.13	59.17	14.08	0.6772
79	3679	4.17	58.38	12.86	0.3132
80	3680	7.41	58.73	13.06	0.5683
81	3681	10.2	50.23	11.85	0.6069
82	3682	5.07	57.43	13.13	0.3823
83	3683	9.84	59.05	12.19	0.7085
84	3684	9.73	55.5	12.63	0.6821
85	3685	10.48	58.79	13.13	0.8091
86	3686	11.15	62.95	13.07	0.9176
87	3687	10.43	60.28	13.4	0.8427
88	3688	8.19	59.16	12.76	0.6183

89	3689	8.02	55.14	13.22	0.5847
90	3690	8.75	60.55	12.54	0.6641
91	3691	10.3	56.94	13.33	0.7818
92	3692	8.49	63.42	13.12	0.7064
93	3693	8.99	62.6	12.49	0.703
94	3694	7.56	63.64	14.77	0.7106
95	3695	10.98	67.51	13.06	0.9684
96	3696	4.5	53.69	13.76	0.3325
97	3697	8.8	51.53	12.71	0.5764
98	3698	9.35	47.57	13.22	0.5881
99	3699	4.45	48.09	13.56	0.2901
100	3700	5.16	54.23	13.35	0.3736

Name of Division : Chittorgadh-II

Challan No. : 38/143

1	3701	7.82	47.83	13.65	0.5106
2	3702	7.56	59.84	12.55	0.5678
3	3703	9.2	55.51	13.91	0.7102
4	3704	3.94	52.06	12.87	0.264
5	3705	7.43	53.34	12.77	0.506
6	3706	7.85	50.85	14	0.5589
7	3707	7.75	52.83	12.63	0.5169
8	3708	9.21	41.33	12.34	0.4697
9	3709	9.42	56.09	11.8	0.6236
10	3710	7.98	61.89	12.96	0.64
11	3711	5	64.65	13.33	0.431
12	3712	9.95	50.66	13.03	0.6567
13	3713	10.41	53.55	13.22	0.737
14	3714	9.6	53.75	13.47	0.695
15	3715	9.9	51.55	13.52	0.69
16	3716	4.12	53.52	12.95	0.2855
17	3717	7.92	55.06	14.62	0.6376
18	3718	10.18	61.93	13.58	0.8561
19	3719	8.37	62.02	14.08	0.7307
20	3720	8.49	55.45	12.43	0.585
21	3721	7.85	59.27	12.72	0.5919
22	3722	8.16	52.05	14.04	0.5965
23	3723	8.37	55.93	13.95	0.6529
24	3724	7.96	55.3	14.25	0.6272
25	3725	4.88	52.18	13.66	0.3479
26	3726	7.8	57.19	13.62	0.6076
27	3727	8.04	59.88	13.29	0.64
28	3728	9.71	62.3	13.47	0.8147
29	3729	9.72	64.6	12.6	0.7912
30	3730	8.22	62.57	12.43	0.6395
31	3731	8.36	54.96	13.43	0.617
32	3732	8.81	57.06	13.86	0.6969
33	3733	7.68	53.21	14.96	0.6113
34	3734	8.52	59.76	13.84	0.7046
35	3735	10.28	63.71	13.39	0.8769
36	3736	8.83	61.49	11.6	0.6296
37	3737	9.5	61.31	14.32	0.8341

38	3738	8.33	65.72	13.94	0.763
39	3739	8.43	60.78	13.66	0.6997
40	3740	9.71	65.41	13.61	0.8642
41	3741	8.95	60.66	11.98	0.6507
42	3742	8.35	57.01	11.73	0.5586
43	3743	10.03	67.72	11.9	0.8084
44	3744	8.97	62.89	11.62	0.6557
45	3745	8.58	68.05	13.24	0.7731
46	3746	8.59	59.36	13.61	0.6941
47	3747	8.2	65.64	12.36	0.665
48	3748	8.17	60.48	13.74	0.6789
49	3749	9.89	64.31	13.34	0.8486
50	3750	8.36	68.48	14.81	0.8477
51	3751	8.06	59.95	12.79	0.6182
52	3752	9.98	63.67	13.73	0.8723
53	3753	8	66.19	12.12	0.6416
54	3754	9.76	66.08	12.3	0.7935
55	3755	8.68	65.1	13.23	0.7473
56	3756	8.38	68.8	14.74	0.8497
57	3757	9.93	65.5	13.63	0.8867
58	3758	7.41	56.2	13.68	0.5698
59	3759	9.58	59.52	14.95	0.8526
60	3760	9.63	59.01	13.81	0.7848
61	3761	6.73	53.15	12.14	0.4341
62	3762	9.75	60.91	12.74	0.7566
63	3763	9.51	55.13	12.53	0.6571
64	3764	8.11	48.74	14.55	0.575
65	3765	8.15	59.49	14.09	0.683
66	3766	7.78	58.16	12.69	0.5742
67	3767	3.68	58.07	12.38	0.2646
68	3768	9.61	59.25	13.87	0.7899
69	3769	8.49	62.42	13.17	0.6979
70	3770	7.76	58.54	12.69	0.5766
71	3771	8.07	55.66	13.06	0.5867
72	3772	9.95	56.68	13.27	0.7482
73	3773	8.38	53.68	12.7	0.5715
74	3774	8.2	56.52	13.46	0.624
75	3775	7.79	57.6	12.74	0.5718
76	3776	3.07	50.63	13.77	0.214
77	3777	7.77	52.41	13.59	0.5532
78	3778	7.89	54.93	12.83	0.5562
79	3779	4.22	59.5	11.11	0.2789
80	3780	7.72	51.34	12.47	0.4941
81	3781	7.85	49.94	11.85	0.4647
82	3782	7.99	53.97	13.34	0.5753
83	3783	4.6	56.69	13.65	0.356
84	3784	7.35	54.85	12.67	0.5108
85	3785	4.19	56.8	13.61	0.3239
86	3786	3.83	50.04	12.87	0.2467
87	3787	9.62	59.9	13.97	0.8052

88	3788	3.91	63.85	14.52	0.3625
89	3789	9.79	55.53	12.59	0.6843
90	3790	8.26	68.28	13.62	0.7682
91	3791	7.47	56.46	13.34	0.5625
92	3792	7.31	57.26	13.62	0.5702
93	3793	7.71	63.42	13.21	0.6461
94	3794	8.45	50.59	12.55	0.5366
95	3795	7.95	44.86	12.95	0.4619
96	3796	4.8	52.24	13.97	0.3504
97	3797	9.71	52.14	13.2	0.668
98	3798	7.32	50.91	12.53	0.467
99	3799	9.22	53.35	14.28	0.7026
100	3800	7.87	50.99	13.57	0.5446

Date: 14.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division :Chittaurgadh-II****Challan No. : 01/15**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	26	10.23	51.23	11.26	0.5903
2	84	10.85	59.75	12.35	0.8007
3	3	7.3	50.87	12.11	0.4497
4	1	8.38	55.74	12.65	0.5908
5	35	11.53	57.65	11.50	0.7644
6	30	11.45	44.44	11.36	0.5782
7	5	9.78	61.33	12.46	0.7472
8	25	10.76	56.37	12.12	0.7349
9	52	10.79	59.15	12.31	0.7855
10	65	9.57	52.03	11.65	0.5799
11	60	8.14	49.82	11.68	0.4737
12	6	8.21	61.27	13.11	0.6593
13	2	7.66	57.45	12.55	0.5523
14	61	8.54	51.73	12.29	0.5431
15	100	11.33	57.94	11.48	0.7534
16	98	11.06	52.61	12.51	0.7277
17	83	10.94	58.07	11.76	0.7472
18	57	9.05	59.14	11.31	0.6054
19	41	9.33	54.01	11.87	0.5981
20	66	9.67	56.32	11.99	0.6527
21	4	7.98	54.90	12.99	0.5690
22	22	10.63	57.14	12.55	0.7622
23	68	11.56	45.78	13.00	0.6878
24	89	10.65	56.52	11.20	0.6741
25	45	10.9	55.97	12.52	0.7641
26	62	10.09	51.34	9.43	0.4884
27	18	10.57	58.18	10.74	0.6606
28	28	8.3	63.83	13.05	0.6914
29	86	12.11	51.96	11.55	0.7266
30	48	11.3	57.42	11.29	0.7322
31	59	10.02	58.12	12.22	0.7114
32	11	8.25	66.63	13.27	0.7293
33	27	10.49	55.17	12.94	0.7490
34	50	11.11	60.59	13.07	0.8799
35	88	12.07	52.91	11.55	0.7375
36	15	4.04	60.29	14.15	0.3446
37	72	10.62	45.66	12.05	0.5841
38	90	11.56	52.86	12.22	0.7468
39	31	10.41	48.49	12.13	0.6121
40	16	8.73	61.51	12.14	0.6521
41	38	8.93	55.20	12.66	0.6242
42	75	11.52	51.98	12.04	0.7212
43	97	11.54	56.97	11.48	0.7547
44	93	11.07	53.54	12.27	0.7273

45	20	8.45	59.32	11.24	0.5636
46	46	11.18	54.98	12.35	0.7591
47	9	7.74	55.73	12.85	0.5542
48	40	11.07	52.66	12.36	0.7207
49	77	11.24	45.57	11.78	0.6036
50	54	10.43	49.32	12.10	0.6227
51	69	12.2	51.08	11.53	0.7186
52	23	10.54	57.49	12.96	0.7852
53	37	11.02	53.75	12.58	0.7450
54	82	11.28	53.78	12.55	0.7614
55	29	8.89	43.42	12.57	0.4854
56	44	9.86	53.79	12.75	0.6764
57	56	11.46	57.62	12.77	0.8435
58	78	10.84	53.67	12.30	0.7154
59	42	11.68	51.18	13.23	0.7907
60	51	10.95	51.54	13.31	0.7512
61	81	10.9	58.41	12.72	0.8099
62	49	10.71	57.45	12.13	0.7465
63	17	10.66	54.88	10.84	0.6343
64	43	9.89	51.28	12.99	0.6587
65	14	3.33	67.62	14.49	0.3263
66	96	9.33	54.14	12.39	0.6260
67	99	12.22	55.06	11.77	0.7919
68	95	9.25	55.06	12.13	0.6179
69	71	11.14	54.10	12.50	0.7531
70	24	10.5	54.53	11.83	0.6772
71	47	11.38	55.33	12.47	0.7852
72	58	4.82	60.12	11.49	0.3331
73	13	8.3	62.37	12.86	0.6657
74	7	8.07	52.10	13.67	0.5746
75	87	11.4	55.57	12.25	0.7763
76	55	6.52	59.07	13.04	0.5020
77	80	11.06	55.18	12.23	0.7466
78	21	8.86	63.10	11.55	0.6459
79	64	9.92	46.77	12.42	0.5764
80	19	10.92	57.14	11.67	0.7284
81	39	11.36	48.65	11.12	0.6146
82	94	5.51	52.84	13.70	0.3989
83	92	11.24	52.54	11.86	0.7003
84	32	12.15	51.10	12.31	0.7642
85	85	11.82	47.61	11.97	0.6737
86	33	10.68	47.85	12.02	0.6141
87	34	11.39	48.15	12.19	0.6686
88	73	12.09	52.04	12.68	0.7979
89	36	11.55	57.64	12.21	0.8131
90	70	9.33	44.81	13.23	0.5533
91	91	11.5	53.95	11.51	0.7142
92	8	8.02	58.29	12.88	0.6023
93	10	7.86	51.75	12.46	0.5070
94	76	11.6	54.61	11.94	0.7563

95	67	9.96	55.62	12.80	0.7092
96	63	10.35	54.29	9.69	0.5444
97	79	10.91	50.05	13.03	0.7113
98	74	12.15	50.03	12.43	0.7557
99	12	9.96	60.09	12.68	0.7590
100	53	11.08	59.65	12.14	0.8022

Date: 03.08.2022

अस्वीकरण:--

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।